



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 श्रावण 1941 (श10)

(सं० पटना 909) पटना, बृहस्पतिवार, 1 अगस्त 2019

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

28 अप्रैल 2017

बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017

सं० 11/न०वि०/विविध०(Real Estate)-30/2016-344/न०वि० एवं आ०वि०—भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और धारा 2 के खंड (छ) के उप-खंड-(iv) के अनुसरण में बिहार सरकार निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : —

अध्याय—I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) यह नियमावली बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं : (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित हो,—

(क) “अधिनियम” से भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 अभिप्रेत है।

(ख) “आवंटितियों का संगम” से किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो और उसके सदस्यों के हेतु की पूर्ति करने के लिए किसी समूह के रूप में कार्यरत हो और इसके अन्तर्गत आवंटितियों के प्राधिकृत प्रतिनिधि है।

(ग) “अधिप्रमाणित प्रति” किसी दस्तावेज की एक स्व-सत्यापित प्रति अभिप्रेत है।

(घ) “फार्म” से इन नियमों से उपाबद्ध फार्म अभिप्रेत है।

(ङ) “समुचित सरकार” से राज्य सरकार अभिप्रेत है।

(च) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) इसमें प्रयोग किए गए शब्द और पद जो इन नियमों में परिभाषित नहीं किए गए परन्तु अधिनियमों में परिभाषित किए गए हैं, के वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं।

अध्याय-II

भू-संपदा परियोजना

3. प्रवर्तक द्वारा परियोजना के पंजीकरण के लिए प्रदान की जाने वाली सूचना और दस्तावेज :

- (1) प्रवर्तक प्राधिकरण के पास परियोजना के पंजीकरण के लिए अधिनियम धारा 4 के अंतर्गत विनिर्धारित दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित सूचना और दस्तावेज प्रदान करेगा, अर्थात:-
 - (क) प्रवर्तक के पेनकार्ड एवं आधार कार्ड की अधिप्रमाणित प्रति।
 - (ख) वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें लेखापरीक्षित लाभ और हानि लेखा, तुलनपत्र, नकद प्रवाह विवरण, निदेशक रिपोर्ट और तीन वित्तीय वर्षों से तत्काल पहले की लेखा परीक्षक रिपोर्ट हो तथा वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध न हो तो लेखापरीक्षित लाभ व हानि लेखा, तुलनपत्र, नकद प्रवाह विवरण और तीन वित्तीय वर्ष के तत्काल पहले की प्रवर्तक की लेखा परीक्षण रिपोर्ट हो।
 - (ग) उक्त भू-संपदा परियोजना में उपलब्ध खुले पार्किंग क्षेत्रों और बंद पार्किंग क्षेत्रों की संख्या।
 - (घ) उस भूमि जिस पर ऐसे स्वामित्व के साथ कानूनी रूप से वैध दस्तावेजों सहित परियोजना के विकास का प्रस्ताव है के प्रवर्तक के स्वामित्व को दर्शाते हुए विधिक स्वामित्व विलेख की अभिप्रमाणित प्रति।
 - (ङ) भूमि पर ऋणभार का व्यौरा जिस पर परियोजना प्रस्तावित है जिसमें किसी अधिकार, हकदारी, हित, देय, मुकदमा का व्यौरा तथा ऐसी भूमि पर किसी पार्टी का नाम अथवा कम से कम दस वर्ष के अनुभवी वकील के माध्यम से तहसीलदाल के रैंक से अन्यून के राजस्व प्राधिकारी से जैसा भी मामला हो, ऋणभार-मुक्त का प्रमाणपत्र।
 - (च) जहाँ प्रवर्तक उस भूमि जिस पर परियोजना के विकास का प्रस्ताव है, का स्वामी न हो उस भूमि का प्रवर्तक और ऐसे स्वामी के बीच हस्ताक्षरित सहयोग करार, संयुक्त विकास करार अथवा किसी अन्य करार, जैसा भी मामला हो की एक प्रति सहित भूमि के स्वामी की सहमति का विवरण और उस भूमि जिस पर परियोजना के विकसित किए जाने का प्रस्ताव है पर ऐसे स्वामी के स्वामित्व के अन्य दस्तावेजों की प्रतियाँ।
 - (छ) यदि प्रवर्तक कोई व्यक्ति है तो उसका नाम, फोटो, संपर्क विवरण और पता हो तथा अध्यक्ष, साझेदार, निदेशकों और अन्य सत्ताओं की दशा में, जैसा भी मामला हो, उनके अधिकृत व्यक्ति इत्यादि का नाम, फोटो, संपर्क विवरण और पता।
 - (ज)
 - (i) स्वीकृत नक्शा जहाँ परियोजना विकसित की जा रही है के साथ साथ FSI/TDR सम्बंधित जानकारी एवं अन्य पात्रताएं जिनका उपयोग, तत्काल प्रभावी DCR के अनुसार होना है, जिसके द्वारा स्वीकृत नक्शा का कार्यान्वयन होना है एवं स्वीकृत नक्शा के अनुसार आम सुविधाएं(आम क्षेत्रों, पार्किंग क्षेत्रों सहित) प्रदान करना है।
 - (ii) पूरी परियोजना का प्रस्तावित प्लान, प्रस्तावित लेआउट प्लान एवं प्रवर्तक द्वारा प्रस्तावित FSI जिसका उपयोग परियोजना में किया जाना है।
 - (iii) प्रस्तावित FSI जिसका खपत करना है एवं स्वीकृत FSI। यदि स्वीकृत FSI प्रस्तावित FSI जिसका खपत होना है उससे भिन्न है तब पंजीकरण के समय प्रस्तावित FSI बताना होगा तथा जब भी FSI स्वीकृत होगी, इसे समय समय पर प्रवर्तक द्वारा प्राधिकार की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।
 - (iv) भवनों एवं विंग्स की प्रस्तावित संख्या जिनका निर्माण करना है तथा इनकी स्वीकृत संख्या। यदि दोनों की संख्या भिन्न है तो समय समय पर इसकी जानकारी प्रवर्तक द्वारा प्राधिकार की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।
 - (v) भवनों एवं विंग्स के प्रस्तावित भूतलों की संख्या जिनका निर्माण करना है तथा इनकी स्वीकृत संख्या। यदि दोनों की संख्या भिन्न है तो समय समय पर इसकी जानकारी प्रवर्तक द्वारा प्राधिकार की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।
 - (vi) मनोरंजन के लिए खुले क्षेत्रों का aggregate एरिया (वर्ग मीटर में)
 - (झ) वास्तुकला एवं डिजाइन मानकों के ब्यौरे, निर्माण प्रौद्योगिकी के प्रकार एवं भूकंप प्रतिरोधी उपाय जिनको किसी भू-सम्पदा के लेआउट प्लान में, भवनों एवं आम क्षेत्रों तथा सुविधाओं के लिए अपनाया जाना है।

- (2) जब तक ऐसे आवेदन को फाइल करने के लिए प्रक्रिया वेब-आधारित कहीं बनाई जाती है, तब तक प्राधिकरण को भू-संपदा परियोजना के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फार्म 'क' में तीन प्रतियों में लिखित में किया जाएगा।
 - (3) प्रवर्तक निम्नलिखित की दर से हिसाब लगाई गई राशि का किसी अनुसूचित बैंक पर ड्रा किए गए एक डिमांड ड्राफ्ट के जरिए अथवा ऑनलाईन भुगतान, जैसा भी मामला हो के माध्यम से पंजीकरण के लिए आवेदन के समय पर पंजीकरण शुल्क का भुगतान करेंगे:-
 - (क) सामूहिक आवास परियोजना के मामले में उन परियोजनाओं के लिए पाँच रुपये प्रति वर्ग मीटर जहाँ पर विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित भूमि का क्षेत्र एक हजार वर्ग मीटर से अधिक नहीं है; अथवा उन परियोजनाओं के लिए 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर जहाँ पर विकसित की जाने वाल प्रस्तावित भूमि का क्षेत्र एक हजार वर्ग मीटर से अधिक होता है और जो 5 लाख रुपये से अधिक की नहीं होगी।
 - (ख) मिश्रित विकास (आवासीय और वाणिज्यिक) परियोजनाओं के मामले में उन परियोजनाओं के लिए प्रति वर्ग मीटर जहाँ विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि का क्षेत्र एक हजार वर्ग मीटर से अधिक नहीं होता है, अथवा उन परियोजना के लिए 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर जहाँ विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि का क्षेत्र एक हजार वर्ग मीटर से अधिक होता है और जो सात लाख रुपये से अधिक भी नहीं होगी।
 - (ग) वाणिज्यिक परियोजनाओं के मामले में, उन परियोजनाओं के लिए बीस रुपये प्रति वर्ग मीटर जहाँ विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि का क्षेत्र एक हजार वर्ग मीटर से अधिक नहीं होता है, अथवा उन परियोजनाओं के लिए 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर जहाँ विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि का क्षेत्र एक हजार वर्ग मीटर होता है और जो दस लाख रुपये से अधिक भी नहीं होगी।
 - (घ) भूखंड पर विकसित की जाने वाली परियोजनाओं के मामले में पांच रुपये प्रति वर्ग मीटर परन्तु दो लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।
 - (4) धारा (4) की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा फार्म (ख) के अनुसार होगी जिसमें यह बताते हुए एक घोषणा शामिल होगी कि प्रवर्तक किसी अपार्टमेंट, भूखंड अथवा भवन, जैसी भी मामला हो के आवंटन के समय पर किसी आवंटी के साथ भेदभाव नहीं करेगा।
- 4. चल रही परियोजनाओं का प्रवर्तकों द्वारा अतिरिक्त प्रकटीकरण:-**
- (1) धारा 3 की उपधारा (1) के प्रारंभ की अधिसूचना पर सभी चल रही परियोजनाओं के प्रवर्तक जिनको पूर्णतः प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है यह उक्त उप-धारा में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्राधिकरण को एक आवेदन करेगा जैसी कि नियम 3 में व्यवस्था की गई है।
 - (2) प्रवर्तक नियम 3 में की गई व्यवस्था के अनुसार प्रकटीकरणों के अतिरिक्त निम्नलिखित जानकारी भी देगा अर्थात्:-
 - (क) मूल स्वीकृत नक्शा, लेआउट प्लान और विनिर्देशन और बाद में किए गए संशोधन, यदि कोई हो इसमें मौजूदा स्वीकृत नक्शे, लेआउट प्लान और विनिर्देशन शामिल है।
 - (ख) आवंटियों से संग्रह की गई धन की कुल धन की राशि और प्रवर्तक के पास पड़े हुए बकाया धन की कुल राशि समेत परियोजना के विकास के लिए उपयोग किए गए धन की कुल धनराशि।
 - (ग) देरी और समयावधि जिसके भीतर वह लंबित परियोजना को पूरा करने की वचनबद्धता देता है या सहित बिक्री के समय को परियोजना को पूरा करने के लिए आवंटी की बताई गई मूल समयावधि समेत परियोजना की स्थिति (आज तक किए गए विकास की सीमा और लंबित विकास की सीमा), इस लंबित परियोजना को पहले पूरे किए गए विकास की सीमा से शुरू किया जाएगा और इस सूचना को किसी अभियंता, वास्तुकार और प्रैक्टिस में लगे किसी सनदी लेखापाल द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।
 - (3) प्रवर्तक दरी क्षेत्र पर आधारित अपार्टमेंट का आकार बताएगा, भले ही उस सुपर क्षेत्रफल, सुपर निर्मित क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल इत्यादि जैसे किसी अन्य पर आधार पर पहले बेचा गया हो, यह प्रवर्तक और आबंटी के बीच हस्ताक्षर हुए करार की विधिमान्यता को उस सीमा तक प्रभावित नहीं करेगा।
 - (4) भू-खंड पर हुए विकास के मामले में, प्रवर्तक लेआउट प्लान के अनुसार आवंटियों को बेचे गए भू-खंड क्षेत्रफल को बताएगा।
 - (5) चल रही परियोजनाओं और जिपको समापन प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को प्रवर्तक प्राधिकरण के पास परियोजना के पंजीकरण के लिए आवेदन के तीन महीनों की अवधि के भीतर पृथक बैंक खाते में आबंटियों से पहले ही प्राप्त की जा चुकी 70 प्रतिशत धनराशि जमा करेगा जिसको धारा-4 की उप धारा (2) के खंड (ठ) के उपखंड (घ) के अंतर्गत यथा

अपेक्षित परियोजना के निर्माण और परियोजना की भूमि लागत के लिए उपयोग नहीं किया गया है, इसको इसमें विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जाएगा।

5. परियोजना के पंजीकरण की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति:—

- (1) नियम 3 और नियम 4 के साथ पठित धारा-5, जैसा भी मामला हो के अनुसार किसी परियोजना के पंजीकरण होने पर प्राधिकरण प्रवर्तक को फार्म 'ग' के अनुसार पंजीकरण संख्या सहित एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
- (2) प्राधिकरण आवेदक के धारा-5 के अनुसार आवेदन की अस्वीकृति के मामले में फार्म 'घ' के अनुसार सूचित करेगा। बशर्ते कि प्राधिकरण प्रवर्तक को उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर आवेदन में कर्मियों को ठीक करने के एक अवसर प्रदान करें।

6. परियोजना के पंजीकरण का विस्तार—

- (1) प्रवर्तक द्वारा फार्म 'ड' में किए गए आवेदन, जिनको तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा, पर धारा-6 के अनुसार धारा-5 के अंतर्गत प्रदान किए गए पंजीकरण को बढ़ाया जा सकता है जब तक कि आवेदन क्रियाविधि वेब आधारित विधि से की गई हो और वह स्वीकृत/प्रदान किए गए पंजीकरण की समाप्ति से पहले तीन मास से कम की नहीं होगी।
- (2) पंजीकरण के विस्तार के आवेदन के साथ परियोजना को पूरा करने में देरी के कारणों और ऐसे कारणों के पक्ष में दस्तावेजों सहित परियोजना के पंजीकरण को बढ़ाने की आवश्यकता बताते हुए एक व्याख्यात्मक नोट सहित नियम 3 के उप-नियम 3 के अंतर्गत यथानिर्धारित आधे पंजीकरण शुल्क के समान धनराशि का किसी अनुसूचित बैंक पर ड्रा किया गया एक डिमांड ड्राफ्ट लगा होना चाहिए अथवा ऑनलाईन भुगतान के माध्यम से किया जाना चाहिए, जो भी मामला हो। बशर्ते कि जहां प्रवर्तक ने अप्रत्याशित घटना के कारण परियोजना के पंजीकरण के विस्तार के लिए आवेदन किया हो, इसके लिए उसको किसी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।
- (3) परियोजना के पंजीकरण का विस्तार उस अवधि का नहीं होगा जिस अवधि के लिए उस परियोजना अथवा उसके चरण को पूरा करने के लिए स्थानीय कानूनों के अनुसार व्यवस्था की गई हो, जो भी मामला हो।
- (4) पंजीकरण के विस्तार के मामले में, विनियामक प्राधिकरण प्रवर्तक को फार्म 'च' के अनुसार उसके बारे में सूचित करेगा और पंजीकरण के विस्तार के आवेदन की अस्वीकृति के मामले में प्राधिकरण प्रवर्तक को फार्म 'घ' में ऐसी अस्वीकृति के बारे में सूचित करेगा। बशर्ते कि प्राधिकरण प्रवर्तक को ऐसी समयावधि, जो भी उनके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आवेदन की कमियों को ठीक करने के लिए एक अवसर प्रदान करे।

7. परियोजना के पंजीकरण को निरस्त करना:—प्राधिकरण धारा-7 के अनुसार किसी परियोजना के पंजीकरण को निरस्त करने पर प्रवर्तक को ऐसे निरस्तीकरण के बारे में फार्म 'घ' के अनुसार सूचित करेगा।

8. विक्रय के लिए करार:

- (1) संसंप्रवर्तक और आवंटिती के मध्य किया जाने वाला विक्रय करार अनुलग्नक के प्रारूप में होगा।
- (2) कोई भी आवेदन पत्र, आवंटिती पत्र पर करार अथवा आवंटी द्वारा हस्ताक्षरी अन्य कोई दस्तावेज अपार्टमेंट, प्लॉट अथवा भवन के संबंध में जैसा भी आवेदन हो, ऐसे अपार्टमेंट, प्लॉट अथवा भवन जैसा भी मामला हो, के लिए विक्रय करार के निष्पादन और रजिस्ट्रीकरण से पहले, विक्रय करार अथवा अधिनियम अथवा नियमों अथवा इनके अंतर्गत बनाए, विनियमों के अंतर्गत आवंटिती के अधिकारों और हितों को सीमित नहीं करेंगे।

अध्याय—III

भू-संपदा अभिकर्ता

9. भू-संपदा अभिकर्ता द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन:—

- (1) धारा-9 की उप-धारा-(2) के अनुसार पंजीकृत होने के लिए अपेक्षित प्रत्येक भू-संपदा अभिकर्ता प्राधिकरण के फार्म 'छ' के अनुसार लिखित में एक आवेदन करेगा, यह आवेदन तीन प्रतियों में किया जाएगा जब तक कि निम्नलिखित आवेदन की क्रियाविधि दस्तावेजों अर्थात् के साथ वेब-आधारित न हो:—
 - (क) उसके उद्यम के नाम, पंजीकृत पते, उद्यम के प्रकार (स्वामित्व, सोसाइटीयां, साझेदारी कंपनियां इत्यादि) समेत उसका संक्षिप्त विवरण:
 - (ख) उप-नियमों, संघ ज्ञापन, संस्था के अंतर्नियमों इत्यादि, जैसा भी मामला हो समेत पंजीकरण का विवरण (क्या यह एक स्वामित्व, साझेदारी, कंपनी, सोसाइटी इत्यादि है)
 - (ग) यदि वह एक व्यक्ति हो तो भू-संपदा अभिकर्ता के नाम, पता, संपर्क विवरण और फोटो और अन्य व्यक्तियों के मामले में साझेदारी, निदेशकों इत्यादि का नाम, पता, संपर्क विवरण और फोटो

- (घ) पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की अधिप्रमाणित प्रति।
 (ङ) व्यवसाय के स्थान के पते प्रमाण की अधिप्रमाणित प्रति।

- (2) भू-संपदा अभिकर्ता, आवेदन किसी व्यक्ति होने के मामले में दस हजार रुपए की राशि अथवा आवेदक के किसी व्यक्ति के अलावा कोई अन्य के मामले में पचास हजार रुपए की राशि के किसी अनुसूचित बैंक पर ड्रा किए गए एक डिमांड ड्राफ्ट अथवा ऑनलाइन भुगतान के जरिए पंजीकरण के लिए आवेदन के समय पर पंजीकरण शुल्क का भुगतान करेगा।

10. भू-संपदा अभिकर्ता को पंजीकरण की स्वीकृति:-

- (1) प्राधिकरण नियम-8 के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर तीस दिनों के भीतर या तो भू-संपदा अभिकर्ता को स्वीकृत प्रदान करेगा अथवा अस्वीकृत करेगा, जैसा भी मामला हो, जैसा कि धारा-9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत व्यवस्था की गई है।
 बशर्ते कि प्राधिकरण भू-संपदा अभिकर्ता को ऐसी समयावधि जो इसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, के भीतर आवेदन में कमियों को ठीक करने के लिए एक अवसर प्रदान करे।
 (2) प्राधिकरण किसी भू-सम्पदा अभिकर्ता के पंजीकरण होने पर भू-सम्पदा अभिकर्ता को फार्म 'ज' के अनुसार पंजीकरण संख्या सहित पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
 (3) आवेदन की अस्वीकृति के मामले में आवेदक को फार्म 'झ' के अनुसार सूचित करेगा।
 (4) इस नियम के अंतर्गत प्रदान किया गया पंजीकरण पांच वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

11. भू-सम्पदा अभिकर्ता के पंजीकरण का नवीकरण:-

- (1) भू-सम्पदा अभिकर्ता द्वारा फार्म 'ज' में किए गए आवेदन पर नवीकृत किया जा सकता है। उक्त फार्म को तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा। इस आवेदन की क्रियाविधि वेब आधारित ही होगी और यह क्रियाविधि स्वीकृत पंजीकरण की समाप्ति से कम से कम तीन महीने पहले होगी।
 (2) पंजीकरण के नवीकरण के आवेदन के साथ भू-सम्पदा अभिकर्ता के एक व्यक्ति होने के मामले में किसी अनुसूचित बैंक पर ड्रा किए गए अथवा ऑन लाइन भुगतान के माध्यम से पाँच हजार रुपए की राशि अथवा भू-सम्पदा अभिकर्ता के व्यक्ति को छोड़कर कोई अन्य होने के मामले में पच्चीस हजार रुपए का डिमांड ड्राफ्ट लगा होना चाहिए।
 (3) भू-सम्पदा अभिकर्ता आवेदन के नवीकरण के समय पर नियम-8 के उपनियम (1) के खंड (क) से (ड) में निर्धारित सभी अद्यतन दस्तावेज भी प्रस्तुत करेगा।
 (4) प्राधिकरण, पंजीकरण के नवीकरण के मामले में भू-सम्पदा अभिकर्ता को उनके बारे में फार्म 'ट' के अनुसार सूचित करेगा और प्राधिकरण, भू-सम्पदा अभिकर्ता को फार्म 'झ' के अनुसार पंजीकरण के नवीकरण के आवेदन की अस्वीकृति की सूचना देगा।
 बशर्ते कि पंजीकरण के नवीकरण के लिए किसी आवेदन को अस्वीकरण नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदन को इस मामले में सुनवाई के लिए एक अवसर प्रदान नहीं किया गया हो। इसके अतिरिक्त बशर्ते की प्राधिकरण भू-सम्पदा अभिकर्ता को ऐसी समयावधि जो इसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के भीतर आवेदन में कमियों को ठीक करने के लिए एक अवसर प्रदान किए जाए।
 (5) इस नियम के अंतर्गत प्रदान किया गया नवीकरण पांच वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा।

12. भू-सम्पदा अभिकर्ता के पंजीकरण का निरस्तीकरण:- प्राधिकरण धारा-9 की उप-धारा-7 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कारणों की वजह से भू-सम्पदा अभिकर्ता को प्रदान किए गए पंजीकरण अथवा उसके नवीकरण जो भी मामला हो को निरस्त कर सकता है और ऐसे निरस्तीकरण को फार्म 'झ' के अनुसार सूचित करे।

13. लेखों की बहियां, अभिलेख और दस्तावेज:- भू-सम्पदा अभिकर्ता समय-समय पर यथा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अनुसार लेखा बहियों, रिकार्डों और दस्तावेजों का रख-रखाव करेगा।

14. किसी भू-सम्पदा अभिकर्ता के अन्य कार्य:-

- (1) भू-सम्पदा अभिकर्ता आवंटी और प्रवर्तक को उनके अपने-अपने अधिकारों का प्रयोग करने में समर्थ बनाने तथा बुक कराने के समय पर उनके अपने-अपने दायित्वों को पूरा करने और किसी भू-खंड, अपार्टमेंट, अथवा भवन जो भी मामला हो कि बिक्री करने के लिए सहायता प्रदान करेगा एवं खुद को किसी भी अनुचित व्यवसाय या कार्यों में शामिल नहीं करेगा जैसे की :
 (i) ऐसी कोई भी मौखिक, लिखित या दिखाई देने वाली प्रस्तुती या टिप्पणी नहीं करेगा जैसे कि :
 (क) किन्हीं सेवाओं या सुविधाओं के बारे में जानबूझकर गलत जानकारी देना की वे किसी विशेष मानक या ग्रेड के हैं।
 (ख) यह दिखाना की उसके या प्रवर्तक के पास ऐसा अनुमोदन या संबद्धता है जो कि उनके पास ना हो

- (ग) ऐसी सेवाओं के बारे में कोई गलत या भ्रामक जानकारी देना जो की प्रवर्तक के पास ना हो।
- (ii) अखबार या अन्य मीडिया में ऐसे विज्ञापन का प्रकाशन जो की ऐसी सेवाओं को बताता है जो कि प्रवर्तक द्वारा नहीं दिया जाना है।
- (2) किसी अपार्टमेंट, भूखंड या भवन के बुकिंग के समय, सभी जानकारी तथा दस्तावेजों का आवंटी द्वारा कब्जा सुनिश्चित करना, जिनका वो हकदार है एवं प्राधिकार द्वारा निर्धारित अन्य कार्यों का निर्वहन करना।
- 15. पंजीकृत भूसंपदा अभिकर्ता के दायित्व :**
- (1) हर एक पंजीकृत भूसंपदा अभिकर्ता, व्यवसाय के मुख्य स्थान पर तथा अपने शाखा कार्यालयों पर पंजीकरण प्रमाण पत्र कि संख्या प्रदर्शित करेगा।
- (2) हर एक पंजीकृत भूसंपदा अभिकर्ता, विज्ञापन, विपणन, भूसंपदा अभिकर्ता द्वारा जारी खरीद या बिक्री से सम्बंधित दस्तावेजों पर पंजीकरण प्रमाण पत्र कि संख्या प्रदर्शित करेगा।

अध्याय-IV

प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाने वाला विवरण

16. वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाने वाला विवरण:-

- (1) प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि यथा लागू निम्नलिखित सूचना को इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत प्रत्येक परियोजना के लिए इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा, अर्थात्:-
- (क) निम्नलिखित समेत प्रवर्तक का विवरण, अर्थात् :-
- (i) प्रवर्तक अथवा समूह प्रोफाइल:-
- (क) उसके उद्यम (स्वामित्व, समिति देयता, साझेदारी, सोसाइटी, साझेदारी, कम्पनी, सक्षम प्राधिकरण) का प्रकार इसके नाम, पंजीकृत पते समेत का संक्षिप्त विवरण और इस उद्यम के रूप में पंजीकरण का विवरण और नए रूप से किसी निगमित अथवा पंजीकृत उद्यम के मामले में इसके नाम पंजीकृत पते, उद्यम (स्वामित्व, सोसाइटी, सीमित देयता, साझेदारी, कम्पनियां, सक्षम प्राधिकरण) का प्रकार समेत मूल उद्यम का संक्षिप्त विवरण।
- (ख) प्रवर्तक की पृष्ठ भूमि:- प्रवर्तक का कार्य अनुभव तथा नए निगमित अथवा पंजीकृत इकाई के मामले में अध्यक्ष, निदेशकों, भागीदारों, जैसा भी मामला हो, का कार्य अनुभव तथा उसकी मूल इकाई के प्राधिकृत व्यक्ति
- (ग) एकल व्यक्ति के मामले में प्रवर्तक का नाम, पता, संपर्क विवरण तथा तस्वीर और अध्यक्ष, निदेशकों, भागहीदारों, जैसा भी मामला हो, तथा उसके प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, पता, संपर्क विवरण तथा तस्वीर।
- (ii) प्रवर्तक का इतिहास:-
- (क) बिहार में रियल एस्टेट विकास में प्रवर्तक अथवा मूल इकाई, जैसा भी मामला हो, के वर्ष अनुभव की संख्या
- (ख) अन्य राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्र में रियल एस्टेट विकास में प्रवर्तक अथवा मूल इकाई, जैसा भी मामला हो के वर्ष अनुभव की संख्या
- (ग) परियोजनाओं की वस्तुस्थिति, पूर्णता में विलंब, भूमि के प्रकार तथा लंबित भुगतान के व्यौरे के साथ-साथ पिछले पाँच वर्षों में अब तक पूर्ण परियोजनाओं तथा निर्मित क्षेत्र की संख्या
- (घ) परियोजनाओं की वस्तुस्थिति, पूर्णता में विलंब, भूमि के प्रकार तथा लंबित भुगतान के व्यौरे के साथ-साथ पिछले पाँच वर्षों में घोषित निर्माणाधीन परियोजनाओं तथा निर्मित किए जाने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की संख्या
- (ङ) धारा-4 के उप-धारा (2) के खंड (ख) के अंतर्गत दिए गए अनुसार विगत 5 वर्षों के लिए निर्माणाधीन तथा पूर्ण परियोजनाओं के व्यौरे और रूपरेखा।
- (iii) मुकद्दमेबाजी :- प्रवर्तक द्वारा निर्मित अथवा निर्मित किए जा रहे रियल एस्टेट परियोजनाओं के संबंध में पिछले पाँच वर्षों में मुकद्दमेबाजी का विवरण
- (iv) वेबसाइट:-
- (क) प्रवर्तक अथवा मूल इकाई, जैसा भी मामला हो का वेब लिंक
- (ख) परियोजना वेबसाइट के लिए वेब लिंक

(ख) निम्नलिखित के साथ रियल एस्टेट परियोजना का व्यौरा, अर्थात :-

(i) परियोजना के संबंध में जारी विज्ञापन तथा विवणिका ।

(ii) अनुपालन तथा पंजीकरण:-

(क) धारा-4 के उप-धारा (2) के खंड (ग) के अंतर्गत दिए गए प्रावधान अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अनुमोदन तथा प्रारंभ प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति :

(ख) धारा-4 के उप-धारा (2) के खंड (घ) के अंतर्गत दिए गए प्रावधान अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार परियोजना अथवा उसके चरण तथा संपूर्ण परियोजना की स्वीकृत योजना ले-आउट योजना तथा विशिष्टताएं

(ग) इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा दिए गए पंजीकरण का व्यौरा ।

(iii) अपार्टमेंट भूखंड तथा गैरेज से संबंधित व्यौरा :-

(क) अपार्टमेंट के साथ विशेष बालकनी क्षेत्र अथवा बरामदा क्षेत्र तथा विशेष खुले टैरेस क्षेत्र के साथ परियोजना में विक्रय के लिए अपार्टमेंटों की संख्या, प्रकार तथा फर्शी क्षेत्र का व्यौरा अथवा इस परियोजना अथवा दोनों में जैसा भी मामला हो विक्रय के लिए भू-खंड की संख्या प्रकार तथा क्षेत्र के व्यौरे:

(ख) परियोजना में विक्रय के लिए गैरेज की संख्या तथा क्षेत्र के व्यौरे।

(ग) रियल एस्टेट परियोजना में उपलब्ध खुले पार्किंग क्षेत्र तथा छतयुक्त पार्किंग क्षेत्र की संख्या का विवरण :

(iv) पंजीकृत एजेंट : रियल एस्टेट अभिकर्ताओं (एजेंट) के नाम और पते।

(v) परामर्शदाता : रियल एस्टेट परियोजना के निर्माण से संबंधित ठेकेदारों, शिल्पकार तथा संरचनात्मक अभियंताओं तथा अन्य व्यक्तियों के नाम और पते सहित व्यौरे जैसे कि :-

(क) व्यक्ति का नात और पता

(ख) प्रवर्तकों के नाम

(ग) स्थापना-वर्ष

(घ) पूर्ण प्रमुख परियोजना के नाम और रूपरेखा

(vi) स्थल-धारा-4 की उप-धारा (2) के खंड (च) के अंतर्गत दिए गए प्रावधान अनुसार परियोजना के अंतिम छोर की लंबाई और चौड़ाई सहित इसकी सीमाओं के साथ-साथ परियोजना हेतु समर्पित भूमि के स्पष्ट सीमांकन के साथ परियोजना के स्थल का व्यौरा :

(vii) विकास योजना-

(क) प्रस्तावित परियोजना में निर्माण कार्यों की योजना का निष्पादन किया जाना है तथा उस पर अग्निशमन सुविधाओं पेयजल सुविधाओं, आपातकालीन निकास सेवाओं, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि के उपयोग सहित प्रस्तावित सुविधाएं प्रदान की जानी हैं;

(ख) सुविधाएं- परियोजना में सड़क प्रकाश व्यवस्था, जलापूर्ति सुविधाओं तथा निपटान के लिए स्थल और वर्षा तथा मैले जल के शोधन और किन्हीं अन्य सुख-सुविधाओं अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं सहित परियोजना तक पहुंच विद्युत आपूर्ति की रूपरेखा के साथ-साथ प्रस्तावित परियोजना की मुख्य विशेषताओं को दर्शाता एक विस्तृत नोट प्रदान किया जाना है;

(ग) गैट तालिका अथवा उपलब्धि तालिका और परियोजना सारणी रूप परियोजना में निर्माण कार्य योजना का निष्पादन किया जाना है तथा उसकी प्रस्तावित सुविधाओं का व्यौरा प्रदान किया जाना है और उसे पूर्ण करने की समय-सीमा दी जाएगी ;

(घ) नागरिक अवसंरचना जैसे-जल स्वच्छता तथा विद्युत आदि के लिए प्रावधान के साथ-साथ परियोजना के पूर्णता की चरण-वार समय सारणी।

(ग) प्रवर्तक का वित्तीय विवरण :-

(i) प्रवर्तक के पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की सत्यापित प्रति

(ii) तत्काल पिछले तीन वर्षों के लिए प्रवर्तक की वार्षिक रिपोर्ट (लेखा परीक्षित लाभ तथा हानि खाता, तुलन पत्र (बैलेंस शीट), धन प्रवाह विवरण, निदेशक रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षक रिपोर्ट) और जहाँ वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है तब तत्काल पिछले तीन वर्षों के लिए प्रवर्तक का लेखापरीक्षित लाभ तथा हानि खाता, तुलनपत्र, धनप्रवाह विवरण तथा लेखापरीक्षक रिपोर्ट और नए निगमित अथवा पंजीकृत इकाई

के मामले में यही मूल इकाई के लिए प्रदर्शित की जाएगी। (केवल प्राधिकरण को द्रष्टव्य)

(घ) प्रवर्तक प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने से 15 दिनों के भीतर परियोजना के लिए वेबपेज पर निम्नलिखित जानकारियों को अपलोड करेगा :

- (i) अपार्टमेंटों अथवा भूखंड की संख्या और प्रकार की सूची
- (ii) बुक किए गए गैरेज की संख्या की सूची
- (iii) परियोजना की वस्तुस्थिति :-
 - (क) तस्वीर के साथ प्रत्येक भवन के निर्माण की वस्तुस्थिति
 - (ख) तस्वीर के साथ प्रत्येक तल के निर्माण की वस्तुस्थिति
 - (ग) तस्वीर के साथ आंतरिक अवसंरचना तथा आम क्षेत्रों के निर्माण की वस्तुस्थिति

(iv) अनुमोदन की वस्तुस्थिति :-

- (क) प्राप्त अनुमोदन
- (ख) आवेदन किया गया अनुमोदन तथा प्राप्ति की संभावित तिथि
- (ग) अनुमोदन जिसका आवेदन किया जाना है तथा आवेदन के लिए नियोजित तिथि
- (घ) परियोजना हेतु किन्हीं स्वीकृत योजनाओं, ले-आउट योजनाओं, विशिष्टताओं, लाईसेंस, परमिट अथवा अनुमोदन के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आशोधन, संशोधन अथवा समीक्षा यदि कोई हो

(ङ) अनुमोदन, अनुमतियों, स्वीकृतियों, विधिक दस्तावेजों के व्यौरे:-

(i) अनुमोदन :-

- (क) परियोजना के लिए लागू कानून के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से लाईसेंस अथवा भूमि उपयोग अनुमति, भवन निर्माण स्वीकृति योजना तथा प्रारंभ प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति प्राप्त की जाती जहाँ चरणों में परियोजना के निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है, ऐसे प्रत्येक चरण के लिए लाईसेंस अथवा भूमि उपयोग अनुमति, भवन निर्माण स्वीकृति योजना तथा प्रारंभ प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति प्राप्त की जाती है
- (ख) राजस्व संपदाओं के नाम, सर्वेक्षण संख्या, भू-कर संबंधी संख्या, खसरा संख्या तथा परियोजना भूमि के प्रत्येक पार्सल क्षेत्र के साथ-साथ परियोजना स्थल को दर्शाते परियोजना स्थल योजना अथवा परियोजना स्थल मानचित्र की सत्यापित प्रति
- (ग) परियोजना अथवा उसके चरण के ले-आउट योजना की सत्यापित प्रति और सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार संपूर्ण परियोजना का ले-आउट योजना भी तथा परियोजनाओं की अन्य विशिष्टताएं।
- (घ) क्लब हाउस, सुख सुविधाओं तथा आम क्षेत्रों सहित प्रत्येक टावर तथा ब्लॉक के लिए तल योजनाएं
- (ङ) अग्रिमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र, जल और सीवरेज विभाग से अनुमति आदि सहित लागू कानून के अंतर्गत किसी अन्य अनुमति, अनुमोदन अथवा लाईसेंस की आवश्यकता होगी
- (च) इसके आवेदन सहित अधिभोग प्रमाण-पत्र तथा पूर्णता प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति।

(ii) विधिक दस्तावेज -

- (क) आवेदन प्रपत्र, आवंटन पत्र, विक्रय तथा हस्तांतरण पत्र के लिए करार का प्रारूप सहित विवरण
- (ख) भूमि के प्रवर्तक के नाम को दर्शाते विधिक अधिकार पत्र की सत्यापित प्रति जिस पर ऐसे अधिकार के सत्यापन के साथ विधिक रूप से वैध दस्तावेजों के साथ-साथ परियोजना का विकास प्रस्तावित है
- (ग) कम से कम 10 वर्षों के अनुभव वाले वकील से भूमि स्वामित्व सच रिपोर्ट
- (घ) भूमि पर ऋणभार का व्यौरा जिस पर परियोजना प्रस्तावित है जिसमें किसी अधिकार, हकदारी, हित, देय मुकदमा का व्यौरा तथा ऐसी भूमि पर किसी पार्टी का नाम अथवा कम से कम दस वर्ष के अनुभवी वकील के माध्यम से तहसीलदार के रैंक से अनूयून के राजस्व प्राधिकारी से जैसा भी मामला हो, ऋणभार-मुक्त का प्रमाणपत्र

- (ड) जिस भूमि पर विकास कार्य प्रस्तावित है यदि वह प्रमोटर भूमि का स्वामी नहीं है तो भूमि के मालिक की सहमति का ब्यौरा, सहकार्य करार, विकास करार, संयुक्त विकास करार अथवा अन्य कोई करार जैसा भी मामला हो कि प्रतियां, हकदारी एवं अन्य दस्तावेज जो विकास की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के स्वामी का नाम प्रदर्शित करें
- (च) भूमि एवं परियोजना पर सृजित बंधक अथवा प्रभार यदि कोई है, का ब्यौरा
- (च) संपर्क ब्यौरा :- प्रमोटर, प्राधिकृत व्यक्ति और परियोजना की देख देख करने वाले अन्य कर्मचारियों को संपर्क पता, संपर्क नंबर एवं ई-मेल आई डी।
- (2) प्राधिकरण एक डाटाबेस का अनुरक्षण करेगा और सुनिश्चित करेगा कि इसमें प्रत्येक वापस किए गए अथवा दंडित की गई परियोजना, जैसा भी मामला हो, के संबंध में निर्दिष्ट सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
- (3) प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि इससे पंजीकृत प्रत्येक रीयल एस्टेट एजेंट अथवा पंजीकरण हेतु जिसके आवेदन पत्र अस्वीकार अथवा रद्द कर दिए गए हैं के संबंध में इसे वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा अर्थात् :-
- (क) प्राधिकरण से पंजीकृत रीयल एस्टेट एजेंट :
- (i) प्राधिकरण के साथ रीयल एस्टेट एजेंट की पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की वैधता की अवधि
 - (ii) उसके उद्यम का संक्षिप्त ब्यौरा जिसमें उसका नाम, पंजीकृत पता, उद्यम का प्रकार (स्वामित्व, सोसाइटीज, भागीदारी, कंपनी इत्यादि)
 - (iii) उपनियम, संगठन ज्ञापन, संस्था के अंतर्नियम इत्यादि सहित जैसा भी मामला हो, स्वामित्व, सोसाइटीज, भागीदारी, कंपनियों इत्यादि के रूप में पंजीकरण का विवरण
 - (iv) रीयल एस्टेट एजेंट यदि एक व्यक्ति है तो, उसका नाम, पता, संपर्क ब्यौरा और फोटोग्राफ और अन्य व्यक्तियों के मामले में भागीदार, निदेशकों इत्यादि का नाम, पता, संपर्क ब्यौरा और फोटोग्राफ
 - (v) पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की अधिप्रमाणित प्रति
 - (vi) कार्यस्थल के पता साक्ष्य की अधिप्रमाणित प्रति और रीयल एस्टेट एजेंट एवं अन्य जिम्मेवार कर्मचारियों के संपर्क पते, संपर्क नंबर एवं ईमेल आई डी
- (ख) ऐसे आवेदकों के मामले में जिनके रीयल एस्टेट एजेंट के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हो अथवा रीयल एस्टेट एजेंट जिनके पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा रद्द कर दिए गए हों -
- (i) प्राधिकरण के साथ रीयल एस्टेट एजेंट की पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की वैधता की अवधि :
 - (ii) उसके उद्यम का संक्षिप्त ब्यौरा जिसमें उसका नाम, पंजीकृत पता, उद्यम का प्रकार (स्वामित्व, सोसाइटीज, भागीदारी, कंपनी इत्यादि) :
 - (iii) रीयल एस्टेट एजेंट यदि एक व्यक्ति है तो, उसका नाम, पता संपर्क ब्यौरा और फोटोग्राफ और अन्य व्यक्तियों के मामले में भागीदार, निदेशकों इत्यादि का नाम, पता, संपर्क ब्यौरा और फोटोग्राफ :
- (ग) अधिनियम या तद्वीन बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले अन्य दस्तावेज या जानकारी।
- (4) प्राधिकरण इस नियम के तहत अपनी वेबसाइट की सामग्री को डिजिटल रूप में बैंक-अप रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इसे प्रत्येक माह के अंतिम दिन अद्यतन किया जाए।

अध्याय V**प्रमोटर एवं आवंटियों द्वारा भुगतान योग्य ब्याज दर एवं धनराशि वापसी हेतु समय सीमा**

17. प्रमोटर एवं आवंटियों द्वारा भुगतान योग्य ब्याज दर प्रमोटर द्वारा आवंटी को अथवा आवंटी द्वारा प्रमोटर को जैसा भी मामला हो, भुगतान योग्य ब्याज दर भारीय स्टेट बैंक के प्रचलित मुख्य उधार दर (जिस दिनांक राशि देय होती है) की लागत प्लस दो प्रतिशत होगी :

बशर्ते कि यदि भारतीय स्टेट बैंक की ऋणदाता दर की लागत उपयोग में नहीं है तो इसे ऐसे बेंचमार्क ऋणदाता दरों से प्रतिस्थापित किया जाएगा जिसे भारतीय स्टेट बैंक द्वारा समय सीमा पर आम जनता को ऋण देने हेतु निर्धारित किया जाता है।

18. धनराशि हेतु समय सीमा अधिनियम अथवा उसके तहत नियम या विनियम के अनुसार प्रमोटर द्वारा भुगतान योग्य यदि कोई लागू ब्याज एवं मुआवजा के साथ कोई धन वापसी प्रमोटर द्वारा आवंटी को 60 दिन के भीतर की जाएगी यह उस तिथि से होगी जिससे लागू ब्याज एवं मुआवजा जैसा भी मामला हो, देय हो।

अध्याय VI**रीयल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण****19. प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन –**

- (1) जब कभी भी प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा किसी अन्य सदस्य की रिक्ति होती है अथवा होने की संभावना होती है, समुचित सरकार भरे जाने वाले रिक्तियों के संबंध में चयन समिति को संदर्भ कर सकती है।
- (2) चयन समिति, प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा सदस्य के चयन के समाप्ति हेतु यथोचित प्रक्रिया का पालन कर सकती है जिसमें सर्वचयन समिति की नियुक्ति शामिल है जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जिन्हें चयन समिति उचित समझे और प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए नामों का सुझाव कर सकती है।
- (3) चयन समिति प्रत्येक रिक्ति के लिए दो व्यक्तियों का चयन करेगी और समुचित सरकार को इसकी अनुशंसा करेगी।
- (4) चयन समिति समुचित सरकार को इसकी अनुशंसा उप-नियम (1) के तहत किए गए संदर्भ की तिथि से साठ दिन की अवधि के भीतर करेगा।
- (5) समुचित सरकार चयन समिति द्वारा अनुशंसा की तिथि से तीस दिन के भीतर अध्यक्ष अथवा सदस्य जैसा भी मामला हो, की रिक्ति के लिए चयन समिति द्वारा अनुशंसित दो व्यक्तियों में से एक की नियुक्ति करेगी।

20. प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों को भुगतान योग्य वेतन एवं भत्ते तथा सेवा के अन्य अनुबंध एवं शर्तें

- (1) प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों को भुगतान योग्य वेतन एवं भत्ते निम्नानुसार होंगे –
 - (क) अध्यक्ष को दो लाख पचास हजार रुपए की समेकित मासिक वेतन का भुगतान किया जाएगा और वह आवास एवं वाहन से संबंधित किसी भत्ते के हकदार नहीं होगा
 - (ख) सदस्य को दो लाख रुपए की समेकित मासिक वेतन का भुगतान किया जाएगा और वह आवास एवं वाहन से संबंधित किसी भत्ते का हकदार नहीं होगा
- (2) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए तीस दिन के अर्जित अवकाश के हकदार होंगे।
- (3) अध्यक्ष एवं सदस्यों के अन्य भत्ते एवं सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो समुचित सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाएं।

21. प्राधिकरण के अध्यक्ष की प्रशासनिक शक्तियां –

- (1) प्राधिकरण एवं अध्यक्ष निम्नलिखित के संबंध में प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा –
 - (क) कर्मचारी संख्या, मजदूरी एवं वेतन संरचना, परिलाभ, परिलब्धि एवं कार्मिक नीति से संबंधित मामले।
 - (ख) पदों के सृजन एवं समापन से संबंधित मामले।
 - (ग) सभी पदों के लिए नियुक्ति, पदोन्नति एवं पुष्टिकरण संबंधी मामले।
 - (घ) किसी सदस्य, अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करना।
 - (ङ) स्वीकृत पदों के स्थान पर स्थानापन्न।
 - (च) किसी सदस्य, अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले टूर को अधिकृत करना : भारत के अंदर एवं बाहर तथा इसके लिए भत्ते की अनुमति देना।
 - (छ) चिकित्सा दावे की प्रतिपूर्ति से संबंधित मामले।
 - (ज) छुट्टियों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने संबंधी मामले।
 - (झ) सरकारी उपयोग हेतु वाहनों को किराए पर लेने हेतु अनुमति देना।

- (अ) भारत अथवा विदेश में सेमिनार, सम्मेलन और प्राशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेने हेतु नामांकन।
- (ट) प्राशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करने अतिथियों के निमंत्रण हेतु अनुमति :
- (ठ) स्टाफ कल्याण व्यय से संबंधित मामले :
- (ड) स्वीकृति वापस लेने अथवा पूंजीगत परिसंपत्तियों को बट्टे खाते डालना जो सामान्य टूट-फूट के कारण कार्य उपयोगी नहीं रह गई है अथवा कम खर्चे पर मरम्मत नहीं पाए गई है :
- (ढ) किसी भी सदस्य, अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित मामले :
- (ण) प्राधिकरण का अध्यक्ष अन्य शक्तियों का भी प्रयोग करेगा जो प्राधिकरण के सुचारु रूप से कार्य करने और अधिनियमों के उपबंधों को लागू करने तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों को लागू करने के लिए अपेक्षित हों।

22. प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों तथा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं को देय वेतन एवं भत्ते तथा उनकी सेवाओं की अन्य शर्तें एवं नियम :

- (1) प्राधिकरण के अधिकारियों को कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर वेतन, भत्ते, छुट्टी, कार्यभार ग्रहण समय, कार्यभार ग्रहण वेतन, अधिवार्षिता की आयु और अन्य सेवा शर्तों के मामले में अन्य श्रेणी के कर्मचारी की सेवा शर्तों को समुचित सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू समय-समय पर लागू ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमन किया जाएगा और वेतनमान के सदृश वेतन लेंगे।
- (2) समुचित सरकार को अधिकारियों या कर्मचारियों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इनके से किन्हीं नियमों के उपबंधों को शिथिल करने की शक्ति होगी।

23. प्राधिकरण का कार्य संचालन –

- (1) प्राधिकरण का कार्यालय समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा यथानिर्धारित स्थान पर अवस्थित होगा।
- (2) प्राधिकरण के कार्य दिवस और कार्यालय दिवस समुचित सरकार के समान ही होंगे।
- (3) प्राधिकरण की सरकारी सांज्ञा मुहर और प्रतीक चिन्ह समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट के समान होगी।
- (4) प्राधिकरण के प्रत्येक नोटिस, आदेश और निदेशों पर प्राधिकरण की मुहर लगेगी, जो अध्यक्ष द्वारा पदनामित व्यक्ति के संरक्षण में होगी।
- (5) प्राधिकरण की सामान्यतः इसके मुख्यालय पर बैठकें होगी और ऐसे स्थानों पर होंगी जैसा अध्यक्ष सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

24. प्राधिकरण की अतिरिक्त शक्तियां :

- (1) प्राधिकरण की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (iv) में विनिर्दिष्ट शक्तियों के अलावा प्राधिकरण निम्नलिखित अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग करेगा –
 - (क) प्रवर्तक, आवंटी अथवा भू-संपदा एजेंट से उप उचित समायोधि में लिखित में ऐसी सूचना अथवा स्पष्टीकरण अथवा ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करना अपेक्षित हो जैसा ये आवश्यक समझें :
 - (ख) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 123 और 124 के उपबंधों के अधधीन सार्वजनिक रिकार्ड अथवा दस्तावेज अथवा ऐसे रिकार्ड की प्रति अथवा किसी कार्यालय से दस्तावेज की मांग करते हुए
- (2) प्राधिकरण अर्थव्यवस्था, वाणिज्य, लेखा शास्त्र, भू-संपदा, प्रतिस्पर्धा, निर्माण, वास्तुशिल्प अथवा इंजीनियरिंग के क्षेत्र अथवा किसी संकाय के ऐसे विशेषज्ञों अथवा परामर्शदाताओं से इसके समक्ष किसी प्रकार की जांच करने अथवा कार्यवाही करने में प्राधिकरण की सहायता करने के लिए जैसा आवश्यक समझे, आग्रह कर सकती है।
- (3) प्राधिकरण आवंटियों के हित में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तक द्वारा भुगतान किए गए अथवा देय शस्ति, ब्याज अथवा क्षतिपूर्ति के रूप में लगाई गई राशियों के भुगतान के बारे में पूछताछ कर सकता है कि प्रवर्तक ने :-
 - (क) धारा 4 की उप-धारा (2) के उपखंड (घ) के खंड (1) के अंतर्गत यथानिहित रखे गए लेख से उक्त राशियां वापिस नहीं ली है : अथवा
 - (ख) आवंटियों द्वारा उप भू-संपदा परियोजना के लिए से प्रवर्तक को भुगतान की गई किसी राशि का उपयोग नहीं किया है, जिसके लिए शस्ति, ब्याज अथवा क्षतिपूर्ति देय है अथवा किसी अन्य भू-संपदा के लिए : अथवा

(ग) संगत भू-संपदा परियोजना अथवा अन्य किसी भू-संपदा परियोजना के आवंटियों से शस्ति, जुर्माना अथवा क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान की गई राशियों की वसूली नहीं की है।

25. **ब्याज, शस्ति और क्षतिपूर्ति की वसूली :** ब्याज, शस्ति अथवा क्षतिपूर्ति जैसी देय राशियों की वसूली स्थानीय नियमों में दी गई प्रक्रिया के अनुसार भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में की जाएगी।

26. **आदेश, दिशानिर्देश, या न्याय निर्णायक अधिकारी, प्राधिकरण या अपीलीय अधिकरण के निर्णय के कार्यान्वयन का तरीका :** धारा 40 के उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ, न्याय निर्णायक अधिकारी, प्राधिकरण या अपीलीय अधिकरण द्वारा जारी हर एक आदेश, जिसका भी केस हो, अधिनियम, नियम एवं उसकी विनियमावली के अंतर्गत, न्याय निर्णायक अधिकारी, प्राधिकरण या अपीलीय अधिकरण द्वारा उसी प्रकार लागू किए जाएंगे जैसे कि वे प्रिंसिपल सिविल न्यालय द्वारा, एक पेंडिंग सूट में जारी डिक्री या आदेश हो एवं यह न्याय निर्णायक अधिकारी, प्राधिकरण या अपीलीय अधिकरण के लिए वैध होगा कि वे उस आदेश को प्रिंसिपल सिविल कोर्ट भेज दें अगर वे उस आदेश के निष्पादन में असमर्थ हों ताकि कोर्ट उस आदेश का निष्पादन, या तो स्थानीय सीमाओं (जिसके अधिकार क्षेत्र में परियोजना हो) के अंतर्गत करे या तो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट जिसके अधिकार क्षेत्र के स्थानीय सीमा में वह व्यक्ति (जिसके खिलाफ आदेश जारी किया गया हो) या तो रहता हो, या अपने व्यापार का संचालन करता हो, या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए कार्य करता हो, के दायरे में करे।

अध्याय VII

भू-संपदा अपीलीय प्राधिकरण

27. अपील और देय फीस :

- (1) धारा 44 की उप-धारा (1) के अंतर्गत की गई प्रत्येक अपील के साथ अपीलीय प्राधिकरण के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक के नाम बनाए गए डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 5 हजार रुपए का शुल्क साथ संलग्न होगा और उस स्थान के बैंक की मुख्य शाखा जहां उक्त अपीलीय प्राधिकरण की पीठ अवस्थित हो अथवा ऑनलाईन भुगतान जैसा भी मामला हो द्वारा देय होगा।
- (2) प्रत्येक अपील फार्म 'ठ' के रूप में दायर की जाएगी जिसे जब तक निम्नलिखित दस्तावेजों सहित आवेदन प्रक्रिया को वेब आधारित नहीं बना जाता, तीन प्रतियों में प्रस्तु की जाएगी, अर्थात:-
 - (क) आदेश जिसके विरुद्ध अपील दायर की गई है, की सत्यापित असली प्रति;
 - (ख) अपीलार्थी द्वारा लाए गए और अपील में हवाला दिए गए दस्तावेजों की प्रति; और
 - (ग) दस्तावेजों की सूची।
- (3) प्रत्येक अपील पंजीकृत डाक अथवा आनलाईन प्रणाली के माध्यम से जैसा भी लागू हो दायर की जाएगी।
- (4) उन-नियम (3) के अंतर्गत डाक द्वारा भेजी गई अपील के मामले में, इसे अपीलीय प्राधिकरण को उस दिन प्रस्तुत कर दिया गया माना जाएगी जिस दिन यह इसके कार्यालय में प्राप्त होती है।
- (5) धारा 56 के अंतर्गत यथा निहित जहां अपील के एक पक्ष का प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, ऐस कार्य करने के प्राधिकार और ऐस प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित सहमति अपील, आविषा अपील के नोटिस के उत्तर, जैसा भी मामला हो, के साथ संलग्न की जाएगी।
- (6) सुनवाई की तारीख जिस तारीख तक सुनवाई स्थगित की जा सकती है, जैसा भी मामला हो अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने के लिए दोनों पक्षों अथवा उनके एजेंटों के लिए अनिवार्य होगा:

बशर्ते कि जहां शिकायतकर्ता अथवा उसका प्राधिकृत व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, तय दिनों पर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ होते हैं, तो अपीलीय न्यायाधिकरण को यह विवेकाधिकार है कि चूक के लिए या तो शिकायत रद्द करें अथवा गुणदोष के आधार पर निर्णय ले और जहां विपक्षी पार्टी अथवा उसके प्राधिकृत व्यक्ति सुनवाई की तारीख पर उपस्थित होने में असफल रहते हैं तो अपीलीय न्यायाधिकरण अपील पर एकपक्षीय निर्णय ले सकता है।
- (7) अपील को फाईल करने एवं इसके निपटान और प्रचालन के लिए अन्य सभी मामले अपीलीय न्यायाधिकरण के दैनिक कार्य हेतु कार्यविधि, जिनका प्रावधान अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में नहीं किया गया है, अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा तय किए जाएंगे।

28. अपीलीय न्यायाधिकरण का सदस्यों के चयन-

- (1) जब कभी भी अपीलीय न्यायाधिकरण में सदस्य की रिक्तियां होती है अथवा होने की संभावना देखी जाती है तो उचित सरकार रिक्तियों को भरने के संदर्भ में चयन समिति के पास मामला भेज सकती है।
- (2) चयन समिति, अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य के चयन के समाप्ति के लिए, उपर्युक्त कार्यविधि को अपनाएगी जिसमें खोज समिति द्वारा सुझाए गए व्यक्ति होंगे जो अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य की नियुक्ति के लिए नामों की सूची सुझाएंगे।
- (3) चयन समिति प्रत्येक रिक्ति के लिए दो व्यक्तियों का चयन करेगी एवं इसकी अनुशंसा समुचित सरकार को करेगी।

- (4) चयन समिति उपखंड (1) के अंतर्गत संदर्भित तारीख से 60 दिनों की कार्यविधि के भीतर उचित सरकार को इसकी संस्तुति देगी।
- (5) समुचित सरकार चयन समिति द्वारा अनुशंसित तारीख के तीस दिनों के भीतर सदस्य की रिक्ति के लिए चयन समिति द्वारा अनुशंसित दो व्यक्तियों में से एक की नियुक्ति करेगी।

29. अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों को देय वेतन एवं भत्ते और अन्य नियम एवं शर्तें—

- (1) अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों को देय वेतन एक की नियुक्ति करेगी।
 - (क) अध्यक्ष को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा अंतिम आहरित वेतन के समकक्ष मासिक वेतन दिया जाएगा।
 - (ख) सदस्य को बिहार सरकार के अपर सचिव के अधिकतम वेतनमान पर आहरित वेतन के समकक्ष मासिक वेतन का भुगतान किया जाएगा:
बशर्ते कि कोई व्यक्ति जो सरकार में किसी पद पर बिहार सरकार के अपर सचिव की तुलना में वरिष्ठ पद पर रहा हो, उसे सदस्य बनने पर उसकी सेवानिवृत्ति वाले पद के अनुरूप मासिक वेतन का भुगतान किया जाएगा।
- (2) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 30 दिन के अर्जित अवकाश के पात्र होंगे।
- (3) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य के अन्य भत्ते और सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो समुचित सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाएं।

30. प्राधिकरण अथवा अपील अधिकरण के अध्यक्ष अथवा सदस्य के विरुद्ध आरोपों की जांच की प्रक्रिया:—

- (1) प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा सदस्य के मामले के धारा 26 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) अथवा (ङ) में यथा निदिदष्ट अथवा अपील अधिकरण के अध्यक्ष अथवा सदस्य के मामले में धारा 49 की उप-धारा (1) में यथानिर्दिष्ट किसी भी परिस्थिति के घटित होने पर समुचित सरकार इस संबंध में किसी शिकायत की प्राप्ति पर अथवा अपने आप जैसे भी मामला हो, प्राधिकरण अथवा अपील अधिकरण के अध्यक्ष या किसी सदस्य के विरुद्ध ऐसे आरोपों के संबंध में आरम्भिक संवीक्षा करेगी।
- (2) यदि, प्रारम्भिक संवीक्षा पर, समुचित सरकार अभिकथन की जांच-पड़ताल कराना आवश्यक समझती है, तो वह शिकायत को, यदि कोई हो, यथा उपलब्ध समर्थक सामग्री के साथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायामूर्ति के समक्ष उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए रखेगी।
- (3) समुचित सरकार उपनियम (2) के अधीन नियुक्त न्यायाधीश को निम्नलिखित की प्रतियां भेजेगी:—
 - (क) प्राधिकरण अथवा अपील अधिकरण, जैसा भी मामला हो, के अध्यक्ष अथवा सदस्य के विरुद्ध आरोप कथन: और
 - (ख) जांच के लिए संगत महत्वपूर्ण दस्तावेज
- (4) प्राधिकरण अथवा अपील अधिकरण के, जैसा भी मामला हो, अध्यक्ष अथवा सदस्य को आरोपों के विषय में समायावधि के भीतर, जैसी भी इस संबंध में न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जाए, सुने जाने का उचित अवसर दिया जायेगा।
- (5) जहां यह अभिकथित है कि अपील अधिकरण के अध्यक्ष अथवा सदस्य किसी शरीरिक अथवा मानसिक अक्षमता के कारण अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में असमर्थ हैं और अभिकथन को अस्वीकार किया जाता है, तो न्यायाधीश अपील अधिकरण के अध्यक्ष अथवा सदस्य की चिकित्सा परीक्षा की व्यवस्था कर सकता है।
- (6) जांच-पड़ताल की समाप्ति के पश्चात्, न्यायाधीश अपने निष्कर्षों और आरोपों के प्रत्येक अनुच्छेद पर अलग-अलग अपने तर्क देते हुए, पूरे मामले पर अपनी ऐसी टिप्पणियां देते हुए जैसी वह उचित समझे, अपनी रिपोर्ट समुचित सरकार को प्रस्तुत करेगा।
- (7) तत्पश्चात् समुचित सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके प्राधिकरण अथवा अपील अधिकरण के अध्यक्ष अथवा सदस्य को जैसा भी मामला हो, हटाने करने अथवा न हटाने का निर्णय ले सकती है।

31. अपील अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों की कोई अन्य श्रेणी के देय वेतन और भत्ते तथा अन्य निबंधन और शर्तें

- (1) अपील अधिकरण के अधिकारियों की कोई अन्य सेवा शर्तों और वेतन, भत्ते छुट्टी, कार्यग्रहण अवधि कार्यग्रहण अवधि वेतन, अधिवर्षिता की आयु और अन्य सेवा शर्तें ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित की जायेंगी जैसी समुचित सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होती है और जो तदनु रूप वेतनमान आहरित करते हैं:

- (2) समुचित सरकार को अधिकारियों अथवा कर्मचारियों जैसा भी मामला हो, कि किसी वर्ग अथवा श्रेणी के संबंध में नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल करने की शक्ति प्राप्त है।

32. अपील अधिकरण की अतिरिक्त शक्तियाँ—

- (1) धारा 53 की उपधारा (4) के खंड (छ) में विनिर्दिष्ट शक्तियों के अतिरिक्त अपील अधिकरण निम्नलिखित अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग करेगा—
- (क) प्रवर्तक, आवंटी अथवा भू-संपदा एजेंट को लिखित में ऐसी सूचना अथवा स्पष्टीकरण अथवा ऐसे दस्तावेज ऐसे उपयुक्त समय के भीतर जैसा आवश्यक समझा जाए प्रस्तुत करने की अपेक्षा—
- (ख) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 123 और 124 के उपबंधों की अधीन, किसी भी कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख अथवा प्रलेख अथवा ऐसे अभिलेख अथवा प्रलेख की मांग करना।
- (2) अपील अधिकरण अर्थशास्त्र, वाणिज्य, लेखांकन, भू-संपदा, प्रतिस्पर्धा, निर्माण वास्तुशिल्प अथवा अभियांत्रिकी अथवा किसी अन्य विषय से, जैसा आवश्यक समझा जाए, ऐसे विशेषज्ञों अथवा परामर्शदाताओं को बुला सकता है जो उसके समझा किसी जांच अथवा कार्यवाहियों के संचालन में अपील अधिकरण की सहायता करेंगे।

33. अपील अधिकरण के अध्यक्ष की प्रशासनिक शक्तियाँ—

- (1) अपील अधिकरण का अध्यक्ष निम्नलिखित के संबंध में प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा :—
- (क) कर्मचारी संख्या, मजदूरी और वेतन ढांचा, परिलब्धियाँ, अनुलब्धियाँ और कार्मिक नीतियों संबंधी मामले :
- (ख) पदों के सृजन और समाप्ति संबंधी मामले :
- (ग) सभी पदों की नियुक्ति, पदोन्नति और स्थायीकरण से संबंधित मामले :
- (घ) किसी सदस्य, अधिकारी अथवा कर्मचारी के त्यागपत्र की स्वीकृति :
- (ङ) स्वीकृत पदों के प्रति स्थानापन्न :
- (च) किसी सदस्य, अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा भारत के भीतर अथवा बाहर किये गए दौरों और उसके लिए मंजूर भत्ते स्वीकृत करने का प्राधिकार :
- (छ) चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति से संबंधित मामले :
- (ज) छुट्टी मंजूर अथवा नामंजूर करने संबंधी मामले :
- (झ) सरकारी कार्य के लिए वहान किराये पर लेने की अनुमति :
- (ञ) भारत अथवा विदेश में सेमिनार, सम्मेलन और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन :
- (ट) प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के आयोजन में अतिथियों के आमंत्रण की अनुमति:
- (ठ) कर्मचारी कल्याण व्यय से संबंधित मामले :
- (ड) उन पूंजीगत परिसमपत्तियों का रद्दीकरण अथवा बट्टे खाते डालने की स्वीकृति, जो सामान्य टूट-फूट के कारण अप्रयोजनीय हो गई है अथवा किफायती मरम्मत से इतर समझा गया है।
- (ढ) किसी सदस्य, अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित सभी मामले :
- (2) अपील अधिकरण का अध्यक्ष अन्य शक्तियों का भी प्रयोग करेगा, जो अपील अधिकरण के सुचारु कार्यकरण के लिए और अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तक के लिए अपेक्षित हों।

34. अपील अधिकरण कार्य—

- (1) अपील अधिकरण का कार्यालय ऐसे स्थान पर स्थित होगा जैसा समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना के द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
- (2) अपील अधिकरण के कार्य दिवस और कार्य के घण्टे वहीं होंगे जो समुचित सरकार के हैं।
- (3) अपील अधिकरण की सरकारी सामान्य सील और संप्रतीक वह होंगे जिन्हें समुचित सरकार विनिर्दिष्ट करेगी।
- (4) अपील अधिकरण की प्रत्येक सूचना, आदेश और निर्णय पर अपील अधिकरण की मोहर लगी होनी चाहिए जो अध्यक्ष द्वारा नामोद्दिष्ट व्यक्ति की अभिरक्षा में रहेगी।
- (5) अपील अधिकरण सामान्य: अपनी बैठकें अपने मुख्यालय में और ऐसे स्थानों पर करेगा जैसा अध्यक्ष द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश से विनिर्दिष्ट होगा।

अध्याय-VIII
अपराध और शास्तियाँ

35. निबंधन और शर्तें और अपराध के शमन के लिए देय जुर्माना -

- (1) न्यायालय, अधिनियम के अंतर्गत कारावास के दंडनीय अपराध की क्षतिपूर्ति के प्रयोजना से नीचे दी गई सारणी में निर्दिष्ट राशि स्वीकार करेगा।

अपराध	अपराध के शमन के लिए भुगतान की जाने वाली राशि
धारा 59 की उप-धारा (2) के अंतर्गत कारावास का दंडनीय	भू-संपदा परियोजना की आकलित लागत का 10 %
धारा 64 के अंतर्गत कारावास का दंडनीय	भू-संपदा परियोजना की आकलित लागत का 10 %
धारा 66 के अंतर्गत कारावास का दंडनीय	भू-संपदा परियोजना के प्लॉट, अपार्टमेंट अथवा भवन, जैसा भी मामला हो, जिसके लिए बिक्री अथवा क्रय हो गया है, की आकलित लागत का 10 %
धारा 68 के अंतर्गत कारावास का दंडनीय	प्लॉट, अपार्टमेंट अथवा भवन, जैसा भी मामला हो, की आकलित लागत का 10 %

- (2) प्रवर्तक, आवंटिती अथवा भू सम्पदा एजेंट को, जैसा भी मामला हो, प्राधिकरण अथवा अपील अधिकरण के आदेशों का अनुपालन न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो अपराध के संयोजन की तारीख से 30 दिन से अधिक नहीं होगी, करना होगा।
- (3) उपनियम (1) के अनुसार राशि का भुगतान करने पर प्राधिकरण अथवा अपील अधिकरण के आदेशों का अनुपालन करने के पश्चात्, जैसा ऊपर उप-नियम (2) में दिया गया है, उस व्यक्ति को, जो उस अपराध के संबंध में अभिरक्षा में है, स्वतंत्र कर दिया जायेगा और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई आरंभ अथवा जारी नहीं रखी जायेगी।
- (4) उपनियम (1) के अधीन अपराध के शमन के लिए राशि स्वीकार करना, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 300 के सन्दर्भ में दोष मुक्त समझा जाएगा।

अध्याय-IX

प्राधिकरण और न्याय निर्णायक अधिकारी के पास शिकायतें दायर करना

36. प्राधिकरण के पास शिकायत दायर करना और प्राधिकरण द्वारा जाँच-

- (1) कोई भी वयधित व्यक्ति अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बने नियमों और विनियमों के अंतर्गत किसी अतिक्रमण के लिए प्राधिकरण के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, फार्म 'ड' के अनुसार, न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा न्याय निर्णय किये जाने वाली शिकायतों के सिवाय जो तीन प्रतियों में होगी, जब तक कि आवेदन प्रक्रिया वैब आधारित नहीं हो जाती और जिसके साथ प्राधिकरण के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पर आहरित एक हजार रुपये की राशि का मांग देय ड्राफ्ट लगा हो और जो उस स्थान पर बैंक की मुख्य शाखा में भुगतान योग्य हो जहाँ प्राधिकरण की पीठ स्थित है अथवा ऑन-लाइन भुगतान के माध्यम से जैसा भी मामला हो।
- (2) प्राधिकरण उप-नियम (1) के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट किसी शिकायत पर निर्णय लेने के प्रयोजन से निम्नलिखित रीति में जाँच के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया अपनायेगा, अर्थात् :
- (क) शिकायत प्राप्त होने पर प्राधिकरण, प्रतिवादी को अभिकथित उल्लंघन के व्यौरे और संगत दस्तावेजों के साथ सूचना जारी करेगा।
- (ख) प्रतिवादी जिसे विरुद्ध उप-नियम (2) के खंड (क) के अंतर्गत ऐसी सूचना जारी की गई है, सूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर शिकायत के संबंध में अपना उत्तर दायर करेगा।
- (ग) आगे और सुनवाई के लिए सूचना में तारीख और समय निर्धारित किया जा सकता है, और सुनवाई की तारीख और समय शिकायतकर्ता को भी संसूचित किया जाएगा।
- (घ) इस प्रकार निर्धारित तारीख को प्राधिकरण प्रतिवादी को अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बने नियमों और विनियमों के किन्हीं उपबंधों के संबंध में किसी अभिकथित उल्लंघन के बारे में समझायेगा और यदि प्रतिवादी:
- (i) दोषी होने का अभिवाक करता है प्राधिकरण अभिवाक को लेखबद्ध करेगा और अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बने नियमों और विनियमों के अनुसार शास्ति के अधिरोपण सहित, ऐसे आदेश पारित करेगा जिसे वह उचित समझता है।

- (ii) दोषी होने का अभिवाक नहीं करता है और शिकायत का प्रतिवाद करता है प्राधिकरण प्रत्यर्थी से स्पष्टीकरण मांग सकता है।
- (ड) यदि प्राधिकरण किये गए निवेदन के आधार पर संतुष्ट है कि शिकायत पर और जाँच की आवश्यकता नहीं है, वह शिकायत को खारिज कर सकता है।
- (च) यदि प्राधिकरण किये गए निवेदन के आधार पर संतुष्ट है कि शिकायत पर और आगे सुनवाई की जरूरत है, वह उसके द्वारा निर्धारित तारीख और समय पर दस्तावेज अथवा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश कर सकता है।
- (छ) प्राधिकरण को दस्तावेजों और निवेदनों के आधार पर शिकायत की जाँच करने की शक्ति प्राप्त है।
- (ज) प्राधिकरण को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिए या किसी दस्तावेज के पेश करने जो न्याय निर्णयन अधिकारी की राय में जाँच की विषय-वस्तु से संगत हो बुलाने और हाजरी प्रवृत्त करने की शक्ति होगी और ऐसा साक्ष्य लेते हुए प्राधिकरण, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
- (झ) इस प्रकार निर्धारित तारीख को प्राधिकरण उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य और अन्य अभिलेखों और निवेदनों पर विचार करने पर संतुष्ट है कि—
 - (i) प्रतिवादी ने अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बने नियमों और विनियमों का उल्लंघन किया है तो अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बने नियमों और विनियमों के अनुसार शास्ति के अधिरोपण सहित, ऐसे आदेश पारित करेगा।
 - (ii) प्रतिवादी ने अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बने नियमों और विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन नहीं किया है, प्राधिकरण लिखित में आदेश द्वारा लिखित में कारण देते हुए शिकायत को खारिज कर सकता है।
- (ञ) यदि कोई व्यक्ति, प्राधिकरण के समक्ष यथापेक्षित हाजिर होने में असफल रहता है, अवहेलना करता है अथवा स्वयं हाजिर होने से मना करता है, प्राधिकरण के पास ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की अनुपस्थिति में ऐसा करने के कारण लेखबद्ध करने के पश्चात जाँच जारी रखने की शक्ति प्राप्त है।
- (3) शिकायत दायर करने और उसके निपटान की प्रक्रिया और प्राधिकरण के संचालन और दिन-प्रति-दिन के कार्यकरण के अन्य सभी मामले, जिनके बारे में अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बने नियमों में उपबंध नहीं किया गया है, प्राधिकरण द्वारा बनाये गए विनियमों में विनिर्दिष्टियों के अनुसार होंगे।
- (4) जहाँ शिकायत के किसी पक्षकार का किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, जैसा धारा-56 के अंतर्गत उपबंधित है ऐसे पक्षकार के रूप में कार्य करने के प्राधिकार की प्रति और ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित सहमति शिकायत अथवा शिकायत की सूचना के उत्तर के साथ जैसा भी मामला हो, संलग्न की जानी चाहिये।

37. न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष शिकायत दायर करना और न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा

जाँच—

- (1) कोई भी वयधित व्यक्ति धारा 12,14,18 और 19 के अंतर्गत फार्म 'ढ' के अनुसार यथा उपबंधित व्याज और क्षतिपूर्ति की अपनी शिकायत न्याय निर्णायक अधिकारी के पास दायर कर सकता है जो तीन प्रतियों में होगी, जब तक कि आवेदन प्रक्रिया वैब आधारित नहीं हो जाती और जिसके साथ प्राधिकरण के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पर आहरित एक हजार रुपए की राशि का मांग धनादेश लगा हो और जो उस स्थान पर बैंक की मुख्य शाखा में भुगतान योग्य हो जहाँ प्राधिकरण की पीठ स्थित है अथवा ऑन-लाईन भुगतान के माध्यम से जैसा भी मामला हो।
- (2) न्याय निर्णायक अधिकारी व्याज और क्षतिपूर्ति का निर्णय लेने के प्रयोजन से, निम्नलिखित रीति में जाँच के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया अपनायेगा:
 - (क) शिकायत प्राप्त होने पर, न्याय निर्णायक अधिकारी प्रतिवादी को अभिकथित उल्लंघन के व्यौरे और संगत दस्तावेजों के साथ सूचना जारी करेगा।
 - (ख) प्रवर्तक जिसे विरुद्ध उप-नियम 2 के खंड (क) के अंतर्गत ऐसी सूचना जारी की गई है, सूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर शिकायत के संबंध में अपना उत्तर दायर करेगा।
 - (ग) आगे और सुनवाई के लिए सूचना में तारीख और समय निर्धारित किया जा सकता है और सुनवाई की तारीख और समय शिकायतकर्ता को भी संसूचित किया जाएगा।
 - (घ) इस प्रकार निर्धारित तारीख को प्राधिकरण प्रतिवादी को अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बने नियमों और विनियमों के किन्हीं उपबंधों के संबंध में किसी अभिकथित उल्लंघन के बारे में समझायेगा और यदि प्रतिवादी :

- (i) दोषी होने का अभिवाक करता है, न्याय निर्णायक अधिकारी अभिवाक को लेखबद्ध करेगा और नियम 15 में निर्दिष्ट के अनुसार ब्याज के भुगतान का आदेश करेगा अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बने विनियमों के अनुसार जिसे वह उचित समझता है, जैसा भी मामला हो।
- (ii) दोषी होने का अभिवाक नहीं करता है और शिकायत का प्रतिवाद करता है, न्याय निर्णायक अधिकारी प्रतिवादी से स्पष्टीकरण मांग सकता है।
- (ड) यदि न्याय निर्णायक अधिकारी किये गए निवेदन के आधार पर संतुष्ट है कि शिकायत पर और आगे जाँच की आवश्यकता नहीं है वह शिकायत को खारिज कर सकता है।
- (च) यदि न्याय निर्णायक अधिकारी किये गए निवेदन के आधार पर संतुष्ट है कि शिकायत पर और सुनवाई की जरूरत है, वह उसके द्वारा निर्धारित तारीख और समय पर दस्तावेज अथवा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश कर सकता है।
- (छ) न्याय निर्णायक अधिकारी को दस्तावेजों और निवेदनों के आधार पर शिकायत की जाँच करने की शक्ति प्राप्त है।
- (ज) न्याय निर्णायक अधिकारी के पास साक्ष्य देने अथवा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए किसी भी ऐसे व्यक्ति को समन करने और उसके उपस्थित होने को बाध्य करने की शक्ति है, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिस्थितियों से परिचित है जो न्याय निर्णायक अधिकारी की राय में जाँच की विषय-वस्तु से संगत अथवा लाभदायक हो सकता है, और ऐसा साक्ष्य लेते समय न्याय निर्णायक अधिकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 11) के उपबंधों का अनुपालन करने को बाध्य होगा।
- (झ) इस प्रकार निर्धारित तारीख को प्राधिकरण उसके प्रस्तुत साक्ष्य और अन्य अभिलेखों और निवेदनों पर विचार करने पर संतुष्ट है कि प्रतिवादी।
 - (i) ब्याज और क्षतिपूर्ति अदा करने का जैसा भी मामला हो दायी है, अथवा उसके अंतर्गत न्याय निर्णायक अधिकारी ब्याज के भुगतान का लिखित में आदेश करेगा, किया है तो जैसाकि नियम 15 में निर्दिष्ट है और ऐसी क्षतिपूर्ति जैसी वह उचित समझे जैसा भी मामला हो, अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बने नियमों और विनियमों के अनुसार शस्ति के अधिरोपण सहित, ऐसे आदेश पारित करेगा।
 - (ii) कोई ब्याज अथवा क्षतिपूर्ति देने को दायी नहीं है तो न्याय निर्णायक अधिकारी लिखित में आदेश द्वारा, लिखित में कारण देते हुए शिकायत को खारिज कर सकता है।
- (ट) यदि कोई व्यक्ति, प्राधिकरण के समक्ष यथापेक्षित हाजिर होने से असफल रहना है, अवहेलना करता है अथवा स्वयं हाजिर होने से मना करता है, न्याय निर्णायक अधिकारी के पास ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की अनुपस्थिति में ऐसा करने के कारण लेखबद्ध करने के पश्चात जाँच जारी रखने की शक्ति प्राप्त है।
- (3) शिकायत दायर करने और उसके निपटान की प्रक्रिया और न्याय निर्णायक अधिकारी के संचालन और दिन-प्रतिदिन के कार्यकरण के अन्य सभी मामले, जिनके बारे में अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बने नियमों में उपबंध नहीं किया गया है, प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्टों के अनुसार होंगे।
- (4) जहाँ शिकायत के किसी पक्षकार का किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, जैसा धारा-56 के अंतर्गत उपबंधित है, ऐसे पक्षकार के रूप में कार्य करने के प्राधिकार की प्रति और ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित सहमति शिकायत अथवा शिकायत की सूचना के उत्तर के जैसा भी मामला हो, संलग्न की जानी चाहिए।

अध्याय-X

बजट एवं रिपोर्ट

38. बजट लेखे और लेखा परीक्षा :-

- (1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्राधिकरण एक बजट बनायेगा, उचित लेखे और अन्य संगत अभिलेख तैयार करेगा और फार्म 'ण' के अनुसार वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा जैसा धारा-77 में उपबंधित है।
- (2) प्राधिकरण उप नियम उपरोक्त (1) के अंतर्गत तैयार लेखाओं और अन्य संगत अभिलेखों को पाँच वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए संरक्षित रखेगा।
- (3) उपखंड (1) के अंतर्गत लेखा एवं अन्य संबंधित रिकार्ड पर वित्त एवं लेखा के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव एवं प्रभारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- (4) संसद के समक्ष रखने के लिए प्राधिकरण के सेवा एवं लेखा-परीक्षा रिपोर्ट यथाशीघ्र सरकार को प्रस्तुत करनी होगी।

39. वार्षिक रिपोर्ट :-

- (1) प्राधिकरण फार्म 'पी' के आधार पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (2) प्राधिकरण उसके द्वारा समुचित सरकार को सूचित करने के लिए जो भी ठीक समझा जाए ऐसे अन्य विविध मामलों को वार्षिक रिपोर्ट में भी सम्मिलित कर सकता है।
- (3) प्राधिकरण की बैठक में वार्षिक रिपोर्ट के स्वीकार करने और अध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करने तथा प्राधिकरण की सामान्य मुहर लगाकर अधिप्रमाणित करने के पश्चात अपेक्षित संख्या में उनकी प्रतियां समुचित सरकार को उस वर्ष जिसके लिए इसे तैयार किया गया है, की समाप्ति के तत्काल पश्चात 180 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

प्ररूप 'क'**[नियम 3(2) देखें]****परियोजना के पंजीकरण के लिए आवेदन**

सेवा में,

भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (स्थान का नाम)

महोदय,

मैं/हम एतद् द्वारा मेरी/हमारी परियोजना के पंजीकरण की अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन करते हैं जो _____ तहसील _____ जिला _____ राज्य _____ में स्थापित जानी है।

1. अपेक्षित विवरण निम्नानुसार है:-

- (i) आवेदक का स्तर- व्यक्तिगत/कंपनी/स्वामित्व फर्म/सोसाइटियाँ/साझेदारी फर्म/सक्षम प्राधिकरण इत्यादि
- (ii) व्यक्तिगत मामले में-
 - (क) नाम
 - (ख) पिता का नाम
 - (ग) व्यवसाय
 - (घ) पता
 - (ङ) संपर्क विवरण (फोन नं०, ई-मेल, फैक्स नं० इत्यादि)
 - (च) प्रवर्तक का नाम, फोटो, संपर्क विवरण और पता, अथवा फर्म, सोसाइटियों/न्यास/कंपनियों/संमित देयता साझेदारी/सक्षम प्राधिकरण इत्यादि के मामले में
 - (क) नाम
 - (ख) पता
 - (ग) फर्म, सोसाइटियों/न्यास/कंपनियों/संमित देयता साझेदारी/सक्षम प्राधिकरण इत्यादि के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति
 - (घ) मुख्य समाप्ति
 - (ङ) संपर्क विवरण (दूरभाष संख्या/ई-मेल/फैक्स संख्या इत्यादि)
 - (च) अधिकृत व्यक्ति (अध्यक्ष/साझेदारी/निदेशक) इत्यादि का नाम, फोटो, संपर्क विवरण और पता।
- (iii) पेन संख्या, _____ आधार संख्या _____
- (iv) उस बैंक अथवा बैंकर का नाम और पता जिसके साथ धारा-4 (2)(1)(घ) के अनुसार खाते को रखा जाएगा _____
- (v) आवेदक के स्वामित्व वाली परियोजना भूमि का विवरण _____
- (vi) पिछले पाँच वर्षों में प्रवर्तक द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण, उक्त परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, क्या इसको पूरा करने में देरी हुई, लंबित मामलों का विवरण भूमि के प्रकार और लंबित भुगतानों इत्यादि के विवरण समेत पहले से ही पूरी की जा चुकी अथवा विकसित की जा रही परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण _____
- (vii) बाह्य विकास निर्माण कार्यों को शुरू करने के लिए एजेंसी _____ (स्थापित विकास)
- (viii) नियम 3 की उप नियम (3) के अनुसार हिसाब लगाई गई अथवा ऑनलाइन भुगतान जैसा भी मामला हो, के माध्यम से _____ की धनराशि का डिमांड ड्राफ्ट संख्या _____ दिनांक _____ जिसको _____ (बैंक का नाम) पर ड्रा किया गया है, के माध्यम से

पंजीकरण शुल्क (दिनांक _____) को भुगतान किया गया, लेन देन संख्या इत्यादि जैसे ऑनलाईन भुगतान का विवरण दें।

(ix) आवेदन ऐसी कोई अन्य सूचना जो देना चाहे।

2. मैं/हम निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करते हैं अर्थात :

(i) प्रवर्तन के पेन कार्ड आधार कार्ड की अधिप्रमाणित प्रति

(ii) वार्षिक रिपोर्ट जिसमें लेखापरीक्षित लाभ और हानि लेखा, तुलन पत्र, नगद विवरण, निदेशक रिपोर्ट और तीन वित्तीय वर्षों से तत्काल पहले की प्रवर्तक की सेवा परीक्षक रिपोर्ट हो तथा वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध न हो लेखापरीक्षित लाभ व हानि लेखा, तुलन, नकद प्रवाह विवरण और तीन वित्तीय वर्ष के तत्काल पहले की प्रवर्तक की सेवा परीक्षा रिपोर्ट हो:

(iii) उस भूमि जिस पर ऐसे स्वामित्व के सथ कानूनी रूप से वैध दस्तावेजों सहित परियोजना के विकास का प्रस्ताव है कि प्रवर्तक के स्वामित्व को दर्शाते हुए विधिक स्वामित्व विलेख को अधिप्रमाणित प्रति :

(iv) भूमि पर ऋणभार का व्यौरा जिस पर परियोजना प्रस्तावित है जिसमें किसी अधिकार, हकदारी, हित, देय, मुकदमा का व्यौरा तथा ऐसी भूमि पर किसी पार्टी का नाम अथवा कम से कम दस वर्ष के अनुभवी वकील के माध्यम से तहसीलदार के रैंक से अनूयून के राजस्व प्राधिकारी से जैसा भी मामला हो, ऋणभार-मुक्त का प्रमाण-पत्र।

(v) जहाँ प्रवर्तक उस भूमि जिस पर परियोजना के विकास का प्रस्ताव है का स्वामी न हो, उस भूमि का प्रवर्तक और ऐसे स्वामी में हस्ताक्षरित सहयोग करार, विकास करार, संयुक्त विकास करार अथवा किसी अन्य करार, जैसा भी मामला हो के एक प्रति सहित भूमि के स्वामी की सहमति का विवरण और उस भूमि जिस पर परियोजना के विकसित किए जाने का प्रस्ताव है पर ऐसे स्वामी के स्वामित्व को दर्शाते हुए स्वामित्व की अन्य दस्तावेजों की प्रतियाँ :

(vi) आवेदन में उल्लेखित भू-संपदा परियोजना के लिए यथा लागू कानूनों के अनुसार सक्षम प्राधिकरण से प्राप्त अनुमोदनों और प्रारंभ करने के प्रमाण-पत्र की एक अधिप्रमाणित प्रति और जहाँ परियोजनाओं को चरणों में विकसित किए जाने का प्रस्ताव है ऐसे प्रत्येक चरण के लिए प्राधिकरण से अनुमोदनों और प्रारंभ करने के प्रमाण-पत्र की एक अधिप्रमाणित प्रति :

(vii) प्रस्तावित परियोजना अथवा उसके चरण की स्वीकृत नक्शा ले आउट प्लान और विनिर्देशान तथा सक्षम प्राधिकरण द्वारा यथा स्वीकृत संपूर्ण परियोजना :

(viii) प्रस्तावित परियोजना में निष्पादित किए जाने वाले विकास संबंधित निर्माण कार्य का नक्शा और अग्रिम सुविधाओं, पेय जल सुविधाओं आपाती मल सेवाएँ, नवीकरणीय ऊर्जा समेत उसकी प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित सुविधाएं:

(ix) परियोजना के अंतिम सीलों के अक्षांश और देशांतर रेखाएं समेत इसकी सीमाओं सहित परियोजना के लिए समर्पित भूमि के स्पष्ट सीमांकन सहित परियोजना का सीन विवरण :

(x) आवंटन पत्र, विक्रय करार का प्रपत्र तथा स्वामित्व भिलेख जिस पर आबंटियों से हस्ताक्षर किए जाने का प्रस्ताव है।

(xi) केवल छज्जा अथवा मिरांडा क्षेत्रफल सहित परियोजना में बिक्री के लिए अपार्टमेंटों की संख्या प्रकार और दरी क्षेत्र तथा अपार्टमेंट सहित केवल खुले चबुतरों के क्षेत्र यदि कोई हो।

(xii) परियोजना में बिक्री के लिए करार की संख्या और क्षेत्र।

(xiii) उक्त भू-संपदा परियोजना में उपलब्ध खुले पार्किंग क्षेत्रों और बंद पार्किंग क्षेत्रों की संख्या।

(xiv) प्रस्तावित परियोजना के लिए उसके भू संपदा के एजेंट यदि कोई हो के नाम और पते।

(xv) संविदाकारों, वास्तुकार, संरनात्मक अभियंता, यदि कोई हो तथा प्रस्तावित परियोजना के विकास से संबंधित अन्य व्यक्तियों के नाम और पते।

(xvi) फार्म 'ख' के अनुसार एक घोषणा पत्र।

3. मैं/हम नियम 4 और अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अन्य उपबंधों के अधीन जारी परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेजों और जानकारी संलग्न करता हूँ/करते हैं..

(i)

(ii)

(iii)

.....

4. मैं/हम सत्यनिष्ठा से पुष्टि और घोषणा करते हैं कि इसकी दिए गए विवरण (मेरी/हमारी) जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है और (मेरी/हमारे) द्वारा कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

दिनांक:-

स्थान:-

भवदीय

आवेदक (को) के हस्ताक्षर और मोहर

प्ररूप 'ख'
देखें नियम 3(4)

शपथ पत्र द्वारा समर्थित घोषणा संप्रवर्तक अथवा संप्रवर्तक द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

शपथपत्र सह घोषणा

(श्री/श्रीमती)के शपथपत्र सह घोषणा परियोजना का संप्रवर्तक/परियोजना के संप्रवर्तक द्वारा विधिवत् प्राधिकृत, तारीख.....के इसके/उनके प्राधिकार के अधीन मैं.....परियोजना के संप्रवर्तक परियोजना के संप्रवर्तक द्वारा विधिवत् प्राधिकृत निम्नानुसार वचन देता हूँ घोषणा और कथन करता हूँ ।

1. यह कि मैं संसंप्रवर्तक भूमि का स्वामी हूँ जिस पर परियोजना का विकास प्रस्तावित है।

अथवा

.....पास भूमि का विधिक स्वामित्व है जिस पर परियोजना का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

और

भू संपदा परियोजना के विकास हेतु ऐसे स्वामी एवं संसंप्रवर्तक के बीच करार की अधिप्रमाणित प्रति के साथ ऐसी भूमि क विधिक रूप से बैध स्वामित्व की अधिकृत प्रति इसके साथ संलग्न है।

2. यह कि उक्त भूमि सभी तरह की विल्लंगम से मुक्त है।

अथवा

.....विल्लंगमों का व्यौरा जिसमें किसी अधिकार, स्वामित्व, देय, मुकदमा तथा भूमि पर किसी पार्टी के नाम के व्यौरे शामिल हो।

3. यह कि..... इस समय सीमा के भीतर परियोजना मेरे/संसंप्रवर्तक द्वारा पूर्ण की जाएगी।

4. यह कि समय-समय पर आवंटितियों से रीयल एस्टेट परियोजना के लिए मेरे/संसंप्रवर्तक द्वारा जुटाई गई धनराशि का 70 प्रतिशत एक अलग खाते में जमा की जाएगी जिसका अनुरक्षण निर्माण लागत एवं भूमि की लागत को पूरा करने के लिए एक अनुसूचित बैंक में किया जाएगा और इसका उपयोग केवल इसी समाप्ति के लिए किया जाएगा।

5. यह कि परियोजना की लागत को कवर करने के लिए अलग खाते की धनराशि परियोजना की पूर्णतया के प्रतिशत के अनुपात में मेरे/संसंप्रवर्तक द्वारा निकासी जाएगी।

6. यह कि अलग खाते से धनराशि (मेरे/संसंप्रवर्तक) द्वारा इस आधार पर इंजीनियर, आर्किटेक्ट और अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित होने के बाद निकाला जाएगा कि निकासी परियोजना की पूर्णता के प्रतिशत के अनुपात में है।

7. यह कि (मैं/संसंप्रवर्तक) चार्टर्ड एकाउंटैंड द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पश्चात 6 माह के भीतर लेखाओं की सेवा परीक्षा कराऊंगा और लेखाओं का विवरण प्रस्तुत करूंगा जो अकाउंटैंड द्वारा समयक रूप से प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित हो और यह लेखा परीक्षा के दौरान सत्यापित होंगी कि एक विशेष परियोजना के लिए एकत्रित धनराशि का उपयोग उसी परियोजना के लिए किया जाएगा और निकासी परियोजना की पूर्णता के प्रतिशत के अनुपात के अनुरूप की गई है।

8. यह कि (मैं/संसंप्रवर्तक) सक्षम प्राधिकारी से समय पर सभी लंबित अनुमोदन ले लूंगा।

9. यह कि (मैं/संसंप्रवर्तक) ऐसे अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कराऊंगा जैसा कि अधिनियम एवं नियमों तथा इसके तहत बनाए गए विनियमों द्वारा निर्धारित है।

10. यह कि (मैं/संसंप्रवर्तक) किसी भी आवंटिती के खिलाफ किसी अपार्टमेंट प्लॉट अथवा भवन जैसा भी मामला हो, किसी तरह का भेदभाव नहीं करूंगा।

अभिसाक्षी

सत्यापन

मेरे उपर्युक्त शपथपत्र सह घोषणा पत्र की सत्य और सही है तथा मेरे द्वारा प्ररूप में कोई सामग्री छिपाई नहीं है।.....के इस दिन.....को मेरे द्वारा सत्यापित।

अभिसाक्षी

प्ररूप 'ग'

(नियम 5(1) देखें)

परियोजना का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

निम्नलिखित परियोजना को धारा-6 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण के इस विस्तार की अनुमति दी गई है।

(परियोजना, जिसके अंतर्गत परियोजना का पता भी है, के व्यौरे विनिर्दिष्ट करें)

1. (व्यष्टि के मामले में) (श्रीमान/श्रीमती) सुपुत्र (श्रीमान/श्रीमती)
तहसील.....जिला.....राज्य..... ;

अथवा

.....फर्म/सोसाईटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी इत्यादि के मामले में.....
फर्म/सोसाईटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी इत्यादि का.....में अपना करोबार का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय/मूल स्थान है।

2. निम्नलिखित शर्तों के आधार पर रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाता है, अर्थात :-

- (i) संप्रवर्तक उचित सरकार द्वारा यथा निर्धारित आवंटियों के साथ बिक्री हेतु करार करेगा।
- (ii) संप्रवर्तक धारा-17 के अनुसार अपार्टमेंट, भूखंड अथवा भवन, जैसा भी मामला हो अथवा साझा क्षेत्रों के आवंटिती अथवा आवंटितियों के संघ, जैसा भी मामला हो के पक्ष में अभिहस्तांतरण पत्र तैयार तथा रजिस्ट्रीकरण करेगा।
- (iii) संप्रवर्तक एक पृथक खांते में संप्रवर्तक द्वारा वसूल की गई धनराशि का 70 प्रतिशत करेगा जिसको निर्माण के लागत को पूरा करने के लिए अनुसूचित बैंक में रखा जाएगा और धारा-4 की उप-धारा-(2) के खंड (घ) के परन्तु भूमि लागत का प्रयोग केवल उसी प्रयोजनार्थ किया जाएगा।
- (iv) यह रजिस्ट्रीकरण.....वर्ष की अवधि तक विधिमान्य रहेगा और.....तक समाप्त हो जाएगा जब तक कि इस अधिनियम और बनाए गए नियमों के अधीन प्राधिकरण इसका विस्तार न कर दें।
- (v) संप्रवर्तक अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों का पालन करेगा।
- (vi) संप्रवर्तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के जैसा कि परियोजना के लिए लागू हो उपबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा।

3. यदि उपरोक्त शर्तों को संप्रवर्तक पूरा नहीं करता है, तब प्राधिकरण अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार इसमें किए गए रजिस्ट्रीकरण को प्रत्याहृत करने सहित संप्रवर्तक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

तरीख:

स्थान :

प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर व मुद्रा

भू-संपदा नियामक प्राधिकरण।

प्ररूप 'घ'

(नियम 5(2) नियम 6(4) नियम 7 देखें)

परियोजना के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के निरस्त होने/परियोजना के रजिस्ट्रीकरण के विस्तार के लिए आवेदन के निरस्त होने/परियोजना के रजिस्ट्रीकरण के निरसित होने की सूचना

प्रेषक :

भू संपदा नियामक प्राधिकरण (सीन का नाम)

.....

सेवा में,

.....

आवेदन/रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

तारीख :.....

आपको सूचित किया जाता है कि आपकी परियोजना के रजिस्ट्रीकरण के लिए आपका आवेदन निरस्त कर दिया गया है।

अथवा

आपको सूचित किया जाता है कि आपकी परियोजना के विस्तार के लिए आपका आवेदन निरस्त कर दिया गया है।

अथवा,

आपको सूचित किया जाता है कि आपकी परियोजना के लिए स्वीकृति रजिस्ट्रीकरण को प्रतिसंहरित किया जाता है।

उपरोक्त के कारण :.....

स्थान :.

तारीख :.

प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर व मुद्रा

भू-संपदा नियामक प्राधिकरण

प्ररूप 'ड'
(नियम 6(1) देखें)
परियोजना के रजिस्ट्रीकरण के विस्तार के लिए आवेदन

प्रेषक :

.....
.....
.....

सेवा में,

भू संपदा नियामक प्राधिकरण (स्थान का नाम)

.....
.....

महोदय,

(मैं/हम) निम्नलिखित परियोजना के रजिस्ट्रीकरण के विस्तार के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं। परियोजना रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के तहत प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत है जिसकी संख्या..... है, यह.....को समाप्त हो रही है।

(मैं/हम) यथा अपेक्षित निम्नलिखित दस्तावेज और सूचना प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं। अर्थात :-

- (i) नियम 6 के उप नियम (2) में यथा उपबंधित के अनुसार विस्तार शुल्क.....बैंक से.....के पक्ष में.....रूप के तारीख.....के मांग पत्र सं०/बैंकर्स चेक सं०.....अथवा ऑनलाइन भुगतान जैसस भी मामला हो.....के माध्यम से अंतरिक किया गया (ऑनलाइन भुगतान का विवरण दें जैसे भुगतान की तारीख अंतरण सं० इत्यादि)
- (ii) अब तक शुरू किए गए विकास कार्यों के चरण को दर्शाते परियोजना की सत्यापित योजना :
- (iii) परियोजना में विकास कार्य की स्थिति तथा.....परियोजना के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करते समय फार्म 'ख' में प्रस्तुत घोषणा अवधि के भीतर परियोजना में निर्माण कार्य पूरा न करने के कारण के संबंध में स्पष्टीकरण टिप्पणी ।
- (iv) सक्षम प्राधिकारी से अनुमति/अनुमोदन की अधिप्रमाणित प्रति जो कि एक अवधि के लिए विधिमान्य है, यह प्राधिकरण से मांगे गए रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तावित विस्तार अवधि से अधिक है।
- (v) परियोजना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की अधिप्रमाणित प्रति : और
- (vi) कोई अन्य सूचना जिसे विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सके।

स्थान :

तारीख :

भवदीय

आवेदक का हस्ताक्षर तथा मुद्रा

प्ररूप 'च'
(नियम 6 (4) देखें)

परियोजना के रजिस्ट्रीकरण के विस्तार के लिए प्रमाण-पत्र
निम्नलिखित परियोजना को धारा 6 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण के इस विस्तार की अनुमति दी गई है :

परियोजना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के अधीन प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत है जिसकी सं० है, जो है :-

1. (व्यष्टि के मामले में) (श्रीमान/श्रीमती) सुपुत्र (श्रीमान/श्रीमती)
तहसील जिला राज्य :
अथवा
..... (एक फर्म/सोसायटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी इत्यादि के मामले में)
(फर्म/सोसायटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी इत्यादि) का में अपना (कारवार का रजिस्ट्रीकृत
कार्यालय/मूल स्थान) है।

2. निम्नलिखित शर्तों के आधार पर रजिस्ट्रीकरण का यह विस्तारण किया जाता है, अर्थात् :-

- i. संप्रवर्तक धारा 17 के अनुसार अपार्टमेंट, भूखंड अथवा भवन, जैसा भी मामला हो, अथवा साझा क्षेत्रों के आवंटिती अथवा आवंटितियों के संघ, जैसा भी मामला हो, के पक्ष में अभिहस्तांतरण पत्र तैयार तथा रजिस्ट्रीकरण करेगा।
- ii. संप्रवर्तक एक पृथक खाते में संप्रवर्तक द्वारा वसूल की गई धनराशि का 70% जमा करेगा जिसको निर्माण के लागत को पूरा करने के लिए अनुसूचित बैंक में रखा जाएगा और धारा 4 की उप-धारा (2) के खंड (1) के उप-खंड (घ) के परंतुक भूमि लागत का प्रयोग केवल उसी प्रयोजनार्थ किया जाएगा :
- iii. इस रजिस्ट्रीकरण को की अवधि (दिन/सप्ताह/महीने) तक बढ़ाया जाएगा तथा यह तक विधिमान्य रहेगा।
- iv. संप्रवर्तक अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों का पालन करेगा :
- v. संप्रवर्तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के, जैसा कि परियोजना के लिए लागू हो, उपबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा :
- vi. यदि उपरोक्त शर्तों को संप्रवर्तक पूरा नहीं करता है, तब प्राधिकरण अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार इसमें किए गए रजिस्ट्रीकरण को प्रतिसंहरित करने सहित संप्रवर्तक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

तारीख :

स्थान :

प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर व मुद्रा
भू-संपदा नियामक प्राधिकरण

प्ररूप 'छ'
(देखे नियम 9 (1))

भू-संपदा अभिकर्ता के रजिस्ट्रीकरण का आवेदन

सेवा में,

भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
(स्थान का नाम)

.....
.....

महोदय,

(मैं/हम) अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमों और अधिनियमों के अनुसरण में संघ शासित प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत भू-संपदा परियोजनाओं में भूखंड, अपार्टमेंट अथवा भवन, जैसा भी मामला हो, के विक्रय अथवा क्रय को सुविधाजनक बनाने के लिए भू-संपदा अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण की स्वीकृति के लिए आवेदन करते हैं।

1. (व्यष्टि के मामले में) (श्री/सुश्री) पुत्र/पुत्री (श्री/सुश्री)
तहसील जिला संघ शासित प्रदेश

अथवा

(फर्म/सोसाइटी/कंपनी आदि मामले में) (फर्म/सोसाइटी/कंपनी आदि) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय/व्यापार का मुख्य स्थान) स्थित है।

2. अपेक्षित विवरण इस प्रकार है :

- (i) आवेदक की प्रास्थिति, क्या (व्यष्टि/कंपनी/स्वामित्व फर्म/सोसाइटी/भागीदारी फर्म/सीमित दायित्व भागीदारी आदि)
- (ii) व्यष्टि के मामलों में :-
(क) नाम (व्यष्टिगत/स्वामित्व फर्म)
(ख) पिता का नाम
(ग) व्यवसाय
(घ) पता
(ङ) संपर्क का ब्यौरा (फोन नं०, ई-मेल, फैक्स संख्या आदि)
(च) स्वत्वधारी का नाम, फोटो, संपर्क, ब्यौरा और पता

अथवा

(फर्म/सोसाइटी/कंपनी आदि) के मामले में

- (क) नाम
- (ख) पता
- (ग) (फर्म/सोसाइटी/कंपनी आदि) के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रमाण-पत्र की प्रति
- (घ) मुख्य कार्यकलाप
- (ङ) संपर्क ब्यौरा (फोन संख्या/ई मेल/फैक्स नं० आदि)
- (च) नाम, फोटोग्राफ, संपर्क ब्यौरा और पता (सभी भागीदार/निदेशक आदि)
- (iii) रजिस्ट्रीकरण का विवरण (स्वामित्व, सोसाइटी, भागीदारी, कंपनी आदि के रूप में) उप-विधियां, संगम ज्ञापन, संगम के अनुच्छेद आदि, जैसा भी मामला है।
- (iv) कारवार करने के स्थान के पते के सबूत की अधिप्रमाणित प्रति।
- (v) किसी अन्य राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश में रजिस्ट्रीकरण का ब्यौरा।
- (vi) अन्य कोई सूचना, जैसी विनियमों में निर्दिष्ट हो।

3. (मैं/हम) इसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करता/करते हैं, अर्थात् -

- (i) नियम 9 के उप-नियम (2) के अनुसार रजिस्ट्रीकरण शुल्क के रूप में बैंक पर आहरित के पक्ष में रु० की राशि का डिमांड ड्राफ्ट संख्या तारीख थिवा ऑन-लाइन भुगतान,, जैसा भी मामला हो (ऑन-लाइन भुगतान का ब्यौरा जैसे अदायगी की तारीख, संव्यवहार संख्या आदि) :
- (ii) भू-संपदा अभिकर्ता के पैन कार्ड और आधार कार्ड की अधिप्रमाणित प्रति : और
- (iii) किसी अन्य राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश में भू संपदा अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण की अधिप्रमाणित प्रति, यदि लागू हो।

4. (मैं/हम) सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि, इसमें दिया गया विवरण (मेरी/हमारी) जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और (मेरे/हमारे) द्वारा उसमें कुछ छुपाया नहीं गया है।

तारीख :

स्थान

भवदीय

आवेदक (को) के हस्ताक्षर और मुद्रा

प्ररूप 'ज'
(देखे नियम 10 (2))
भू-संपदा अभिकर्ता के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

1. यह रजिस्ट्रीकरण संख्या सहित धारा 9 के अंतर्गत प्रदान किया जाता है।
(व्यक्ति के मामले में) (श्री/सुश्री) पुत्र/पुत्री (श्री/सुश्री)
तहसील जिला संघ शासित प्रदेश

अथवा

(फर्म/सोसाइटी/कंपनी आदि मामले में)
(फर्म/सोसाइटी/कंपनी आदि) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय/व्यापार का
मुख्य स्थान) स्थित है।

अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमों और विनियमों के निबंधनों में संघ शासित प्रदेश में
रजिस्ट्रीकृत भू-संपदा परियोजनाओं में भूखंड, अपार्टमेंट अथवा भवन, जैसा भी मामला हो, के विक्रय अथवा क्रय को
सुविधाजनक बनाने के लिए भू-संपदा अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए।

2. यह रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान किया जाता है, अर्थात् :-

- (i) भू संपदा अभिकर्ता किसी भू संपदा परियोजना अथवा उसके भाग के, भूखंड, अपार्टमेंट अथवा भवन, जैसा भी मामला हो, का क्रय अथवा विक्रय नहीं करेगा जो संप्रवर्तक द्वारा विक्रय किया जा रहा होगा, जो अपेक्षित है परन्तु प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत है।
- (ii) भू संपदा अभिकर्ता ऐसी लेखा पुस्तकें, अभिलेख और प्रलेख अनुरक्षित और संरक्षित करेगा जैसा नियम 13 में उपबंधित है।
- (iii) भू-संपदा अभिकर्ता स्वयं को धारा 10 के खंड (ग) में यथानिर्दिष्ट अनुचित व्यापार व्यवहार में शामिल नहीं करेगा।
- (iv) भू संपदा अभिकर्ता भूखंड, अपार्टमेंट अथवा भवन, जैसा भी मामला हो, की बुकिंग के समय सारी सूचनाओं और प्रलेखों का कब्जा दिलवायेगा, जिनका आवंटिती पात्र है।
- (v) भू-संपदा अभिकर्ता किसी भूखंड, अपार्टमेंट अथवा भवन की, जैसा भी मामला हो, बुकिंग के समय आवंटिती और संप्रवर्तक को उसके अपने अधिकारों और अपने दायित्वों को पूरा करने में सहायता करेगा।
- (vi) भू संपदा अभिकर्ता अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमों और विनियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा।
- (vii) भू संपदा अभिकर्ता जैसे उसके ऊपर लागू हो तत्समय प्रवृत्त किन्हीं अन्य विधियों के उपबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा।
- (viii) भू संपदा अभिकर्ता ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन भी करेगा जो प्राधिकरण द्वारा विनियमों द्वारा यथानिर्दिष्ट किये हों।

3. रजिस्ट्रीकरण.....से आरंभ होकर.....को समाप्ति के साथ पाँच वर्ष की अवधि के लिए विधिमाम्य होगा जब तक कि प्राधिकरण द्वारा उसका अधिनियम और अंतर्गत बने नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार नवीकरण नहीं किया जाता।

4. यदि उपरोक्त उल्लिखित शर्तों को भू संपदा अभिकर्ता द्वारा पूरा नहीं किया जाता, प्राधिकरण इसमें स्वीकृत रजिस्ट्रीकरण के प्रतिसंहरण सहित भू संपदा अभिकर्ता के विरुद्ध अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बने नियमों और विनियमों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

तारीख:

स्थान :

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर व मुद्रा
भू संपदा विनियामक प्राधिकरण

प्ररूप 'झ'

नियम 10(3), नियम 11(4), 12 देखें

भू-संपदा अभिकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन क निरस्तर होने/भू-संपदा अभिकर्ता के नवीकरण के विस्तार के लिए आवेदन के निरस्त होने/भू-संपदा अभिकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के प्रतिसंहरित होने की सूचना

प्रेषक :

भू संपदा नियामक प्राधिकरण (स्थान का नाम)

.....
.....

सेवा में,

.....
.....
.....

आवेदन/रजिस्ट्रीकरण संख्या:

तारीख :

आपको सूचित किया जाता है कि भू-संपदा अभिकर्ता के रूप में के रजिस्ट्रीकरण के लिए आपका आवेदन निरस्त कर दिया गया है।

अथवा,

आपको सूचित किया जाता है कि भू-संपदा अभिकर्ता के रूप में के रजिस्ट्रीकरण नवीकरण के लिए आपका आवेदन निरस्त कर दिया गया है।

अथवा,

आपको सूचित किया जाता है कि भू-संपदा अभिकर्ता के रूप में आपको दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रतिसंहरित किया जाता है।

उपरोक्त के कारण :-.....

स्थान :

तारीख :

प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर और मुद्रा
भू संपदा विनियामक प्राधिकरण।

प्ररूप 'अ'

नियम 11(1), देखें

भू-संपदा अभिकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के विस्तार के लिए

सेवा में,

भू-संपदा नियामक प्राधिकरण (स्थान का नाम)

.....

महोदय,

(मैं/हम) निम्नलिखित भू-संपदा अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करते हैं, जिसकी रजिस्ट्रीकरण सं..... है जो.....को समाप्त हो रहा है।

1. मैं/हम इसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करता/करते हैं अर्थात :

(i) नियम 11 के उपनियम (2) के अनुसार नवीकरण शुल्क के रूप में.....बैंक पर आहरित.....के पक्ष में रु.....की राशि का डिमांड ड्राफ्ट संख्या/बैंकर्स चेक सं.....तारीख.....अथवा ऑन-लाईन भुगतान, जैसा भी मामला हो.....
(ऑन-लाईन भुगतान का ब्यौरा जैसे अदायगी की तारीख संव्यवहार संख्या आदि:

(ii) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की अधिप्रमाणित प्रति:

(iii) आवेदन की प्रस्थिति कृपया (व्यष्टि/केपनी/स्वामित्व फर्म/सोसाइटी/भागीदारी फर्म/सीमित दायित्व भागीदारी आदि)

(iv) व्यष्टि के मामले में:-

(क) नाम व्यक्तिगत/स्वामित्व फर्म

(ख) पिता का नाम

(ग) व्यवसाय

(घ) पता

(ङ) संपर्क का ब्यौरा (फोन नं., ई-मेल, फैक्स सं. आदि)

(च) संप्रवर्तक का नाम, फोटोग्राफ संपर्क ब्यौरा एवं पता

अथवा,

फर्म/सोसाइटी/कंपनी आदि के मामले में

(क) नाम

(ख) पिता

(ग) फर्म/सोसाइटी/कंपनी आदि के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रमाण-पत्र की प्रति

(घ) मुख्य कार्यकलाप

(ङ) सम्पर्क ब्यौरा (फोन नं., ई-मेल, फैक्स सं. आदि)

(ख) नाम, फोटोग्राफ संपर्क ब्यौरा एवं पता सभी भागीदार/निदेशक आदि।

(v) रजिस्ट्रीकरण का विवरण (स्वामित्व, सोसाइटी, भागीदारी, कंपनी आदि के रूप में), उप-विधियां, संगम ज्ञापन, संगम के अनुच्छेद आदि, जैसा भी मामला हो।

(vi) कारबार करने के स्थान के पते के प्रमाण की अधिप्राणित प्रति।

(vii) भू-संपदा अभिकर्ता के पैन कार्ड की अधिप्रमाणित प्रति: और

(viii) किसी अन्य राज्य अथवा संघ शासित प्रवेश में भू-संपदा अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण की अधिप्रमाणित प्रति, यदि लागू हो।

(ix) अन्य कोई सूचना, जैसी विनियमों में निर्दिष्ट हो।

2. (मैं/हम) सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषण करता हूं कि इसमें दिया गया विवरण (मेरी/हमारी) जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और (मेरी/हमारी) द्वारा उसमें कुछ छुपाया नहीं गया है।

तारीख:

भवदीय

स्थान:

आवेदक (को) के हस्ताक्षर और मुद्रा

प्रारूप-‘ट’

[देखें नियम 11 (4)]

भू-संपदा अभिकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण प्रमाण-पत्र

1. यह रजिस्ट्रीकरण नवीकरण धारा 9 के अधीन प्रदान किया जाता है।

(व्यष्टि के मामले) (श्री/सुश्री).....पुत्र/पुत्री (श्री/सुश्री).....
तहसीन.....जिला.....संघ शासित प्रदेश

अथवा

(फर्म/सेसाईटी/कंपनी आदि मामले में).....(फर्म/सोसाईटी/कंपनी आदि).....
जिसका (रजिस्ट्रीकृत कार्यालय/व्यावहार का मुख्य स्थान).....स्थित है।

सं०.....वाले रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के क्रम में.....

2. यह रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाता है, अर्थात्:-

- (i) भू-संपदा अभिकर्ता किसी भू संपदा परियोजना अथवा उसके भाग के, भूखंड, अपार्टमेंट अथवा भवन, जैसा भी मामला हो, का क़य अथवा विक्रय सुकर नहीं बनाएगा जो संप्रवर्तक द्वारा विक्रय किया जा रहा हो, जो अपेक्षित है परन्तु प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत नहीं है।
- (ii) भू-संपदा अभिकर्ता ऐसी लेखा पुस्तकें, अभिलेख और दस्तावेज अनुरक्षित और संरक्षित करेगा जैसा नियम 13 में उपबंधित है।
- (iii) भू-संपदा अभिकर्ता स्वयं को धारा 10 के खण्ड (ग) में यथानिर्दिष्ट अनुचित व्यवहार में शामिल नहीं करेगा।
- (iv) भू-संपदा अभिकर्ता भूखंड, अपार्टमेंट अथवा भवन, जैसा भी मामला हो, की बुकिंग के समय सारी सूचनाओं और दस्तावेजों का कब्जा दिलवायेगा, जिसका आवंटिती पात्र है।
- (v) भू-संपदा अभिकर्ता किसी भूखंड, अपार्टमेंट अथवा भवन की, जैसा भी मामला हो, बुकिंग के समय आवंटिती और संप्रवर्तक को उसके अपने अधिकारों और अपने दायित्वों को पूरा करने में सहायता करेगा।
- (vi) भू-संपदा अभिकर्ता अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमों और विनियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा।
- (vii) भू-संपदा अभिकर्ता उसके उपर लागू तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा।
- (viii) भू-संपदा अभिकर्ता ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन भी करेगा जो प्राधिकरण द्वारा विनियमों द्वारा यथानिर्दिष्ट किये हों।

3. रजिस्ट्रीकरण.....से आरंभ होकर.....को समाप्ति के साथ पंच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा जब तक कि प्राधिकरण द्वारा उसका अधिनियम और अंतर्गत बने नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार नवीकरण नहीं किया जाता।

4. यदि उपरोक्त निबंधनों और शर्तों को भू-संपदा अभिकर्ता द्वारा पूरा नहीं किया जाता, प्राधिकरण इसमें स्वीकृत रजिस्ट्रीकरण के प्रतिसंहरण सहित भू-संपदा अभिकर्ता के विरुद्ध अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बने नियमों और विनियमों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

तारीख:

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान:

व मुद्रा भू संपदा विनियामक प्राधिकरण

प्रारूप-‘ठ’
[नियम 27 (2) देखें]
अपीलीय प्राधिकरण को अपील
धारा 44 के अंतर्गत अपील

अपीलीय प्राधिकरण के कार्यालय के उपयोग हेतः

फाईल करने की तारीख:

(डाक द्वारा/ऑन लाईन फाईलिंग) की तारीख:.....

अपील सं०:.....

हस्ताक्षर:

रजिस्ट्रार:

भू-संपदा अपीलीय प्राधिकरण में (स्थान की नाम)

..... अपीलार्थी

और

..... प्रत्यर्थी

अपील का ब्यौरा:

1. अपीलार्थियों का विवरण:-

- (i) प्रत्यर्थी का नाम-
- (ii) अपीलार्थी के मौजूदा कार्यालय/निवास स्थान का पता-
- (iii) सभी नोटिस देने के लिए पता-
- (iv) संपर्क करने का ब्यौरा (फोन नं., ई-मेल, फैक्स सं. आदि)-

2. प्रत्यर्थी का विवरण:

- (i) प्रत्यर्थी का नाम-
- (ii) प्रत्यर्थी के कार्यालय का पता-
- (iii) सभी नोटिस देने के लिए पता-
- (iv) संपर्क करने का ब्यौरा (फोन नं., ई-मेल, फैक्स सं. आदि)-

3. अपीलीय प्राधिकरण की अधिकारिता:

अपीलार्थी यह घोषण करता है कि अपील की विषय वस्तु अपीलीय प्राधिकरण की अधिकारिता के अंतर्गत आती है।

4. सीमाएँ :-

अपीलार्थी यह घोषणा करता है कि अपील धारा-44 की उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर है।

अथवा,

यदि अपील धारा 44 की उप-धारा (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमा अवधि के समाप्त होने के बाद दायर की जाती है तो विलंब के कारणों का उल्लेख करें.....

5. मामले के तथ्य:-

धाराओं.....या नियम (यों).....या विनियम (यों) के अधीन पारित प्राधिकरण अथवा न्याय निर्णायक अधिकारी जैसा भी मामला हो के विनिर्दिष्ट आदेश के विरुद्ध अपील के आधारों और तथ्यों का संक्षिप्त विवरण दें)

6. मांगा गया अनुतोष :-

उपर्युक्त पैरा 5 में उल्लिखित तथ्यों के दृष्टिगत, अपीलार्थी निम्नलिखित अनुतोष के लिए माँग करता है।

(अनुतोष के आधारों और मान्य कानूनी उपबंधों (यदि कोई हो) को स्पष्ट करते हुए मांगे गए अनुतोष का नीचे उल्लेख करें)

7. अंतरिक आदेश, यदि अनुरोध किया गया :-
अपीलार्थी अपील के लंबित अंतिम विनिश्चय में निम्नलिखित अंतरिक आदेश जारी करने की मांग करता है।
(यहाँ कारणों सहित, अनुरोध किए गए अंतरिक आदेश की प्रकृति बतायें)
8. मामले जो किसी भी अन्य न्यायालय आदि के पास लंबित नहीं हैं :-
अपीलार्थी यह भी घोषणा करजा है कि मामले जिनके संबंध में यह अपील की गई है, किसी भी न्यायालय अथवा अन्य किसी प्राधिकरण अथवा अन्य किसी न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित नहीं हैं।
9. नियम 27 के उप नियम (1) के अनुसार शुल्क के संबंध में (बैंक ड्राफ्ट अथवा ऑनलाइन भुगतान) का विवरण :-
(i) राशि -
(ii) बैंक का नाम जिसमें आहरण किया गया -
(iii) डिमांड ड्राफ्ट संख्या/ऑनलाइन लेन-देन संख्या -
10. संलग्नों की सूची :
(i) आदेश की सत्यापित सत्य प्रति जिसके विरुद्ध दायर की गई है।
(ii) अपीलार्थी द्वारा अपने समर्थन में जुटाए गए दस्तावेजों की प्रतियां और जिनकी अपील में निर्दिष्ट किया गया
(iii) दस्तावेजों की सूची
(iv) परिवाद के साथ उपाबंध अन्य दस्तावेज

सत्यापन

मैं.....(पूरे अक्षरों में नाम)(पुत्र/पुत्री).....

अपीलार्थी यह सत्यापन करता हूँ कि पैरा (1 से 10 तक) की विषय वस्तु मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यह मैंने कोई सारगर्भित तथ्य छिपाया नहीं है।

स्थान :

तारीख :

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

अनुदेश :-

- (1) प्रत्येक अपील अंग्रेजी में दायर की जाएगी और यदि यह किसी अन्य भारतीय भाषा में है, तो इसके साथ अंग्रेजी में अनुदित प्रति लगाई जाए और कागज पर एक ओर डबल स्पेस में स्वच्छ तरह पढ़ा जाने वाला टंकित, लिथोग्राफी अथवा मुद्रित की गई हो। जिसमें ऊपर लगभग चार सेंटीमीटर आंतरिक हाशिया और 2.5 सें.मी. पर दायी ओर हाशिया और 5 सें. मी. बायें हाशिया, विधिवत पेज अंकित हो सूचिबद्ध हो पन्नों की पुस्तक के रूप में जिलदसाज हो।
- (2) प्रत्येक अपील प्रतिवादी के पूर्ण पते वाले खाली फाईल आकार के लिफाफे के साथ प्रस्तुत की जाएगी और जहां एक से अधिक प्रतिवादी हैं, तब अपीलकर्ता पक्ष द्वारा प्रत्येक प्रतिवादी के पूर्ण पते वाले प्रर्याप्त संख्या में अतिरिक्त फाईल आकार के लिफाफे प्रस्तुत किए जाएंगे।

प्ररूप 'ड'
(नियम 36(1) देखें)
प्राधिकरण को परिवाद
धारा 31 के अंतर्गत परिवाद

अपीलीय प्राधिकरण के कार्यालय के उपयोग हेतु :

फाईल करने की तारीख :

(डाक द्वारा/ऑन लाईन फाइलिंग) की तारीख :.....

शिकायत संख्या :.....

हस्ताक्षर :.....

रजिस्ट्रार :.....

नियामक प्राधिकरण कार्यालय में (स्थान का नाम)

.....परिवाद

और

.....परिवाद के बीच

दावे का व्यौरा :

1. परिवाद का विवरण :

(i) परिवाद का नाम :

(ii) परिवाद के मौजूदा कार्यालय/निवास स्थान का पता :

(iii) सभी नोटिस देने के लिए पता :

(iv) संपर्क करने का व्यौरा (फोन नं०, ई-मेल, फैक्स सं० आदि)

2. प्रत्यर्थियों का विवरण :

(i) प्रत्यर्थी का नाम :

(ii) प्रत्यर्थी के कार्यालय का पता :

(iii) सभी नोटिस देने के लिए पता :

(iv) संपर्क करने का व्यौरा (फोन नं०, ई-मेल, फैक्स सं० आदि)

3. प्राधिकरण की अधिकारित :

परिवादी यह घोषण करता है कि अपील की विषय वस्तु अपीलीय प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है।

4. मामले के तथ्य :

परिवाद के आधारों और तथ्यों का संक्षिप्त विवरण दें।

5. मांगा गया अनुतोष :

उपर्युक्त पैरा 4 में उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत, अपीलार्थी निम्नलिखित अनुतोष के लिए मांग करता है: (अनुतोष के आधारों और मान्य विधिक उपबंधों (यदि कोई हो) को स्पष्ट करते हुए मांगे गए अनुतोष का नीचे उल्लेख करें)

6. अंतरिम आदेश, यदि अनुरोध किया गया :-

परिवादी परिवाद के लंबित अंतिम विनिश्चय में निम्नलिखित अंतरिम आदेश जारी करने की मांग करता है : [यहां कारणों सहित, अनुरोध किए गए अंतरिम आदेश की प्रकृति बतायें]

7. मामले जो किसी भी अन्य न्यायालय आदि के पास लंबित नहीं हैं :

परिवादी यह भी घोषणा करता है कि मामले जिनके संबंध में यह अपील की गई है, किसी भी न्यायालय अथवा अन्य किसी प्राधिकरण अथवा अन्य किसी न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित नहीं हैं।

8. नियम 36 के उपनियम (1) के अनुसार शुल्क सम्बन्ध में (बैंक ड्राफ्ट अथवा ऑनलाइन भुगतान का विवरण) -

(i) राशि

(ii) बैंक का नाम जिसमें आहरण किया गया :

(iii) [डिमांड ड्राफ्ट संख्या/आनलाईन लेने-देन संख्या] :

9. संलग्नो की सूची :

- (i) अपीलार्थी द्वारा अपने समर्थन में जुटाए गए दस्तावेजों की प्रतियां और जिनको अपील में निर्दिष्ट किया गया।
- (ii) दस्तावेजों की सूची
- (iii) शिकायत के साथ संलग्न अन्य दस्तावेज

सत्यापन

मैं----- (पूरे अक्षरों में नाम) [पुत्र/पुत्री]-----

अपीलार्थी यह सत्यापन करत हूं कि पैरा (1 से 9 तक) की विषय वस्तु मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यह कि मैं कोई सारगर्भित तथ्य छिपाए नहीं है।

स्थान :

तारीख :

शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर

अनुदेश :-

- (1) प्रत्येक अपील अंग्रेजी में दायर की जाएगी और यदि यह किसी अन्य भारतीय भाषा में है, तो इसके साथ अंग्रेजी में अनुदित प्रति लगाई जाए और मानक आवेदन कागज पर एक ओर डबल स्पेस में स्वच्छ और अच्छी तरह पढ़ा जाने वाला टंकित, लिथोग्राफी अथवा मुद्रित की गई हो। जिसमें ऊपर लगभग चार सेंटीमीटर आंतरिक हाशिया और 2.5 सें.मी. पर दायी ओर हाशिया और 5 सें.मी. बायें हाशिया, विधिवत पेज अंकित हो, सूचीबद्ध हो, पन्नों की पुस्तक के रूप में जिल्दसाज हो।
- (2) प्रत्येक अपील प्रतिवादी के पूर्ण पते वाले खाली फाईल आकार के लिफाफे के साथ प्रस्तुत की जाएगी और जहां एक से अधिक प्रतिवादी है, तब अपीलकर्ता पक्ष द्वारा प्रत्येक प्रतिवादी के पूर्ण पते वाले पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त फाईल आकार के लिफाफे प्रस्तुत किए जाएंगे।

प्ररूप 'ढ'

[नियम 37(1)देखें]

न्याय निर्णायक अधिकारी को परिवाद

(धारा 71 के साथ पठित धारा 31 के अंतर्गत ब्याज और प्रतिकर का दावा)

न्याया निर्णायक अधिकारी के कार्यालय के उपयोग हेतु :

फाइल करने की तारीख :

{डाक द्वारा/आनलाईन फाइलिंग} की तारीख : _____

परिवाद सं : _____

हस्ताक्षर : _____

अधिकृत अधिकारी : _____

न्याय निर्णायक अधिकारी के कार्यालय में स्थान का नाम

परिवादीदियों

और

प्रत्यर्थी

दावे का व्यौरा :

1. परिवाद (दियों) का विवरण :

- (i) प्रत्यर्थी का नाम :
- (ii) प्रत्यर्थी के कार्यालय का पता :
- (iii) सभी नोटिस देने के लिए पता :
- (iv) संपर्क करने का व्यौरा (फोन नं०, ई-मेल, फ़ैक्स सं० आदि।
- (v) परियोजना की रजिस्ट्रीकरण संख्या और पता

2. प्रत्यर्थियों का विवरण :

- (i) प्रत्यर्थी का नाम :
- (ii) प्रत्यर्थी के कार्यालय का पता :
- (iii) सभी नोटिस देने के लिए पता :
- (iv) संपर्क करने का व्यौरा (फोन नं०, ई-मेल, फ़ैक्स सं० आदि।
- (v) परियोजना की रजिस्ट्रीकरण संख्या और पता

3. न्याय निर्णायक अधिकारी की अधिकारिता :

परिवाद यह घोषणा करता है कि दावे की विषय वस्तु न्याय निर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है

4. मामले के तथ्य :

संप्रवर्तक के विरुद्ध दावे के तथ्य आधारों का संक्षिप्त विवरण दें।

5. मांगा गया अनुतोष :

उपर्युक्त पैरा 4 में उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत, शिकायतकर्ता निम्नलिखित प्रतिकार के लिए मांग करता है:

(प्रतिकार के आधारों और मान्य विधिक उपबंधों (यदि कोई हो) को स्पष्ट करते हुए मांगे गए प्रतिकार का नीचे उल्लेख करें)

6. दावा किसी अन्य न्यायालय आदि के पा लंबित नहीं है :

परिवादी यह भी घोषणा करता है कि मामले जिनके संबंध में यह परिवाद किया गया है, किसी भी न्यायालय अथवा किसी प्राधिकार अथवा अन्य किसी अधिकरण के समक्ष लंगित नहीं है।

7. नियम 37 के उप नियम (1) के अनुसार शुल्क के संबंध में (बैंक ड्राफ्ट अथवा ऑनलाइन भुगतान) का विवरण :-

- (i) रकम :
- (ii) बैंक का नाम जिसमें अहरण किया गया :
- (iii) डिमांड ड्राफ्ट संख्या/ऑनलाईन लेन-देन संख्या :

8. अनुलग्नकों की सूची :

- (i) परिवाद द्वारा अपने समर्थन में जुटाए गए दस्तावेजों की प्रतियाँ और जो परिवाद में निर्दिष्ट :
- (ii) दस्तावेजों की सूची :
- (iii) शिकायत के साथ संलग्न अन्य दस्तावेज

सत्यापन

मैं.....(पूरे अक्षरों में नाम)(पुत्र/पुत्री).....

आवेदक यह सत्यापन करता हूँ कि पैरा (1 से 08 तक) की विषय वस्तु मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यह कि मैंने कोई सारगर्भित तथ्य छिपाए नहीं हैं।

स्थान :

तारीख :

शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर

अनुदेश :

- (1) प्रत्येक शिकायत अंग्रेजी में दायर की जाएगी और यदि यह किसी अन्य भारतीय भाषा में है, तो इसके साथ अंग्रेजी में अनुदित प्रति लगाई जाए और कागज पर एक ओर डबल स्पेस में स्वच्छ तरह पढ़ा जाने वाला टंकित, लिथोग्राफी अथवा मुद्रित की गई हो। जिसमें ऊपर लगभग चार सेंटीमीटर आंतरिक हाशिया और 2.5 सें.मी. पर दायी ओर हाशिया और 5 सें.मी. बायें हाशिया, विधिवत पेज अंकित हो सूचिबद्ध हो पन्नों की पुस्तक के रूप में जिलदसाज हो।
- (2) प्रत्येक शिकायत प्रतिवादी के पूर्ण पते वाले खाली फाईल आकार के लिफाफे के साथ प्रस्तुत की जाएगी और जहां एक से अधिक प्रतिवादी है, तब पक्षकार पक्ष को प्रत्येक प्रत्यर्थी के पूर्ण पते वाले प्रयाप्त संख्या में अतिरिक्त फाईल आकार के लिफाफे प्रस्तुत करते होंगे।

प्ररूप 'ण'
(नियम 38(1) देखें)
लेखाओं का वार्षिक विवरण
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

.....को समाप्त वर्ष के लिए

लेखा कोड	प्राप्तियाँ	वर्तमान वर्ष निम्न की स्थिति की स्थिति के अनुसार	पूर्व वर्ष निम्न की स्थिति के अनुसार	लेखा कोड	भुगतान	वर्तमान वर्ष निम्न की स्थिति की स्थिति के अनुसार	पूर्व वर्ष निम्न की स्थिति के अनुसार
1.	नीचे लायी गई धनराशि			13.	अध्यक्ष एवं सदस्य		
1.1	बैंक			13.1	वेतन एवं भत्ते		
1.2	नकदी			13.2	अन्य लाभ		
2.	शुल्क, प्रभार और अर्थदंड			13.3	यात्रा व्यय		
2.1	फीस			13.3.1	विदेशी		
2.2	प्रभार			13.3.2	घरेलू		
2.3	अर्थ दंड			14.	अधिकारी		
2.4	अन्य (स्पष्ट करें)			14.1	वेतन एवं भत्ते		
3.	अनुदान			14.2	सेवा निवृत्ति लाभ		
3.1	सरकार के साथ सेवा			14.3	अन्य लाभ		
3.2	अन्य (स्पष्ट करें)			14.4	यात्रा लाभ		
4.	उपहार			14.4.1	विदेशी		
5.	संगोष्ठियाँ एवं सम्मेलन			14.4.2	घरेलू		
6.	प्रकाशनों की विक्रय			15.	कर्मचारी		
7.	निवेशों और जमा राशि संबंधी आय			15.1	वेतन एवं भत्ते		
7.1	निवेश संबंधी आय			15.2	सेवानिवृत्ति लाभ		
7.2	जमा संबंधी आय			15.3	अन्य लाभ		
8.	ऋण			15.4	यात्रा व्यय		
8.1	सरकार			15.4.1	विदेशी		
8.2	अन्य (स्पष्ट करें)			15.4.2	घरेलू		
9.	आस्तियों का विक्रय			16.	परिवहन का किराया		
10.	निवेशों का विक्रय			17.	मजदूरी		
11.	वेतन बिलों से वसूली			18.	अतिरिक्त समय		
11.1	ऋण और अग्रिमों मूल राशि			19.	मानदेय		
11.2	ऋण और अग्रिमों पर व्याज			20.	अन्य कार्यालय व्यय		
11.3	विविध			21.	अनुसंधान संबंधी व्यय		
51	अन्य (स्पष्ट करें)			22.	परामर्श व्यय		

				23.	संगोष्ठियां और सम्मेलन		
				24.	प्राधिकरण का प्रकाशन		
				25.	किराया एवं शुल्क		
				26.	ऋण पर व्याज		
				27.	प्रोतसाहनात्मक व्यय		
				28.	सदस्यता शुल्क		
				29.	अंशदान		
				30.	निर्धारित संपत्तियों की खरीद		
				31.	निवेश और जमा राशि		
				31.1	निवेश		
				31.2	जमा राशि		
				32.	प्रतिभूति जमा		
				33.	ऋण एवं अग्रिम		
				33.1	कर्मचारी		
				33.1.1	व्याज लगाना		
				33.1.2	व्याज नहीं लगाना		
				33.2	आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों द्वारा		
				33.3	अन्य (स्पष्ट करें)		
				34.	ऋण की पुर्नभुगतान		
				35.	अन्य		
				35.1	छुट्टी वेतन एवं पेंशन		
				35.2	अंशदान		
				35.3	लेखा परीक्षा शुल्क		
				35.4	विविध		
				36.	नीचे लायी गई शेष राशि		
				36.1	बैंक		
				36.2	नगद		
	कुल				कुल		

अध्यक्ष (हस्ताक्षर)

सदस्यों के (हस्ताक्षर)

सचिव (हस्ताक्षर)

प्रभारी अधिकारी (वित्त एवं लेखा)

आय और व्यय लेखा
1.....से 31.....तक की अवधि के लिए

लेखा कोड	व्यय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष निम्न की स्थिति की स्थिति के अनुसार	पूर्व वर्ष निम्न की स्थिति के अनुसार	लेखा कोड	आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष निम्न की स्थिति की स्थिति के अनुसार	पूर्व वर्ष निम्न की स्थिति के अनुसार
13.	अध्यक्ष एवं सदस्य				2.	शुल्क प्रभार एवं अर्थदंड	क		
13.1	वेतन एवं भत्ते				2.1	शुल्क			
13.2	अन्य लाभ	ग			2.2	प्रभार			
13.3	यात्रा व्यय				2.3	अर्थदंड			
13.3.1	विदेशी				2.4	अन्य (स्पष्ट करें)			
13.3.2	घरेलू				3.	अनुदान	ख		
14.	अधिकारी				3.1	सरकार के साथ लेखा			
14.1	वेतन एवं भत्ता				3.2	अन्य (स्पष्ट करें)			
14.2	सेवानिवृत्ति लाभ	घ			4.	उपहार			
14.3	अन्य लाभ	ग			5.	संगोष्ठियां और सम्मेलन			
14.4	यात्रा व्यय				6.	प्रकाशों का विक्रय			
14.4.1	विदेशी				7.	निवेशों और जमा राशि संबंधी आय			
14.4.2	घरेलू				7.1	निवेश संबंधी आय			
15.	कर्मचारी				7.2	जमा राशि संबंधी आय			
15.1	वेतन एवं भत्ते				11.2	ऋण और अग्रिम पर व्याज			
15.2	सेवानिवृत्त लाभ	घ			12.	विविध आय			
15.3	अन्य लाभ	ग			12.1	आसतियों के विक्रय पर लाभ			
15.4	यात्रा व्यय					आय से अधिक व्यय			
15.4.1	विदेशी					पूँजी कोष खाते में अंतरिक किया गया			
15.4.2	घरेलू								
16.	परिवहन का किराया								
17.	मजदूरी								
18.	अतिरिक्त समय								

19.	मानदेय								
20.	अन्य कार्यालय व्यय	ड							
21.	अनुसंधान पर व्यय								
22.	परामर्श व्यय								
23.	संगोष्ठियां और सम्मेलन								
24.	प्राधिकरण का प्रकाशन								
25.	किराया और कर								
26.	ऋणों पर व्याज								
27.	प्रोतसाहनात्मक व्यय								
28.	सदस्यता शुल्क	च							
29.	अंशदान	छ							
35.	अन्य								
35.1	छुट्टी वेतन एवं पेशन								
35.2	अंशदान								
35.3	लेखा परिक्षा शुल्क								
35.4	विविध								
37.	अवमूल्यन	ज							
48.	आसतियों पर हानि								
49.	वसूल न किए जाने वाले ऋणों को बट्टे खाते में डालना								
50.	वसूल न किए जाने वाले और संदेहास्पद ऋणों के लिए उपबंध								
	व्यय पर आधिक्य आय								
	पूजीगत कोष खाते में अंतरित किया गया								
	कुल					कुल			

अध्यक्ष (हस्ताक्षर)

सदस्यों के (हस्ताक्षर)

सचिव (हस्ताक्षर)

प्रभारी अधिकारी (वित्त एवं लेखा)

31 को तुलनपत्र (माह)(वर्ष).....

लेखा कोड	व्यय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष निम्न की स्थिति की स्थिति के अनुसार	पूर्व वर्ष निम्न की स्थिति के अनुसार	लेखा कोड	आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष निम्न की स्थिति की स्थिति के अनुसार	पूर्व वर्ष निम्न की स्थिति के अनुसार
40.	निधि				43.	नियत आसतियां	ज		
40.1	पूँजी निधि व्यय के ऊपर आय की अधिकता जोड़/आय के ऊपर व्यय की अधिकता की कमी				43.1	लागत पर सफल ब्लॉक का संचयी ह्रास			
40.2	अन्य निधियां (विनिर्दिष्ट करें)				42.2	नियत ब्लॉक			
41	आरक्षित	ज			44.	प्रगति में पूँजीगत कार्य	ड		
8.	ऋण	ट			31.	निवेश और जमा	ढ		
8.1	सरकार				31.1	निवेश			
8.2	अन्य				31.2	जमा			
42.	वर्तमान देयता और उपबंध				33.	ऋण और अग्रिम	ण		
					3.1	सरकार के साथ लेखा	थ		
					45.	संडरी ऋणी	त		
					36.	नकद और बैंक अधिशेष	थ		
					46.	अन्य वर्तमान आसतियां	द		
	कुल					कुल			
	लेखा नीतियाँ और टिप्पण	न							

अनुदेश :

- (1) उपरोक्त निर्दिष्ट/संदर्भित अनुसूची प्राधिकरण द्वारा समुचित सरकार या विनियामक प्राधिकरणों या भारत के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक द्वारा समय-समय पर सुझाए गए लेखा सिद्धांतों के आधार पर तैयार किए जाएंगे।
- (2) उपरोक्त निर्दिष्ट अनुसूचियां, आय और व्यय लेखा या तुलन पत्र, जैसा की मामला हो, का अभिन्न भाग होगी।

अध्यक्ष (हस्ताक्षर)

साक्ष्य (गण) (हस्ताक्षर)

सचिव (हस्ताक्षर)

कार्यालय का भारसाधक (वित्त एवं लेखा)

प्ररूप 'त'
(नियम 39(1) देखें)

विनियामक प्राधिकरण द्वारा तैयार की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट

(क) प्रस्ताव :

- (i) अध्यक्ष की टिप्पणी
- (ii) समाप्ति
- (iii) प्रमुख उपलब्धियाँ
- (iv) समीक्षा का वर्ष :
 - क. लैडमार्क विनिश्चय
 - ख. विधायी कार्य
 - ग. आऊटरीच कार्यक्रम
- (v) क्षमता निर्माण :
- (vi) अंतराष्ट्रीय संबंध :
- (vii) जिस पर प्रभाव पड़ता है :
 - क. आवंटितियाँ
 - ख. संप्रवर्तक
 - ग. भू-संपदा अभिकर्ता
 - घ. अर्थव्यवस्था

(ख) अधिनियम के तहत संप्रवर्तक और भू-संपदा अभिकर्ता का रजिस्ट्रीकरण :

I. संप्रवर्तकों के संबंध में :

क्र०सं०	संप्रवर्तक का नाम	संप्रवर्तक का पता	संप्रवर्तक का विवरण जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण जारी किया गया है।	भुगतान किया गया शुल्क	रजिस्ट्रीकरण सं०
1	2	3	4	5	6

रजिस्ट्रीकरण जारी करने की तारीख	रजिस्ट्रीकरण समाप्त होने वाली तारीख	बढ़ायी गई अवधि रजिस्ट्रीकरण की विसतारित तारीख	टिप्पणी
7	8	9	10

II. भू-संपदा अभिकर्ता के संबंध में :

क्र० सं०	भू-संपदा अभिकर्ता का नाम	भू-संपदा अभिकर्ता का पता	भुगतान किया गया रजिस्ट्रीकरण शुल्क	रजिस्ट्रीकरण संख्या	रजिस्ट्रीकरण जारी की गई तारीख	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र समाप्त होने की तारीख	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण की तारीख और अवधि की तारीख	टिप्पणी

- ग. प्राधिकरण और न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष विवादों के समाधान हेतु दर्ज किए गए मुकदमों की सं.।

क्र.सं.	अंतिम तिमाही में प्राधिकरण के साथ लंबित मुकदमों की सं.	प्राधिकरण द्वारा तिमाही के दौरान प्राप्त मुकदमों की सं.	प्राधिकरण द्वारा निपटारा किए गए मुकदमों की सं.
	अंतिम तिमाही में न्याय निर्णायक अधिकारी के साथ लंबित मुकदमों की सं.	न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा तिमाही के दौरान प्राप्त मुकदमों की सं.	न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा निपटाए गए मुकदमों की सं.

- घ. संप्रवर्तक, आवंटितियों और भू-संपदा अभिकर्ता द्वारा अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करने के लिए प्राधिकरण द्वारा आयोजित आवधिक सर्वेक्षण संबंधी विवरण।

क्र.सं.	व्यौरा सहित तिमाही के दौरान आयोजित सर्वेक्षण	प्राधिकरण की टिप्पणी	की गई उपचारात्मक कार्रवाई

- ड. संप्रवर्तक, आवंटितियों और भू-संपदा अभिकर्ता द्वारा अधिनियम के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के कोई भी गैर अनुपालन को कम करने के लिए उठाए गए कदमों से संबंधित विवरण।

क्र.सं.	विषय	उठाए गए कदम	प्राप्त परिणाम

- च. प्राधिकरण के निर्देशों और अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के उल्लंघन के लिए लगाई गई दंड संबंधी विवरण और न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा निर्देशित ब्याज और क्षतिपूर्ति संबंधी विवरण।

क्र.सं.	संप्रवर्तक का नाम	प्राधिकरण, न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा जारी निर्देशों का ब्यौरा	लगाए गए दंड / ब्याज प्रतिकर	क्रय भुगतान किया गया

क्र.सं.	आवंटिती का नाम	प्राधिकरण, न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा जारी निर्देशों का ब्यौरा	लगाए गए दंड / ब्याज प्रतिकर	क्रय भुगतान किया गया

क्र.सं.	भू-संपदा अभिकर्ता का नाम	प्राधिकरण, न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा जारी निर्देशों का ब्यौरा	लगाए गए दंड / ब्याज प्रतिकर	क्रय भुगतान किया गया

- छ. प्राधिकारी अथवा न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा आदेश किए गए जाँच-पड़ताल: प्राधिकारी अथवा न्याय निर्णायक अधिकारियों द्वारा शुरू की गई जाँच-पड़ताल तथा सक्षम प्राधिकारी अथवा समुचित सरकार से प्राप्त निर्देशों का संक्षिप्त विवरण।

- ज. प्राधिकारी अथवा न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश: प्राधिकारी अथवा निर्णायक अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का संक्षिप्त विवरण पृथक रूप से जहाँ कोई अपराध न किया गया हो और यदि अपराध साबित हो जाता है तो धाराओं को दर्शाते वर्गवार विवरण के साथ पारित आदेशों के प्रत्येक वर्ग के लिए वर्ग-वार ब्यौरा जिसके अंतर्गत आदेश को पारित किया गया और आदेशों का संक्षिप्त विवरण दिया गया।

- झ. प्राधिकरण के आदेशों का निष्पादन तथा शास्तियों को लगाना: (i) मौद्रिक दंड-लगाए गए अर्थ दंड की वसूली का ब्यौरा, लगाए गए पर वसूल न किए गए अर्थदंड का ब्यौरा, कुल मामलों की संख्या और वसूल किए गए मौद्रिक अर्थदंड की कुल राशि, नियम 25 की सहायता लेकर वसूली गई कुल धनराशि: (ii) धारा 59 के अंतर्गत न्यायालय को संदर्भित मामले वर्ष के दौरान न्यायालय को भेजे गए मामलों की कुल संख्या वर्ष के दौरान न्यायालय द्वारा निपटाए गए मामलों की कुल संख्या, वर्ष के अंत तक न्यायालय के पास लंबित मामलों की कुल संख्या (iii) नियम 40 के अंतर्गत न्यायालय के पास भेजे गए

मामले-वर्ष के दौरान न्यायालय के पास भेजे गए मामलों की कुल संख्या, वर्ष के दौरान न्यायालय द्वारा निपटाए गए मामलों की कुल संख्या, वर्ष के अंत तक न्यायालय के पास लंबित मामलों की कुल संख्या:

- ज. न्याय निर्णायक अधिकारी के आदेशों का निष्पादन तथा ब्याज और क्षतिपूर्ति आरोपण: (i) ब्याज और क्षतिपूर्ति-लगाए गए ब्याज तथा क्षतिपूर्ति का ब्यौरा, लगाए गए परन्तु भुगतान न किए गए ब्याज व क्षतिपूर्ति के ब्यौरे, मामलों की कुल संख्या और लगाए गए ब्याज व क्षतिपूर्ति की कुल राशि नियम 25 की सहायता से वसूली गई कुल धनराशि: (ii) नियम 40 के अंतर्गत न्यायालय के पास भेजे गए मामले वर्ष के दौरान न्यायालय के पास भेजे गए मामलों की कुल संख्या: वर्ष के दौरान न्यायालय द्वारा निपटाए गए मामलों की कुल संख्या, वर्ष के अंत तक न्यायालय के पास लंबित मामलों की कुल संख्या:

ट. **अपील :**

- (i) वर्ष में प्राधिकारी अथवा न्याय निर्णायक अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध दर्ज अपीलों की संख्या।
- (ii) वर्ष के आरंभ में लंबित अपीलों की संख्या।
- (iii) वर्ष के दौरान दर्ज अपील।
- (iv) वर्ष के दौरान अपीलीय अधिकरण द्वारा अनुमतय अपीलों की संख्या।
- (v) वर्ष के दौरान अपीलीय अधिकरण द्वारा अनुमति नहीं दिए गए अपीलों की संख्या।
- (vi) अपीलीय अधिकरण द्वारा अनुज्ञात अपील का संक्षिप्त सार।

ठ. धारा 33 के अंतर्गत समुचित सरकार से प्राप्त निर्देश: वर्ष के दौरान प्राप्त निर्देशों की संख्या, वर्ष के दौरान निपटाए गए निर्देशों की संख्या, वर्ष के अंत में लंबित निर्देशों की संख्या प्रदान करने के लिए धारा 33 के अंतर्गत समुचित सरकार से निर्देशों पर संक्षिप्त टिप्पणी प्राप्त हुई।

ड. धारा 33 की उप-धारा (3) अंतर्गत वकालती उपाय: धारा 33 की उप-धारा (3) के अंतर्गत शुरू की गई गतिविधियों पर संक्षिप्त विवरण-(i) भू-संपदा क्षेत्र और उसी पर जगरुकता के प्रसार के लिए उससे संबंधित नियमों तथा नीतियों पर जनता/विशेषज्ञों/नीति-निर्माताओं/नियामक निकायों के साथ कार्यशालाएं, सम्मेलन तथा अन्य वार्ताएं (ii) भू-संपदा क्षेत्र से संबंधित तथा इसी पर जागरुकता में प्रसार के लिए नियमों तथा नीतियों की पक्षधरता हेतु प्रकाशित दस्तावेज तथा अध्ययन:(iii) प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित/प्रस्तुत परामर्श पत्र:(iv) तैयार तथा परीक्षित विश्लेषणात्मक दस्तावेज:(v) उपरोक्त।

ढ. प्रशासन एवं स्थापना मामले: (i) सचिव का रिपोर्ट (ii) प्राधिकरण का गठन (iii) वर्ष में नियुक्ति अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा त्यागपत्र देने वालों का ब्यौरा (iv) वर्ष में नियुक्त एवं त्यागपत्र देने वाले निर्णायक अधिकारियों का ब्यौरा: (v) संगठनात्मक संरचना (vi) प्राधिकरण में कर्मियों की सूचना, श्रेणीवार, स्वीकृत पद, भरे गए पद, रिक्तियाँ, वर्ष में की गई नियुक्तियों का विवरण तालिका रूप में।

ण. नियुक्त विशेषज्ञ एवं परामर्शदाता: वर्ष में नियुक्त विशेषज्ञदाताओं और जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, की संख्या का ब्यौरा।

त. प्राधिकरण द्वारा रोजगार की नियमित अनुबंध एवं शर्तों से परे शुरू की गई, यदि कोई है कर्मचारी कल्याण उपाय।

थ. बजट एवं लेखा: (i) व्यापक श्रेणी के तहत बजट प्राक्कलन एवं संशोधित प्राक्कलन (ii) धारा 75 की उपधारा (1) के तहत स्थापित भू-संपदा नियामक कोष में बड़े श्रेणी के तहत प्राप्तियाँ (iii) बड़ी श्रेणी के तहत वास्तविक व्यय: (iv) धारा 75 की उपधारा (1) के तहत रीयल एस्टेट नियामक कोष में उपलब्ध धनराशि: (v) अन्य कोई सूचना।

द. अंतराष्ट्रीय सहभागिता: प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई, यदि कोई है, अंतराष्ट्रीय सहभागिता का संक्षिप्त विवरण।

ध. क्षमता निर्माण: क्षमता निर्माण पहल के संक्षिप्त विवरण के साथ: (i) सामग्री, अवधि एवं फैंकल्टी जैसे कार्यक्रमों के ब्यौरा के साथ आंतरिक प्रशिक्षित कर्मचारियों (श्रेणी-वार एवं ग्रेड-वार) की संख्या: (ii) बाहरी सोसाईटीओं (भारत में और भारत के बाहर अलग-अलग) द्वारा सोसाईटीओं का नाम एवं अवधि भी दर्शाई जाए कि प्रशिक्षण इंटरनशिप, विनियम कार्यक्रम, फेलोशिप, अध्ययन अवकाश, विदेशी विश्व विद्यालयों/सोसाईटीओं के साथ विशेष प्रबंधन के तहत की गई (iii) क्षमता निर्माण पहल प्रयास के व्यय।

न. चल रहे कार्यक्रम: चल रहे कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त विवरण।

प. **सूचना का अधिकार :**

- (i) आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु सीपीआईओ,एसीपीआरओ द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या:

- (ii) ऐसे आवेदनों की संख्या जिसकी सूचना सीपीआईओ द्वारा प्रदान की गई है:
 - (iii) सीपीआईओ के पास लंबित आवेदनों की संख्या
 - (iv) सीपीआईओ के आदेश के विरुद्ध प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपीलों की संख्या
 - (v) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निपटाए गए अपीलों की संख्या
 - (vi) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास लंबित अपीलों की संख्या
 - (vii) निर्धारित समय सीमा में नहीं निपटाए गए आवेदनों/अपीलों की संख्या का संक्षिप्त विवरण।
- अध्यक्ष (हस्ताक्षर)
सदस्य (सदस्यों) के (हस्ताक्षर)

उपाबंध

[नियम 8 देखें]

विक्रय के लिए करार

यह विक्रय करार (करार) को इस.....(महीने) की इस तारीख.....को निष्पादित किया।

के द्वारा और के बीच

[यदि संसंप्रवर्तक एक कंपनी है]

.....सीआईएन सं.....कंपनी अधिनियम (1956 अथवा 2013, जैसा भी मामला हो) के उपबंधों के अंतर्गत नियमित कंपनी, इसका.....में अपना रजिस्ट्रीकरण कार्यालय है, और.....में इसका कारपोरेट कार्यालय है (पीएन.....),इसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता.....(आधार सं.....) द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व.....तारीख.....बोर्ड के संकल्प के द्वारा प्राधिकृत 'संसंप्रवर्तक' के रूप में इसके बाद संदर्भित [जो अभिव्यक्ति संदर्भ अथवा इसके अर्थ जब तक असंगत न हो, का अर्थ वही माना जाए और इसके हित उत्तराधिकारी अनुज्ञ समनुदेशिती शामिल होंगे]

अथवा

[यदि संसंप्रवर्तक एक भागीदारी फर्म है]

.....भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932,.....में इसके कारबार का प्रधान कार्यालय है (पीएन.....), इसके प्राधिकृत भागीदारी.....(आधार संख्या) द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व,के द्वारा प्राधिकृत.....इसके बाद 'संसंप्रवर्तक' के रूप में संदर्भित (जो अभिव्यक्ति संदर्भ अथवा) इसके अर्थ के जब तक असंगत न हो का अर्थ वही माना जाए और इसमें उक्त फर्म के तत्समय भागीदारों अथवा भागीदार, उत्तरजीवी अथवा उनके उत्तरजीवियों और उनके उत्तराधिकारी, अंतिम उत्तरजीवी भागीदार के निष्पादक और प्रशासन और उसके/उनके समनुदेशिती शामिल होंगे।

अथवा,

[यदि संसंप्रवर्तक व्यक्ति है]

श्री/श्रीमती(आधार सं.....) पुत्र/पुत्री.....आयु लगभग.....निवास स्थान.....(पीएन.....)इसके तत्पश्चात 'संसंप्रवर्तक' बताए गए (जो अभिव्यक्ति जब तक संदर्भ अथवा इसका अर्थ असंगत न हो, वही अर्थ माना जाएगा और इसमें इसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, हित उत्तराधिकारी और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल होंगे।

और

[यदि संसंप्रवर्तक एक कंपनी है]

.....सीआईएन सं.....कंपनी अधिनियम (1956 अथवा 2013, जैसा भी मामला हो) के उपबंधों के अंतर्गत निगमित कंपनी, इसकापर अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है, और.....में इसका कारपोरेट कार्यालय है (पीएन.....),इसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता.....(आधार सं.....) द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व.....तारीख.....बोर्ड के संकल्प के द्वारा प्राधिकृत 'आवंटिती' के रूप में इसके बाद संदर्भित [जो अभिव्यक्ति संदर्भ अथवा इसके अर्थ जब तक असंगत न हो, का अर्थ वही माना जाए और इसके हित उत्तराधिकारी और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल होंगे]

अथवा

[यदि आवंटिती एक भागीदारी फर्म है]

.....भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932,में इसका कारबार का प्रधान कार्यालय है (पीएन.....), इसके प्राधिकृत भागीदार.....(आधार संख्या) द्वारा

किए गए प्रतिनिधित्व,.....के द्वारा प्राकृत.....इसके बाद आबंटिती के रूप में संदर्भित (जो अभिव्यक्ति संदर्भ अथवा) इसके अर्थ के जब तब असंगत न हो का अर्थ वही माना जाए और इसमें उक्त फर्म के तत्समय भागीदारों अथवा भागीदार, उत्तरजीवी अथवा उनके उत्तराधिकारी, अंतिम उत्तरजीवी भागीदार के निष्पादक और उसके/उनके समनुदेशिती शामिल होंगे।

अथवा

[यदि आबंटिती व्यक्ति है]

श्री/श्रीमती(आधार सं.....) पुत्र/पुत्रीआयु लगभग..... आयु लगभग.....निवास स्थान.....(पीएन.....)इसके तत्पश्चात 'संसंप्रवर्तक' बताए गए (जो अभिव्यक्ति जब तक संदर्भ अथवा इसका अर्थ असंगत न हो, वही अर्थ मान जाएगा और इसमें इसके अन्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल होंगे।

अथवा

[यदि आबंटिती हिन्दू अविभाजित परिवार है]

श्री.....(आधार सं.....) पुत्र/पुत्रीआयु लगभग..... स्वयं और.....हिन्दू अविभाजित परिवार के रूप में जाने वाले हिन्दू संयुक्त मिताक्षरा परिवार कर्ता के रूप में.....स्थान पर इसके कारबार/निवास स्थान.....(पीएन सं.....) इसके बाद.....'आबंटिती' के रूप में संदर्भित (जो अभिव्यक्ति जब तक संदर्भ अथवा इसके अर्थ के असंगत न हो उसका वही अर्थ समझा जाएगा और उक्त एचयूएफ के वर्तमान समय के लिए सदस्य अथवा सदस्यों, और उसके संबंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और अनुज्ञात समनुदेशित]

[कृपया एक से अधिक आबंटिती के मामले में अन्य आबंटिती/आबंटितियों का ब्यौरा अंतर्विष्ट करें]
यहाँ संसंप्रवर्तक और आबंटिती को संयुक्त रूप से पक्षों और व्यक्तिगत रूप में पक्ष के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

परिभाषाएँ :

विक्रय के करार के प्रयोजन के लिए जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, :-

- (क) "अधिनियम" से भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) अभिप्रेत है;
- (ख) "समुचित सरकार" से राज्य सरकार अभिप्रेत है;
- (ग) "नियमों" से भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अधीन बनाए गए बिहार भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम 2017 अभिप्रेत है;
- (घ) "विनियमों" से भू-संपदा (विनियमन और विकास)(साधारण) अधिनियम, 2016 अभिप्रेत है;
- (ङ) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

जहाँ—

क. संसंप्रवर्तक [खसरा सं./सर्वेक्षण सं] [कृपया स्थानीय कानून के अनुसार भूमि का ब्यौरा डालें] के आत्यंतिक एवं विधिमन्य स्वामी.....कुल माप.....वर्ग मी.तहसील एवं जिला.....(उक्त भूमि) विक्रय पट्टी के तारीख.....उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में दस्तावेज के रूप में रजिस्ट्रीकृत।

अथवा

.....(स्वामी) संप्रवर्तक [खसरा सं./सर्वेक्षण सं.][कृपया स्थानीय कानून के अनुसार भूमि का ब्यौरा डालें] के आत्यंतिक और विधिमन्य स्वामी.....कुल माप.....वर्ग मी.तहसील एवं जिला.....(उक्त भूमि) विक्रय पट्टी के तारीख.....उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में दस्तावेज के रूप में तारीख.....के [सहयोग/विकास/संयुक्त विकास] करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

ख. उक्त भूमि भवनद के उद्देश्य [वाणिज्य/आवासीय/कोई अन्य प्रयोजन] के भवन के उद्देश्य हेतु निश्चित है, मैं.....बहुमंजिलें अपार्टमेंट भवन एवं [परियोजना का कोई अन्य घटक डालें] और उक्त परियोजना.....के नाम से जानी जाएगी। "(परियोजना)"

उक्त भूमि [व्यावसायिक/आवासीय/कोई अन्य प्रयोजन] परियोजन के भूखंड विकास के उद्देश्य हेतु निश्चित है, जिसमें.....प्लॉट और (परियोजन का कोई घटक डालें) और उक्त परियोजना को.....(परियोजन के नाम से जानी जाएगी।)

परन्तु यह कि जहाँ भूमि किसी संस्थागत विकास के लिए निश्चित है उसे केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा और कोई व्यावसायिक, आवासीय विकास की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा योजना अनुमोदित न हो।

- ग. संसंप्रवर्तक करार करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और उक्त भूमि जिस पर परियोजना का निर्माण किया जाना है के संबंध में संसंप्रवर्तक के अधिकार, हकदारी एवं हित से जुड़ी सभी विधिक औपचारिकताएं पूर्ण की गई हैं।
- घ.[कृपया संबंधित सक्षम प्राधिकारी का नाम डालें] रजिस्ट्रीकरण सं..... वाली तारीख.....के अनुमोदन के तहत परियोजना के विकास के लिए प्रारंभ प्रमाणपत्र प्रदान किया है।
- ङ. संप्रवर्तक ने परियोजना का अंतिम लेआउट प्लान, स्वीकृत योजना, विनिर्देशन एवं अनुमोदन प्राप्त किया है और अपार्टमेंट प्लॉट अथवा भवन जैसा भी मामला हो.....[कृपया सक्षम प्राधिकारी का नाम डालें] संसंप्रवर्तक सहमत है और शपथ देता है कि वह इन अनुमोदित प्लान में कोई बदलाव नहीं करेगा सिवाय अधिनियम की धारा 14 और अन्य विधियों, जो लागू हो, के सख्त अनुपालन में।
- च. संसंप्रवर्तक ने.....(राज्य का नाम) रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के साथ अधिनियम के उपबंधों के तहत परियोजना का रजिस्ट्रीकरण किया है।
- छ. आबंटिती ने तारीख.....के आवेदन सं.....के तहत परियोजना में अपार्टमेंट के लिए आवेदन किया है और गैरेज/बंद पार्किंग सं.....माप.....वर्गफीट.....गैरेज/बंद पार्किंग का स्थान डालें के साथ टावर/ब्लॉक/बिल्डिंग सं.....(भवन में).....तल पर.....टाइप.....कारपेट एरिया वाले अपार्टमेंट सं.....आवंटित किया गया है।
जैसा कि लागू विधि के तहत स्वीकार्य हो और अधिनियम की धारा (2) के खंड (ठ) के अधीन यथा परिभाषित साझा क्षेत्र में अनुपातिक अंश ("साझा क्षेत्र") जैसा कि अधिनियम, (इसके पश्चात इसे 'अपार्टमेंट' के रूप में उल्लिखित किया जाएगा जो विशेष तौर पर अनुसूची 'क' में उल्लिखित है और अपार्टमेंट का फ्लोर प्लान इसके साथ संलग्न है और अनुसूची "ख" के रूप में चिह्नित है।

अथवा

- आबंटिती ने तारीख.....के आवेदन सं.....के तहत परियोजना में प्लॉट हेतु आवेदन किया है और प्लॉट सं.....आबंटित किया गया है जिसका क्षेत्रफल.....वर्ग फीट और गैराज/पार्किंग के लिए.....वर्ग फीट (यदि लागू है) जो.....में [गैराज/बंद पार्किंग की अवस्थिति डालें] हैं,
जैसा कि लागू विधि के तहत स्वीकार्य हो और अधिनियम की धारा (2) के खंड (ठ) के अधीन यथा परिभाषित साझा क्षेत्र में अनुपातिक अंश ("साझा क्षेत्र") इसके पश्चात इसे 'अपार्टमेंट' के रूप में उल्लिखित किया जाएगा जो विशेष तौर पर अनुसूची 'ए' में उल्लिखित है।
- ज. पक्षकारों ने करार में इस प्रकार निर्धारित सभी निबंधनों और शर्तों को पढ़ लिया है और उसमें निहित परस्पर अधिकारों एवं दायित्वों को समझ लिया है।
- झ.[कृपया कोई अतिरिक्त प्रकटीकरण/ब्यौरा डालें]
- ञ. पक्षकार पुष्टि करते हैं कि परियोजना में लागू सभी विधियां, नियम, विनियम, अभिसूचना, इत्यादि के बारे में पूरी तरह से भिन्न होकर इस करार पर हस्ताक्षर कर रहे हैं।
- ट. पक्षकार एक दूसरे से पूरी तरह विश्वास करके निबंधनों, शर्तों एवं इस करार में अंतर्विष्ट सभी अनुबंधों के प्रति पुष्टि अभ्यावेदन और आश्वासनों और सभी लागू विधियों से बाध्य है, इसके बाद प्रस्तुत निबंधनों और शर्तों पर करार करने के इच्छुक हैं।
- ठ. पक्षकारों द्वारा और उनके बीच इस करार में निहित निबंधनों और शर्तों तथा परस्पर रूप से सहमति के अनुसार संसंप्रवर्तक विक्रय के लिए और आबंटिती (अपार्टमेंट/प्लॉट) खरीदने और पैरा छ में यथा निर्दिष्ट गैराज/बंद पार्किंग (यदि लागू है) के लिए सहमत है।

अब इस प्रकार परस्पर अभ्यावेदन, प्रसंविदा, आश्वासन, वचन और इसमें निहित करार और अन्य अच्छे एवं मूल्यवान प्रतिफल पर विचार करते हुए पक्षकार निम्नानुसार सहमत है।

1. निबंधन:

- 1.1 इस करार में यथा निर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अधीन संसंप्रवर्तक पैरा छ में यथानिर्दिष्ट (अपार्टमेंट/प्लॉट) विक्रय करने और आबंटिती क्रय करने के लिए सहमत है।
- 1.2 कारपेंट क्षेत्र के आधार पर [अपार्टमेंट/प्लॉट] की कुल कीमत.....रु. है। (कुल कीमत) (विवरण दें)।

ब्लॉक/बिल्डिंग/टावर संख्या.....	अपार्टमेंट की दर प्रति वर्ग फीट
अपार्टमेंट संख्या.....	
टाइप.....	
तल.....	
कुल लागत (रूपए में)	

रकमों का विवरण प्रदान करें जैसे अपार्टमेंट की लागत, बालकनी अथवा बरामदा क्षेत्र की लागत, खुले टैरेस क्षेत्र की लागत, सामान्य क्षेत्र की अनुपातिक लागत, प्राथमिक स्थान प्रभार, कर पैरा 11 इत्यादि के अनुसार अनुक्षण लागत, यदि/यथा लागू हो।

[और] [यदि/यथा लागू हो]

गैराज/बंद पार्किंग-1	1 की कीमत
गैराज/बंद पार्किंग-2	2 की कीमत
कुल कीमत (रूपयों में)	

अथवा

प्लॉट संख्या..... टाईप.....	प्लॉट की दर प्रति वर्ग फीट
कुल कीमत (रूपयों में)	

रकमों का विवरण प्रदान करें जैसे प्लॉट की लागत, साझा क्षेत्र की अनुपातिक लागत, कर पैरा 11 इत्यादि के अनुसार अनुक्षण लागत, यदि/यथा लागू हो।

गैराज/बंद पार्किंग-1	1 की कीमत
गैराज/बंद पार्किंग-2	2 की कीमत
कुल कीमत (रूपयों में)	

स्पष्टीकरण :

- (i) उपर्युक्त कुल कीमत में आबंटिती द्वारा अपार्टमेंट/प्लॉट के लिए संसंप्रवर्तक को दी गई बुकिंग रकम शामिल है।
 - (ii) उपरोक्त कुल मूल में समापन प्रमाण-पत्र करने के पश्चात आबंटिती को अपार्टमेंट/भूखंड पर कब्जा देने और आबंटितियों के संध अथवा प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो को कब्जा देने की तारीख तक कर (मूल्य वर्धित कर, सेवा कर तथा उपकर अथवा किसी अन्य समान कर के माध्यम से संसंप्रवर्तक द्वारा संदत्त किए गए अथवा संदेय कर शामिल है जिसे संप्रवर्तक द्वारा संदेय परियोजना के निर्माण के क्रम में चाहे किसी भी नाम से वसूला जा सकता है) शामिल है;
परन्तु यह कि यदि करों में कोई परिवर्तन/संशोधन है, संप्रवर्तक को आबंटिती द्वारा भुगतान योग्य पश्चातवर्ती धनराशि को ऐसे परिवर्तन/संशोधन के आधार पर बढ़ाया/घटाया जाएगा।
परन्तु यह कि यदि प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकरण के अनुसार परियोजना के निर्धारित समापन तारीख के समाप्त होने के पश्चात करों में कोई बढ़ोतरी होती है, तो उसमें अधिनियम के अनुसार, प्राधिकरण द्वारा उक्त परियोजना को प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण यदि कोई हो का विस्तार शामिल होगा, इसकी राशि आबंटिती पर प्रभारित की जाएगी;
 - (iii) संसंप्रवर्तक उपरोक्त (i) के उल्लेख अनुसार संदेय धराशि आबंटिती को लिखित में कालावधिक रूप से सूचित होगा तथा आबंटिती समय के साथ तथा उसमें विनिर्दिष्ट रीति से संसंप्रवर्तक द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान करेगा। इसके अलावा, संसंप्रवर्तक आबंटिती को तारीख के साथ अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं के साथ-साथ भुगतान किए गए अथवा मांगे गए करों का ब्यौरा प्रदान करेगा जिसमें ऐसे करों/शुल्कों इत्यादि को लगाया गया है अथवा प्रभावी हुए हैं;
 - (iv) [अपार्टमेंट/भूखंड] के कुल मूल्य में पैरा (11) इत्यादि के अनुसार भूमि के मूल्य की वसूली [अपार्टमेंट ही नहीं बल्कि] साझा क्षेत्रों का भी निर्माण आंतरिक विकास प्रभार करों विकास प्रभार विद्युत वायरिंग प्रदान करने के लागत, अपार्टमेंट के लिए विद्युतीय कनेक्टिविटी, लिफ्ट, जल मार्ग तथा नलसाजी, पेंट के साथ पुताई, संगमरमर, टाइल्स, दरवाजे, खिड़कियों, साझा क्षेत्रों में फायर डिटेक्शन तथा अग्निशामक उपस्कर, अनुक्षण प्रभार शामिल हैं तथा इसमें सभी अन्य सुख-सुविधाएं तथा विषिष्टताएं प्रदान करने के लिए लागत शामिल है जिन्हें [अपार्टमेंट/भूखंड] तथा परियोजना के भीतर प्रदान किया जाना है।
- 1.3 कुल मूल्य वृद्धि मुक्त बचत है तथा बढ़ोतरी की गुंजाइश होती है जिसी आबंटिती सक्षम प्राधिकारी को देय विकास प्रभारों में बढ़ोतरी तथा प्रभारों में किसी अन्य बढ़ोतरी, जिसे समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा वसूल अथवा लगाया जा सकता है, के कारण भुगतान करने के लिए सहमत होता है। संसंप्रवर्तक वचन लेता है तथा सहमति देता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित विकास प्रभारों, लागत/प्रभारों में वृद्धि के लिए आबंटिती से मांग करते समय, संसंप्रवर्तक आबंटिती को जारी किए जा रहे मांग पत्र के साथ-साथ प्रभावी उक्त अधिसूचना/आदेश/नियम/विनियम संलग्न करेगा, जो केवल पश्चातवर्ती

- भुगतानों पर लागू होगा। परन्तु यह कि यदि प्राधिकारी के साथ रजिस्ट्रीकरण के अनुसार परियोजना के निर्धारित समापन तारीख की समाप्ति के पश्चात किन्हीं विकास प्रभारों में कोई नया अधिरोपन अथवा वृद्धि हो, जिसमें अधिनियम के अनुसार प्राधिकारी द्वारा उक्त परियोजना के लिए दिए गए रजिस्ट्रीकरण विस्तार, यदि कोई हो में शामिल होगा इसका प्रभार आबंटिती पर प्रभारित नहीं किया जाएगा।
- 1.4 आबंटिती अनुसूची 'ग' ("भुगतान योजना") में निर्धारित संदाय योजना के अनुसार संदाय करेंगे।
- 1.5 संसर्पवर्तक अपने स्वविवेक से उस अवधि जिसके लिए संबंधित किस्त पूर्व स्थगित कर दी गई है के लिए-----% प्रति वर्ष की दर से ऐसे पूर्व संदायों पर छूट देकर आबंटिती द्वारा देय किस्तों के पूर्व संदायों के लिए छुट की अनुमति दे सकता है। संसर्पवर्तक द्वारा आबंटिती को एक बार छुट और छुट के ऐसे दर की अनुमति के लिए उपबंध करने के पश्चात् कोई पुनरावलोकन/प्रत्यावर्तन नहीं होगा।
- 1.6 यह सहमति है कि संसर्पवर्तक इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आबंटिती की पूर्व लिखित सहमति के बिना अपार्टमेंट, भूखंड अथवा बिल्डिंग, जैसा भी मामला हो के संबंध में अनुसूची 'घ' और अनुसूची 'ड' (जो विज्ञापन, विवरणिका इत्यादि के अनुरूप होगा जिसके आधार पर यह विक्रय प्रभावी है) में उल्लेखित स्वीकृति योजनाओं, ले-आऊट योजनाओं तथा फिक्सचरों की विशिष्टताएं तथा प्रकृति, फिटिंग तथा सुख-सुविधाओं में कोई संवर्द्धन और परिवर्तन नहीं करेगा। परन्तु यह कि संसर्पवर्तक ऐसे छोटे संवर्द्धन अथवा परिवर्तन आबंटिती की अपेक्षा के अनुसार अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे छोटे संवर्द्धन अथवा परिवर्तन कर सकता है।
- 1.7 [अपार्टमेंट के मामले में लागू] भवन का निर्माण पूर्ण हो जाने के पश्चात, संसर्पवर्तक आबंटिती को आबंटित अपार्टमेंट का अंतिम कारपेट क्षेत्र सुनिश्चित करेगा तथा सक्षम प्राधिकारी कारपेट क्षेत्र में परिवर्तनों यदि कोई हो कम ब्योरा देते हुए अधिभाग प्रमाण-पत्र देता है। कारपेट क्षेत्र के लिए कुल देय राशि की पुनः गणना संसर्पवर्तक द्वारा पुष्टिकरण के आधार पर की जाएगी। यदि कोई कारपेट क्षेत्र में कोई कमी है तो संसर्पवर्तक आबंटिती द्वारा भुगतान किए गए ऐसे अतिरिक्त धनराशि की तारीख से नियम में विहित दर से वार्षिक व्याज के साथ 60 दिन के भीतर आबंटिती द्वारा दिए गए अतिरिक्त धन को वापस करेगा। यदि कारपेट क्षेत्र में कोई वृद्धि होती है जो आबंटिती को आबंटित अपार्टमेंट का कारपेट क्षेत्र हो तो संसर्पवर्तक अनुसूची 'ग' के उपबंधों के अनुसार संदाय योजना के अगले पायदान के अनुसार आबंटिती से राशि मांग कर सकता है। ये सभी मौद्रिक समायोजना इस करार के पैरा 1.2 में यथासहमत प्रति वर्ग फिट के समान दर पर किया जायगा।
- 1.8 पैरा 9.3 के अधीन संसर्पवर्तक सहमति तथा अभिस्वीकृति देता है आबंटिती के पास निम्नानुसार [अपार्टमेंट/भूखंड] के अधिकार होंगे :-
- आबंटिती के पास [अपार्टमेंट/भूखंड] का विशेष स्वामित्व होगा;
 - आबंटिती के पास साझा में अविभाज्य आनुपातिक अंश भी होगा। क्योंकि साझा क्षेत्रों में आबंटिती का अंश/हित अविभाज्य है और उसे विभाजित अथवा अलग नहीं किया जा सकता, अतः आबंटिती साझा क्षेत्रों का अन्य कब्जाधारियों, रख-रखाव कर्मचारियों इत्यादि के साथ-साथ उनको कोई असहजता अथवा बाधा पहुँचाए बिना उपयोग करेगा। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि संसर्पवर्तक अधिनियम में यथा उपबंधित सक्षम प्राधिकार से समापन प्रमाण-पत्र सत्यक रूप से प्राप्त कर लेने के पश्चात आबंटितियों के संघ को साझा क्षेत्र को सौपेगा।
 - कि [अपार्टमेंट/भूखंड] के मूल्य की गणना में भूमि के मूल्य की वसूली [अपार्टमेंट ही नहीं बल्कि] पैरा 11 के अनुसार साझा क्षेत्रों का भी निर्माण, आंतरिक विकास प्रभार, बाहरी विकास प्रभार, करों, विद्युत वायरिंग प्रदान करने के लागत, अपार्टमेंट के लिए विद्युतीय कनेक्टिविटी, लिफ्ट, जल मार्ग तथा नलसाजी, पेंट के साथ पुताई, संगमरमर, टाइल्स, दरवाजे, खिड़कियों, साझा क्षेत्रों में फायर डिटेक्शन तथा अग्निशामक उपस्कर, अनुरक्षण प्रभार शामिल हैं तथा इसमें सभी अन्य सुख-सुविधाएं तथा विष्टिताएं प्रदान करने के लिए लागत शामिल है जिन्हें [अपार्टमेंट/भूखंड] तथा परियोजना के भीतर प्रदान किया जाना है।
 - आबंटिती को परियोजना और उसके अपार्टमेंट/भूखंड के विकास, जो भी मामला हो की सीमा का निर्धारण करने के लिए परियोजना स्थल का दौरा करने का अधिकार है।
- 1.9 इसे संसर्पवर्तक द्वारा स्पष्ट किया गया है और आबंटिती सहमत है कि.....गैरेज/बन्द पार्किंग सहित [अपार्टमेंट/भूखंड] को सभी प्रयोजनों के लिए एक एकल अविभाज्य इकाई के रूप में समझा जाएगा। यह सहमति है कि उक्त भूमि को कवर करते हुए परियोजना एक स्वतंत्र, स्वतः-पूर्ण परियोजना है और किसी अन्य परियोजना अथवा जोन का एक भाग नहीं है और वह उसका एक भाग नहीं बनेगा और अथवा इसके आसपास किसी अन्य परियोजना के साथ जुड़ा/मिला हुआ नहीं होगा अथवा अन्यथा आबंटिती के लाभ के लिए अवसंरचना के एकीकरण के प्रयोजन को छोड़कर होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि परियोजना की सुख-सुविधाएं केवल इस परियोजना के आबंटितियों के उपयोग और लाभ उठाने के लिए ही होंगी।

- 1.10 संसंप्रवर्तक आबंटितियों को अपार्टमेंट के वास्तविक कब्जे को हस्तांतरित करने से पहले आबंटितियों से संग्रहित किए जा चुके सभी देय शुल्कों (भूमि लागत, भू-किराए, नगर पालिका अथवा अन्य सीनीय करों, जल अथवा बिजली के लिए प्रभार, रख-रखाव प्रभारों, बंधकऋण और बंधकों पर ब्याज अथवा अन्य विल्लंगमों और सक्षम प्राधिकरणों, बैंक और वित्तीय संस्थाओं को देय ऐसी अन्य देयताओं जो परियोजना से संबंधित है, समेत) का भुगतान करने के लिए सहमत है। यदि आबंटितियों को अपार्टमेंट हस्तांतरित करने से पहले संसंप्रवर्तक उसके द्वारा आबंटितियों से संग्रहित सभी अथवा किसी भी देय शुल्क अथवा किसी देयता, बंधक ऋण और उस व्याज का भुगतान करने में विफल होता है तो संसंप्रवर्तक सम्पत्ति के हस्तांतरण के पश्चात् भी उस प्राधिकरण अथवा व्यक्ति जिसको वे देय हों, को ऐसे शुल्कों और दंड स्वरूप प्रभार, यदि कोई हो को देने के लिए सहमत हो और किसी विधिक कार्रवाई जो ऐसे प्राधिकरण अथवा व्यक्ति द्वारा की जाए, की लागत का भुगतान करने का जिम्मेदार है।
- 1.11 आबंटित ने.....रु. (केवल.....रु.) की राशि आवंटन के समय पर (अपार्टमेंट/भूखंड) के कुल मूल्य के भुगतान के नाते बुकिंग रकम का भुगतान किया है। जिसकी प्राप्ति की संसंप्रवर्तक द्वारा पावती देता है और आबंटित (अपार्टमेंट/भूखंड) के शेष मूल्य का भुगतान करने के लिए सहमत है जैसाकि भुगतान योजना में विहित किया गया है (अनुसूची 'ग') जैसी कि संसंप्रवर्तक द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर और रीति से मांग की जाए।
परन्तु यह कि यदि आबंटित किसी देय राशि के लिए भुगतान करने में देरी करता है, तो वह नियमों में विहित दर से व्याज का भुगतान करने के लिए दायी होगा।
2. **संदाय का तरीका :**
निर्माण लक्ष्यों का पालन करने वाला संसंप्रवर्तक करार की शर्तों के अधीन संसंप्रवर्तक द्वारा लिखित मांग पर आबंटित सभी संदाय नियत समय, जैसा कि भुगतान योजना (अनुसूची 'ग') में उल्लिखित है।.....
.....के पक्ष में पर देय सभी भुगतान एकाउंट पेई चेक/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स अथवा ऑनलाईन भुगतान (यथा लागू) के माध्यम से करेगा।
3. **विप्रेषणादेश से संबंधित विधियों का अनुपालन :**
 - 3.1 आबंटित, यदि भारत से बाहर का निवासी है, अकेले उन आवश्यक औपचारिकताओं का अनुपात करने के उत्तरदायी होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों अथवा इसके बनाए गए किसी कानूनी संशोधन (नों) और भारत में उचल सम्पत्तियों के संदाय अर्जन/विक्रय/हस्तांतरण के संदाय विप्रेषणादेश सहित सभी अन्य लागू विधियों इत्यादि और संसंप्रवर्तक को ऐसे अनुमति अनुमोदन प्रदान करता हो जो संसंप्रवर्तक को इस करार के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने में समर्थ बनाएगा, में निर्धारित की गई है। कोई धन वापीस, प्रतिभूति का हस्तांतरण, यदि करार की शर्तों में उपबंध किया गया हो, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के उपबंधों अथवा कानूनी अधिनियमों अथवा संशोधनों और भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों और विनियमों अथवा किसी अन्य लागू विधि के अनुसार किया जाएगा। आबंटित समझता है और इस बात से सहमत है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन करने में उसकी ओर से किसी विफलता की दशा में वह समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 अथवा यथा लागू अन्य नियमों के अंतर्गत किसी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
 - 3.2 संसंप्रवर्तक ऊपर पैरा 3.1 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में कोई उत्तरदायिता स्वीकार नहीं करता है। आबंटित संसंप्रवर्तक की इस संबंध में पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करेगा और उसको हानि रहित रखेगा। जब कभी भी इस करार के हस्ताक्षर के बाद आबंटित की आवासीय प्रास्थिति में कोई परिवर्तन होता है, तो केवल आबंटित की ही संसंप्रवर्तक को उसको तत्काल लिखित में सूचित करने की और लागू विधियों के अंतर्गत आवश्यक औपचारिकताओं, यदि कोई हो का अनुपालन करने की जिम्मेदारी होगी। संसंप्रवर्तक किसी आबंटित की ओर से किसी तीसरे पक्ष को संदाय/विप्रेषणादेश के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और ऐसे तीसरे पक्ष को इस किसी भी तारीख से आवेदित उक्त अपार्टमेंट के आवेदन/आबंटन में कोई अधिकार नहीं होगा और संसंप्रवर्तक केवल आबंटित के पक्ष में ही भुगतान रसीद जारी करेगा।
4. **भुगतानों का समायोजन/विनियोग :**
आबंटित संसंप्रवर्तक को उसके नाम में इस अपार्टमेंट/फ्लैट के विरुद्ध वैध बकाया, यदि कोई हो के लिए देय शुल्कों के किसी शीर्ष (षी) के अंतर्गत उसके द्वारा किए गए सभी भुगतानों को समायोजित/विनियोग करने के लिए अधिकृत करता है और आबंटित संसंप्रवर्तक को किसी रीति से उसके भुगतानों को समायोजित करने के लिए आपत्ति मांग न करने/निर्देश नहीं देने का वचन देता है।
5. **समय सार है :**
संसंप्रवर्तक प्राधिकरण से परियोजना के रजिस्ट्रकरण के समय पर और आबंटित को (अपार्टमेंट/भूखंड) को सौंपने तथा आबंटितियों के संघ अथवा सक्षम प्राधिकरण, जो भी मामला हो के सामान्य क्षेत्रों के लिए बनाए गए अनुसार परियोजना को पूरा करने के लिए समय कार्यक्रम का अनुपालन करेगा।

6. आबंटी ने संसंप्रवर्तक द्वारा यथावर्णित प्रस्तावित नक्शा, विनिर्दिष्ट (अपार्टमेंट/भूखंड) की सुख-सुविधाओं को देखा है और सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन फर्शी नक्शों, भुगतान योजना और विनिर्देशनों, सुख-सुविधाओं और सुविधाओं (इस करार के साथ संलग्न अनुलग्नक) को स्वीकार किया है। संप्रवर्तक परियोजना को उक्त नक्शों, फर्शी नक्शों और विनिर्देशनों, सुख सुविधाओं और सुविधाओं के अनुसार विकसित करेगा। संप्रवर्तक इस करार में शर्तों के अधीन सक्षम प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित ऐसी योजनाओं/नक्शों का कड़ाई से अनुपालन करने का वचन देता है और.....(कृपया राज्य के संगतकानूनों को विनिर्दिष्ट करें) द्वारा निर्धारित उप नियमों, एफएआर और सघनता प्रतिमानों और उपबंधों का भी कड़ाई से अनुपालन करेगा तथा संप्रवर्तक द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत व्यवस्था किए गए तरीके को छोड़कर ऐसे नक्शों में कोई अन्तर/परिवर्तन/संशोधन करने इस शर्त को भंग करने का कोई विकल्प नहीं होगा और यह इस करार के ताम्बिक भंग करने के समान होगा।
7. **अपार्टमेंट/भूखंड का कब्जा :**
- 7.1 उक्त (अपार्टमेंट/भूखंड) के कब्जे हेतु कार्यक्रम- संप्रवर्तक इस बात से सहमत है और समझता है कि आबंटी को (अपार्टमेंट/भूखंड) के कब्जे और आबंटियों के संघ अथवा सक्षम प्राधिकरण, जो भी मामला हो, को सामान्य क्षेत्रों की समय पर प्रदानगी करार का सार तत्त्व है। संप्रवर्तक..... पर संगत परियोजना के सभी विनिर्दिष्ट, सुख-सुविधाओं और सुविधाओं से युक्त तैयार तथा पूरे सामान्य क्षेत्रों/सहित (अपार्टमेंट/भूखंड) के कब्जे को सौंपने का आश्वासन देता है, जब तक कि युद्ध, बाढ़, सूखे, अग्नि, चक्रवात, भूकंप अथवा प्रकृति द्वारा उत्पन्न किसी अन्य आपदा "अप्रत्याशित घटना" के कारण देरी अथवा विफलता न हो और जिसमें भू स्मपदा परियोजना के नियमित विकास को प्रभावित न किया हो तथापि, यदि परियोजना को पूरी करने में अप्रत्याशित घटना के कारण देरी हुई हो तो तब आबंटी इस बात पर सहमत है कि संप्रवर्तक (अपार्टमेंट/भूखंड) के कब्जे की प्रदानगी के लिए समय के विस्तार का हकदार होगा, बशर्ते कि ऐसी अप्रत्याशित घटना की स्थितियाँ इस प्रकृति की न हों जो इसे संविदा को कार्यान्वित किए जाने के लिए असंभव बनाता हो। आबंटी इस बात से सहमत है और इसकी पुष्टि करता है कि संप्रवर्तक के लिए अप्रत्याशित घटना की स्थितियों के कारण इस परियोजना को कार्यान्वित करना असंभव बनाने वाली दशा में, इस आबंटन को समाप्त हुआ समझा जाएगा, और संप्रवर्तक आबंटी को उसके द्वारा प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि को आबंटन से उस तारीख से 45 दिनों के भीतर वापिस करेगा। संप्रवर्तक आबंटी को ऐसी समाप्ति के बारे में ऐसे समापन से पहले कम से कम तीस दिन पहले सूचित करेगा। आबंटी द्वारा भुगतान किए गए धन की वापसी के पश्चात भुगतान किए गए धन की वापसी के पश्चात आबंटी इस बात से सहमत होगा कि उसके पास संप्रवर्तक के विरुद्ध कोई दावा इत्यादि करने का अधिकार नहीं होगा और यह कि संप्रवर्तक को इस करार के अंतर्गत इसके सभी दायित्वों और देयताओं से मुक्त और उन्तमुक्त किया जाएगा।
- 7.2 **कब्जा लेने के लिए प्रक्रिया :-**संप्रवर्तक आबंटी को सक्षम प्राधिकरण से दखल प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर इस करार के अनुसार (अपार्टमेंट/भूखंड) के कब्जे को लिखित में प्रस्तुत करेगा जिसको दखल प्रमाण-पत्र को जारी करने की तारीख से दो महीने के भीतर लिया जाएगा। (बशर्ते कि स्थानिय कानून के अभाव में, संप्रवर्तक द्वारा अधियोग प्रमाण-पत्र को जारी करने की तारीख से 3 महीने के भीतर आबंटी के पक्ष में हस्तांतरित विलेख को कार्यान्वित किया जाएगा) संप्रवर्तक इस बात से सहमत है और वचन देता है कि वह आबंटी को संप्रवर्तक की ओर से किसी भी उपबंध, औपचारिकताओं, दस्तावेज प्रलेखन को पूरा करने में विफलता के मामले में क्षतिपूर्ति करेगा। आबंटी कब्जा लेने के पश्चात इस बात से सहमत है कि वह संप्रवर्तक/आबंटी संघ जो भी मामला हो द्वारा यथा निर्माण प्रभारों का भुगतान इस परियोजना के लिए पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने के पश्चात करेगा। संप्रवर्तक आबंटी को अपार्टमेंट/भू-खंड जो भी मामला हो का दखल प्रमाण-पत्र उसके हस्तांतरित पत्र के समय पर सौपेगा।
- 7.3 **आबंटी की (अपार्टमेंट/भूखंड) का कब्जा लेने में विफलता :-** आबंटी पैरा 7.2 के अनुसार संप्रवर्तक से लिखित सूचना प्राप्त होने पर संप्रवर्तक से इस करार में यथा निर्धारित आवश्यक क्षतिपूर्ति, वचनबद्धताएं और ऐसे अन्य दस्तावेज प्रलेखन निष्पादित करके (अपार्टमेंट/भूखंड) का कब्जा लेगा और संप्रवर्तक आबंटी को (अपार्टमेंट/भूखंड) का कब्जा देगा। यदि आबंटी पैरा 7.2 में प्रदान किए गए समय के भीतर कब्जा नहीं लेता है, तो ऐसे आबंटी को पैरा 7.2 में यथा विनिर्दिष्ट रख-रखाव प्रभारों का भुगतान करते रहना होगा।
- 7.4 **आबंटिती द्वारा कब्जा :-** अधिभोग प्रमाण-पत्र कर लेने और आबंटिती को (अपार्टमेंट/भूखंड) का वास्तविक कब्जा दे देने के पश्चात, संप्रवर्तक की यह जिम्मेदारी है कि वह आबंटितियों की संख्या अथवा सक्षम अधिकारी, जैसा भी मामला हो कॉमन क्षेत्रों सहित आवश्यक दस्तावेज और नक्शे, स्थानीय विधि के अनुसार सौपेगा। परन्तु यह कि स्थानीय विधि के अभाव में, संप्रवर्तक आवश्यक दस्तावेजों और नक्शों, कॉमन क्षेत्रों सहित, आबंटितियों की संस्थाओं अथवा सक्षम प्राधिकारी को जैसा भी मामला हो समापन प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेने के तीस दिन के भीतर सौपेगा।

- 7.5 **आबंटिती द्वारा रद्दकरण** :- आबंटिती को यह अधिकार है कि वह परियोजना में आबंटन को रद्द कर सकता है/वापस ले सकता है, जैसा अधिनियम में व्यवस्था की गई है।
परन्तु यह कि जहाँ आबंटिती परियोजना से रद्दकरण/वापस लिए जाने का प्रस्ताव संप्रवर्तक की किसी गलती के बिना करता है, तो संप्रवर्तक इसमें आबंटन के लिए भुगतान की गई बुकिंग राशि को जब्त करने के हकदार है। आबंटिती द्वारा भुगतान की गई शेष राशि संप्रवर्तक द्वारा आबंटिती को ऐसे निरसन से 45 दिन के भीतर लौटानी होगी।
- 7.6 **क्षतिपूर्ति** :- भूमि जिस पर परियोजना विकसित की जा रही है अथवा विकसित की गई है के दोषपूर्ण स्वामित्व के कारण आबंटिती को हुई किसी हानि के लिए संप्रवर्तक उसकी क्षतिपूर्ति इस ढंग से करेगा जैसा कि अधिनियम में उपबंधित है और व्याज के लिए दावा इस उपबंध के अंतर्गत क्षतिपूर्ति तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत उपबंधित किन्हीं बाध्यताओं द्वारा कोई रुकावट नहीं होगा। आपदा की स्थिति के घटने को छोड़कर यदि संप्रवर्तक (अपार्टमेंट/प्लॉट) पूरा करने में असमर्थ रहता है अथवा (अपार्टमेंट/प्लॉट) का कब्जा देने में असमर्थ रहता है।
8. **संप्रवर्तक का अभिवेदन और आश्वस्त** :-
संप्रवर्तक एतद्वारा आबंटिती को निम्नानुसार अभिवेदन और आश्वस्त देगा :-
- (i) [संप्रवर्तक] का कथित भूमि के संबंध में पूर्ण, स्पष्ट और वाणिज्यिक और विपणनयोग्य अधिकार है; कथित भूमि पर विकास करने का अपेक्षित अधिकार और परियोजना के लिए कथित भूमि पर पूर्ण वास्तविक, भौतिक और विधिक कब्जा है।
 - (ii) संप्रवर्तक के पास परियोजना का विकास करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से विधिक अधिकार और अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त है;
 - (iii) कथित भूमि अथवा परियोजना पर कोई भारग्रस्तता नहीं है;
[भूमि पर किसी प्रकार की भारग्रस्तताएं होने के मामले में ऐसी भूमि में अथवा भूमि पर ऐसी भारग्रस्तताओं का ब्यौरा किसी अधिकार, स्वामित्व, हित अथवा पक्षकार का नाम सहित देना होगा] ।
 - (iv) कथित भूमि, परियोजना अथवा [अपार्टमेंट/प्लॉट] के विषय में कोई विवाद किसी न्यायालय अथवा प्राधिकार के पास लंबित नहीं है;
 - (v) परियोजना कथित भूमि, और [अपार्टमेंट/प्लॉट] के विषय में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी सभी अनुमोदन, लाइसेंस और परमिट वैध है और विद्यमान है, और विधि की पूरी प्रक्रिया करने के पश्चात प्राप्त किये गए हैं। इसके अतिरिक्त, संप्रवर्तक परियोजना, कथित भूमि, भवन और [अपार्टमेंट/प्लॉट] और कामन एरिया के संबंध में सभी प्रभावी विधियों का हर समय अनुपालन करेगा।
 - (vi) संप्रवर्तक के पास इस करार पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है और उसने ऐसा कोई कार्य अथवा क्रार्याकलाप के निष्पादन में कोई प्रतिबद्ध अथवा लोप नहीं किया है जिसके द्वारा आबंटिती का अधिकार, स्वामित्व और हित, जिसे इसमें सृजित किया गया है, पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
 - (vii) संप्रवर्तक ने उक्त भूमि, परियोजना और कथित [अपार्टमेंट/प्लॉट] सहित के विषय में किसी अन्य व्यक्ति अथवा पक्षकार के साथ बिक्री के लिए कोई करार और अथवा विकास करार अथवा अन्य कोई करार व्यवस्था पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं जो किसी भी प्रकार से इस करार के अंतर्गत आबंटिती के अधिकारों को प्रभावित होगा।
 - (viii) संप्रवर्तक पुष्टि करता है कि प्रवर्तक इस करार में ध्यानपूर्वक विचार किये गए किसी भी ढंग से आबंटिती को कथित [अपार्टमेंट/प्लॉट] का विक्रय करने से प्रतिबंधित नहीं है।
 - (ix) हस्तांतरण विलेख के निष्पादन के समय प्रवर्तक आबंटिती को [अपार्टमेंट/प्लॉट] का विधिक, खाली, शांतिपूर्ण, भौतिक कब्जा सौंपेगा और कॉमन क्षेत्र आबंटितियों की संख्या अथवा सक्षम प्राधिकारी जैसा भी मामला हो सौंपेगा।
 - (x) अनुसूचित संपत्ति किसी हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब की विषय वस्तु नहीं है और कि उसको किसी भाग दर अव्यस्क का अधिकार नहीं है और अथवा किसी अव्यस्क का अनुसूचित संपत्ति पर कोई अधिकार, स्वामित्व अथवा दावा नहीं है;
 - (xi) संप्रवर्तक ने उक्त परियोजना के संबंध में सभी सरकारी देयताएं दरे प्रभार और कर तथा अन्य राशियां, उगाहियां, अर्थदंड, प्रीमियम, क्षतियां और अथवा शास्तियां तथा अन्य लागतें जो भी हो सक्षम प्राधिकारियों को अदा कर दी है और समापन प्रमाणपत्र के जारी होने तक ऐसी देयताएं तब तक रहेगा जब तक अपार्टमेंट, प्लॉट अथवा भवन जैसा भी मामला हो, कामन एरिया के

साथ (सभी विनिर्देशनों, सुख-सुविधाओं और सुविधाओं से सुसज्जित) आबंटिती को और आबंटितियों की संस्था को अथवा प्राधिकारी को जैसा भी मामला हो सौंप नहीं देता।

- (xii) कथित भूमि और परियोजना के संबंध में सरकार से अथवा किसी अन्य स्थानीय निकास अथवा प्राधिकारी अथवा अन्य किसी विधायी अधिनियम, सरकारी अध्यादेश, आदेश, अधिसूचना (उक्त संपत्ति के अर्जन अथवा अधिग्रहण की किसी सूचना सहित) संप्रवर्तक द्वारा न तो प्राप्त किया गया है अथवा न ही उसे तामील हुआ है।

9. चूकों और दोषों की घटनाएं :

9.1 अप्रत्याशित घटना खंड के अधधीन निम्नलिखित स्थितियों में प्रवर्तक को चूक की स्थिति के अंतर्गत समझा जायेगा।

- (i) संप्रवर्तक पैरा 7.1 में निर्दिष्ट समयावधि के भीतर [अपार्टमेंट/प्लॉट] प्रवेश के लिए तैयार कब्जा देने में असमर्थ रहता है अथवा प्राधिकरण के पास परियोजना के पंजीकरण के समय प्रकट किये गए अनुबद्ध समय के भीतर परियोजना को समाप्त करने में असफल रहता है। इस पैरा के प्रयोजन से प्रवेश के लिए तैयार कब्जा का अर्थ अपार्टमेंट आवास योग्य स्थिति में होगा जो सभी विनिर्देशनों, सुख-सुविधाओं और सुविधाओं की व्यवस्थाओं के साथ हर प्रकार से पूर्ण हो जैसा पक्षों के बीच सहमति हुई है और जिसके लिए समापन प्रमाणपत्र और अधिभोग प्रमाणपत्र जैसा भी मामला हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
- (ii) अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके अंतर्गत बने नियमों अथवा विनियमों के अधीन संप्रवर्तक के पंजीकरण के निलंबन अथवा प्रतिसंहरण के द्वारा विकासक के रूप में उसका कारोबार का समापन होगा।

9.2 उपरोक्त सूचीबद्ध स्थितियों के अंतर्गत संप्रवर्तक द्वारा सूक के मामले में, आबंटिती निम्नलिखित का हकदार होगा

- (i) संप्रवर्तक को और भुगतान करना जो संप्रवर्तक द्वारा मांग की गई हो रोक देगा। यदि आबंटिती भुगतान करना रोकता है, प्रवर्तक निर्माण माइलस्टोनज को पूरा करके स्थिति में सुधार करेगा और तभी आबंटिती बिना किसी ब्याज के आगामी भुगतान करेगा; अथवा
- (ii) आबंटिती के पास करार को समाप्त करने का विकल्प होगा। इस मामले में संप्रवर्तक को अपार्टमेंट के क्रय के संबंध में आबंटिती द्वारा वह सारी राशि नियमों में निर्धारित ब्याज की दर पर ब्याज सहित पैंतालीस दिनों में लौटानी हो जो उसने किसी भी शीर्ष के अंतर्गत अदा की होगी।

परन्तु कि जहाँ आबंटिती परियोजना से निकलने अथवा करार को समाप्त करने की मंशा नहीं रखता, उसे संप्रवर्तक द्वारा विलंब के प्रत्येक माह के लिए नियमों में निर्धारित दर पर ब्याज तब तक अदा किया जायेगा जब तक संप्रवर्तक द्वारा [अपार्टमेंट/प्लॉट] कब्जा नहीं दे दिया जाता, संप्रवर्तक द्वारा ब्याज देय होने के 45 दिन की अवधि के भीतर आबंटिती को देना होगा।

9.3 आबंटिती तब चूक की स्थिति में समझा जायेगा, जब निम्नलिखित घटनाएं घटित हो :-

- (i) यदि आबंटिती इसके साथ संलग्न भुगतान योजना के अनुसार संप्रवर्तक द्वारा मांग किये जाने पर लगातार मांगों का इस संबंध में आबंटिती को सूचना जारी किये जाने के बावजूद, भुगतान नहीं करता है तो आबंटिती संप्रवर्तक को नियमों में निर्धारित दर से अप्रदत्त राशि पर ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा।
- (ii) ऊपर सूचीबद्ध स्थितियों के अंतर्गत आबंटिती इस संबंध में प्रवर्तक से सूचना के बाद भी लगातार.....महीने से अधिक की अवधि के लिए चूक करता है संप्रवर्तक आबंटिती के पक्ष में आबंटित [अपार्टमेंट/प्लॉट] को रद्द कर सकता है और बुकिंग राशि तथा ब्याज देयताओं की कटौती के पश्चात शेष राशि का आबंटिती को भुगतान करने और तत्पश्चात यह करार समाप्त हो जाएगा। बशर्ते कि संप्रवर्तक ऐसे समापन से कम से कम तीस दिन पूर्व ऐसे समापन के बारे में आबंटिती को सूचित करेगा।

10. कथित अपार्टमेंट का हस्तांतरण :-

संप्रवर्तक करार के पैरा 1.2 के अनुसार आबंटिती से [अपार्टमेंट/प्लॉट] की कीमत की पुरी राशि होने पर हस्तांतरण विलेख निष्पादित करेगा और अधिभोग प्रमाणपत्र और समापन प्रमाणपत्र जैसा भी मामला हो के जारी होने की तारीख से 3 महीने के भीतर, कॉमन क्षेत्र में आनुपातिक अविभाज्य हिस्से के साथ आबंटिती को [अपार्टमेंट/प्लॉट] के स्वामित्व का हस्तांतरण करेगा [परन्तु यह कि, स्थानीय विधि के अभाव में संप्रवर्तक द्वारा अधिभोग प्रमाणपत्र के जारी होने की तारीख से तीन महीने के भीतर आबंटिती के पक्ष में हस्तांतरण विलेख निष्पादित करेगा] तथापि यदि आबंटिती सूचना में उल्लिखित अवधि के भीतर स्टाम्प शुल्क और अथवा पंजीकरण प्रभार जमा करने में असफल रहता है आबंटिती संप्रवर्तक को तब

तक हस्तांतरण विलेख के पंजीकरण को रोकने के लिए प्राधिकृत कर रहा है जब तक आबंटिती द्वारा संप्रवर्तक को पंजीकरण प्रभार और स्टाम्प शुल्क का भुगतान नहीं कर दिया जाय।

11. कथित भवन/अपार्टमेंट/परियोजना का अनुरक्षण :-

परियोजना के समापन प्रमाणपत्र जारी होने पर आबंटिती की संख्या को परियोजना के अनुरक्षण का कार्य सौंपे जाने तक संप्रवर्तक परियोजना में अनिवार्य सेवाएं प्रदान करने अनुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसे अनुरक्षण की लागत [अपार्टमेंट/प्लॉट] की कुल कीमत में शामिल कर ली गई है।

12. दोष दायित्व :-

यह सहमति है कि किसी संरचनात्मक दोष अथवा कारीगरी, गुणता अथवा सेवाओं के उपबंधों और ऐसे विकास से संबंधित बिक्री करार के अनुसार संप्रवर्तक द्वारा किसी अन्य दायित्व के मामले में कब्जा देने की तारीख से 5 (पाँच) वर्ष की अवधि के भीतर आबंटिती द्वारा संप्रवर्तक के ध्यान में लाये जाने पर संप्रवर्तक का यह दायित्व है कि वह 30 (तीस) दिन के भीतर बिना किसी प्रभार के ऐसे दोषों का सुधार करेगा, और संप्रवर्तक के ऐसे अवधि के भीतर ऐसे दोषों का सुधार करने में असफल रहने की स्थिति में असंतुष्ट आबंटिती अधिनियम के अंतर्गत यथा उपबंधित तरीके से उपयुक्त क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के पात्र होंगे।

13. मरम्मत के लिए अपार्टमेंट में प्रवेश का अधिकार :-

संप्रवर्तक/अनुरक्षण/एजेंसी/आबंटितियों की संख्या को आवश्यक अनुरक्षण सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी कॉमन क्षेत्रों, गैरजो/बंद पार्किंग, पार्किंग स्थानों में जाने का अप्रतिबंधित अधिकार है और आबंटिती की संख्या और अथवा अनुरक्षण एजेंसी को [अपार्टमेंट/प्लॉट] अथवा उसके किसी भाग में विधिवत सूचना के पश्चात और कार्य करने के सामान्य समय के दौरान प्रवेश करने देने की अनुमति देने को सहमत है जब तक कि स्थितियां अन्यथा न हो जाए ताकि किसी दोष को सुधारा जा सके।

14. उपयोग :-

तहखाने और सेवा क्षेत्रों का उपयोग : तहखाने (नों) और सेवा क्षेत्र यदि कोई हो जो..... (परियोजना का नाम) के भीतर स्थित हो को पार्किंग स्थानों और सेवाओं जैसे प्रयोजनों की लिए निश्चित किया जाएगा लेकिन वे विद्युत उप स्टेशन, ट्रांसफॉर्मर, डी जी सेट कक्षों, भू-तल जल टैंक, पम्प कक्षों, रख-रखाव और सेवा कक्षों, अग्नि-शमन पम्पों और उपकरणों इत्यादि तथा स्वीकृत नक्शों के अनुसार अन्य अनुमत्य उपयोगों तक ही सीमित नहीं होंगे। आबंटिती को किसी भी ढंग जो भी हा से पार्किंग स्थानों के रूप में निश्चित किए गए स्थानों को छोड़कर सेवा क्षेत्रों और तहखानों का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा और उनको आबंटितियों द्वारा रख-रखाव सेवा प्रदान करने के लिए बनाए गए आबंटिती संघ द्वारा उपयोग के लिए आरक्षित किया जाएगा।

15. अपार्टमेंट के संबंध में सामान्य अनुपालन :-

15.1 केवल आबंटिती ही ऊपर पैरा 12 के अधीन कब्जा लेने के पश्चात अपनी लागत पर (अपार्टमेंट/भू-खंड) को अच्छी मरम्मत और स्थिति में रखने के लिए उत्तरदायी होगा और वह कोई भी ऐसे कार्य नहीं करेगा अथवा किए जाने पर अथवा भवन को अथवा (अपार्टमेंट/भू-खंड) अथवा सीढ़ियों, लिफ्टों, आम रास्तों, कॉरिडोरों, परिचालन क्षेत्रों, प्रांगण अथवा अहाते में हानि हो जिसमें किसी प्राधिकरण के किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन हो सकता हो अथवा (अपार्टमेंट/भूखंड) में परिवर्तन अथवा बदलाव हो अथवा उसमें जुड़ाव हो तथा इसके साथ-साथ (अपार्टमेंट/भू-खंड) इसकी दीवारों और विभजनों, सीवरों, नालों, पाईप और इससे जुड़े उपकरणों अथवा इससे संबंधित सामान को अच्छी तथा किराए पर देने योग्य मरम्मत की स्थिति में रखेगा और उसको ठीक और उपयुक्त स्थिति में रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि भवन की टेंकों, आश्रय इत्यादि को किसी भी तरीके से क्षति न हो अथवा वे जोखिम में नहीं पड़े।

15.2 इसके अतिरिक्त आबंटिती यह वचन देता है आश्वस्त करता है और गारंटी देता है कि वह भवन की आकृति/अग्रभाग पर अथवा परियोजना के बाहरी भाग पर किसी भी स्थान पर इसमें भवन के अन्दर अथवा आम क्षेत्रों पर कोई नामपट्ट/नाम तख्ती, नियोन प्रकाश, प्रचार सामग्री अथवा विज्ञापन सामग्री इत्यादि नहीं लगाएगा। आबंटिती बाहरी दीवारों की रंग स्कीम अथवा खिड़कियों के बाहरी और की पेंटिंग भी नहीं बदलेगा अथवा बाहरी एलिवेशन अथवा डिजाइन में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त आबंटिती (अपार्टमेंट/भूखंड) में कोई जोखिमपूर्ण अथवा ज्वलनशील सामान का भंडारण नहीं करेगा अथवा भवन के आम रास्तों अथवा सीढ़ी में कोई भारी सामग्री नहीं रखेगा। आबंटिती (अपार्टमेंट/भूखंड) की बाहरी और भार-सह्य दीवार समेत किसी दीवार को भी नहीं हटाएगा।

15.3 आबंटिती संप्रवर्तक द्वारा संस्थापित विद्युतीय प्रणालियों के अनुरूप इसके विद्युतीय भार की योजना बनाएगा और वितरित करेगा और इसके पश्चात आबंटिती संघ द्वारा नियुक्त आबंटिती संघ और/अथवा रख-रखाव एजेंसी इस कार्य को करेगी। आबंटिती किसी भी पूर्वोक्त स्थितियों को भंग करने से उत्पन्न होने वाली किसी हानि अथवा क्षति के लिए जिम्मेदार होगा।

16. **पक्षों द्वारा विधियों, अधिसूचनाओं इत्यादि का अनुपालन :**
पक्ष परियोजना पर लागू सभी विधियों, नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं की पूरी जानकारी से किसी (अपार्टमेंट/भू-खंड) के आबंटन के लिए इस करार पर हस्ताक्षर कर रहे हैं।
17. **अतिरिक्त निर्माण :**
संप्रवर्तक यह वचन देता है कि उसका इस अधिनियम में यथा रूप से की गई व्यवस्था को छोड़कर सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित और प्रकट किए गए भवन-नक्शों, ले-आऊट नक्शों और विनिर्दिष्ट, सुख-सुविधाओं और सुविधाओं के पश्चात परियोजना में किसी भी स्थान पर उनको बढ़ाने अथवा अतिरिक्त संरचनाओं को बनाने का कोई अधिकार नहीं है।
18. **संप्रवर्तक मॉरगेज अथवा प्रभार नहीं करेगा :-**
संप्रवर्तक इस करार के हो जाने के बाद, वह [अपार्टमेंट/प्लॉट/भवन] को मॉरगेज नहीं करेगा अथवा प्रभार नहीं रखेगा और यदि ऐसा मॉरगेज अथवा प्रभार किया जाता है अथवा उत्पन्न किया जाता है, तब इस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में निहित किसी कोई भी नियम होते हुए भी उस आबंटि के अधिकार और हित को ऐसे मॉरगेज अथवा प्रभार प्रभावित नहीं करेंगे जिसने ऐसे (अपार्टमेंट/प्लॉट/भवन) लिया है अथवा लेने का करार किया है।
19. **अपार्टमेंट स्वामित्वाधिकार अधिनियम (संगत राज्य का) :-**
संप्रवर्तक ने आवंटियों को यह आश्वासन दिया है कि समग्र रूप में परियोजना.....के प्रावधानों के अनुसार है। [कृपया राज्य अपार्टमेंट स्वामित्वधिकार अधिनियम अन्तर्विष्ट करें.....में यथा लागू विभिन्न विधियों/विनियमों का अनुपालन दर्शाते हुए संप्रवर्तक]।
20. **बाध्यकारी प्रभाव :-**
संप्रवर्तक द्वारा आबंटि को यह करार अग्रेषित करते हुए संप्रवर्तक अथवा आबंटि की ओर से बाध्यकारी कार्य नहीं करता, जब तक पहले तो आबंटि द्वारा प्राप्ति की तारीख के 30 दिन के भीतर सभी अनुसूचियों सहित इस करार पर हस्ताक्षर नहीं कर देता और इसे सौंप देता दूसरे संप्रवर्तक द्वारा जब कभी सूचना दी जाती है तो सम्बन्धित रजिस्ट्रार.....(उप-रजिस्ट्रार का पता लिखें) के सामने इसके पंजीकरण हेतु उपस्थिति नहीं हो जाता। यदि आबंटि, आबंटि द्वारा जब कभी सूचना दी जाए तो इसके पंजीकरण के लिए उप-रजिस्ट्रार के सक्षम प्रस्तुत होता है, तब संप्रवर्तक कमी को दूर करने के लिए आबंटि को एक नोटिस देगा, जो कभी यदि आबंटि द्वारा इसकी प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर दूर की गई तो आबंटि के आवेदन को रद्द माना जाएगा और आबंटि द्वारा इसकी बुकिंग राशि सहित सभी जमा राशि आबंटि को बिना किसी व्याज अथवा क्षतिपूर्ति राशि के लौटा दी जाएगी।
21. **समग्र करार :-**
यह करार इसकी अनुसूचियों सहित इसकी विषयवस्तु के संबंध में पक्षों के बीच समग्र करार बनाता है और उक्त अपार्टमेंट/प्लॉट भवन जैसा भी मामला हो के संबंध में पक्षों के बीच में यदि कोई समझ और अन्य समझ कोई अन्य सभी सहमति, अन्य कोई करारों, आबंटन पत्र, पत्राचार, व्यवस्थाओं लिखित हो मौखिक हो, उनका अधिक्रमण करता है।
22. **संशोधन करने का अधिकार :-**
यह करार केवल पक्षों की लिखित सहमति से संशोधित किया जा सकता है।
23. **इस करार के उपबंध आबंटि/बाद के आबंटियों पर लागू :-**
यह स्पष्ट रूप से जाना गया है कि इसके पक्षों के बीच जो करार है कि इसमें निहित सभी उपबंध और [अपार्टमेंट/प्लॉट] के संबंध में इसके अन्तर्गत बनी अनिवार्यताएं और परियोजना अंतरण के मामले में (अपार्टमेंट/प्लॉट) के बाद के किसी आबंटियों पर समान रूप से लागू होगा और के विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा जैसा सभी आशयों और प्रयोजनों के लिए (अपार्टमेंट/प्लॉट) के साथ उक्त अनिवार्यताएं लागू होती है।
24. **छूट को लागू करने की सीमा नहीं :-**
24.1 संप्रवर्तक अपने स्वविवेक से बिना किसी पूर्वाग्रह के इस करार में निर्धारित अपने अधिकारों से देर से भुगतान के लिए व्याज के भुगतान को छोड़ने सहित भुगतान योजना (अनुलग्नक-ग) के अनुसार भुगतान करने पर आबंटि के उल्लंघन को माफ कर सकता है। यह स्पष्ट किया गया है आबंटि इससे सहमत है कि किसी आबंटि के मामले में संप्रवर्तक द्वारा किया गया कोई व्यवहार किसी और आबंटि के लिए पूर्व उदाहरण की तरह नहीं देखा जा सकता है।
24.2 किसी भी समय अथवा किसी अवधि के लिए पार्टियों की ओर असफलता के लिए प्रावधान प्रत्येक प्रावधान को लागू करने में छूट नहीं समझा जाएगा।

25. **पृथक्करणीयता :-**
यदि इस करार के किसी उपबंध को अधिनियम अथवा नियम और इसके तहत विनियम अथवा किसी अन्य प्रयोज्य विधि के तहत शून्य अथवा अप्रवर्नीय किया जाना निर्धारित किया जाएगा, करार के ऐसे उपबंध इस करार के उद्देश्य से जहाँ तक तर्कपूर्ण तरह से देखा जाए इसे संशोधित अथवा समाप्त किया जाएगा और अधिनियम अथवा नियम तथा इसके तहत विनियम अथवा लागू कानून के अनुरूप जैसा भी मामला हो और इस करार के शेष उपबंध इस करार के निष्पादन के समय वैध एवं लागू रहेगा।
26. **करार में उल्लिखित अंश के गणना की विधि :-**
इस करार में जहाँ भी यह निर्धारित है कि आबंटी को परियोजना में अन्य आबंटियों के साथ किसी तरह का भुगतान करना पड़ेगा, यह उसी अनुपात में होगी जो परियोजना में सभी [अपार्टमेंट/प्लॉट] का कुल कार्पेट क्षेत्र [अपार्टमेंट/प्लॉट] का होगा।
27. **अतिरिक्त आश्वासन :-**
दोनों पार्टियों इस बात पर सहमत हैं कि वे ऐसे साधनों का कार्यान्वयन करेंगे, जो इसमें दिए गए विशेष रूप से साधनों और कार्रवाई के अलावा होंगे जैसा इस करार के प्रावधानों के प्रभावित के लिए तर्कसंगत अपेक्षित हो अथवा इसमें कोई लेनदेन का विचार हो अथवा कोई अधिकार का निर्माण की प्राप्ति अथवा इसके तहत अंतरिक अथवा ऐसे लेनदेन के अनुपालनार्थ हो।
28. **कार्य निष्पादन का स्थान :-**
इस करार का कार्य निष्पादन इसके संप्रवर्तक द्वारा संप्रवर्तक के कार्यालय में इस प्राधिकारी हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से किया जाएगा अथवा किसी अन्य स्थान पर जो संप्रवर्तक एवं आबंटी द्वारा परस्पर सहमत हो, करार के.....पश्चात उक्त करार के निष्पादन के साथ संप्रवर्तक एवं आबंटी द्वारा साथ-साथ विधित निष्पादित को उप निबंधक के कार्यालय.....(उप-निबंधक के पता का उल्लेख करें)। इस प्रकार यह करार.....पर निष्पादित समझा जाए।
29. **सूचनाएं :-**
ये सब सूचनाएं आबंटिती के सेवार्थ हैं तथा इस समझौते द्वारा यथा उल्लेखित संप्रवर्तक विधिवन सेवा दिया गया माना जाएगा, यदि उनके निम्नलिखित संबंधित पते पर पंजीकृत डाक द्वारा आबंटिती अथवा संप्रवर्तक को भेजा जाए।
..... आबंटिती का नाम
..... (आबंटिती का पता)
मैसर्स..... संप्रवर्तक का नाम
..... (संप्रवर्तक का पता)
पंजीकृत डाक द्वारा उपरोक्त पते में इस समझौते के निष्पादन के बाद के पते में प्रत्येक परिवर्तन के बारे में एक दूसरे को सूचित करना आबंटिती और संप्रवर्तक का दायित्व होगा जिसके बाद अनुरोधित पते पर भेजे गए सभी संपर्कों तथा पत्रों को संप्रवर्तक अथवा आबंटिती द्वारा प्राप्त हुआ माना जाएगा।
30. **संयुक्त आबंटिती :-**
यदि संयुक्त आबंटिती है तो संप्रवर्तक उस आबंटिती से सभी पत्राचार करेगा जिसका नाम पहले आया तथा उससे जो पता दिया हो जो सभी आशयों तथा प्रयोजन के लिए सभी आबंटितीयों को यथोचित ढंग से दिया गया माना जाएगा।
31. **व्यावृत्तियां :-**
यथास्थिति ऐसे अपार्टमेंट, प्लॉट या भवन के विक्रय हेतु इस करार के निष्पादन या रजिस्ट्रीकरण से पूर्व, यथास्थिति, अपार्टमेंट, प्लॉट या भवन के संबंध में आबंटिती द्वारा हस्ताक्षरित कोई आवेदन पत्र, आवंटन पत्र करार या किसी अन्य दस्तावेज का विक्रय हेतु करार के अधीन या अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन आबंटिती के अधिकारों और हितों को सीमित करने वाला के रूप में अर्थ नहीं लगाया जाएगा।
32. **शासी विधि :-**
भारत में लागू तब तक के अन्य लागू कानूनों सहित इसके अंतर्गत निर्मित अधिनियम तथा नियमावली और विनियमों के अनुसार इस समझौते के अंतर्गत अथवा इसके कारण पक्षकारों में अधिकारों तथा आरोपों का अर्थ लगाया जाएगा तथा लागू किया जाएगा।
33. **विवाद निपटान :-**
इस समझौते के कारण उठ रहे अथवा नियम एवं शर्तों को छू रहे अथवा के संबंध वाले सभी या किन्हीं विवादों, उस पर शर्तों की व्याख्या तथा वैधता और पक्षकारों के संबंधित अधिकारों तथा कर्तव्य सहित को परस्पर चर्चा द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया जाएगा। इसके अभाव में अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त अधिनिर्णायक अधिकारी के माध्यम से इसका समाधान किया जाएगा।

कृपया पक्षकारों के मध्य संविदात्मक समझौते के अनुसार कोई अन्य नियम एवं शर्तें बनाएं तथापि कृपया सुनिश्चित कर लें कि ऐसे अतिरिक्त नियम एवं शर्तें बनाए गए उपरोक्त नियमों एवं शर्तों अथवा अंतर्गत निर्मित अधिनियम और नियम एवं विनियम के प्रति अज्ञाकारी अथवा असंगतिपूर्ण नहीं है।
साक्षी में जहाँ इसमें उपरोक्त नामित पक्षकारों ने अपने संबंधीपक्ष रखे हैं और प्रमाण साक्ष्य की उपस्थिति में ऊपर लिखित प्रथम दिवस को हस्ताक्षर करते हुए.....(शहर/कस्बे का नाम) में बिक्री के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

दिए गए नाम हस्ताक्षरित तथा प्रेषित :-

आबंटिती : (संयुक्त खरीदारों सहित)

(1) हस्ताक्षर.....

नाम.....

पता.....

(1) हस्ताक्षर.....

नाम.....

पता.....स्थान पर.....

.....की उपस्थिति में

दिए गए नाम द्वारा हस्ताक्षरित तथा प्रेषित :-

संप्रवर्तक :

(1) हस्ताक्षर (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता).....

नाम.....

पता.....

साक्ष्य :

(1) हस्ताक्षर :

नाम :

पता :

(2) हस्ताक्षर :

नाम :

पता :

अनुसूची 'क' : अपार्टमेंट सभी चार दिशाओं की सीमा के साथ [अपार्टमेंट/भूखंड] तथा गैरेज/बंद पार्किंग (यदि लागू) का ब्यारा दें।

अनुसूची 'ख' : अपार्टमेंट की फर्शी योजना :

अनुसूची 'ग' : आबंटिती द्वारा भुगतान योजना :

अनुसूची 'घ' : विनिर्दिशन, सुविधाएं, संसाधन (जो इस अपार्टमेंट/भूखंड के भाग हैं)।

अनुसूची 'ङ00' : विनिर्दिशन, सुविधाएं, संसाधन (जो इस परियोजना के भाग हैं)।

[विक्रय के करार के अनुसूची पर पक्षकारों के बीच सहमति होगी]

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

चैतन्य प्रसाद,

प्रधान सचिव।

The 28th April 2017

BIHAR REAL ESTATE (REGULATION AND DEVELOPMENT) RULES, 2017

No. 11/न०वि०/विविध०(Real Estate)-30/2016-345/UD&HD—In exercise of the powers conferred by section 84 and in pursuance of sub-clause (iv) of clause (g) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 of Government of India (16 of 2016), the State Government, hereby makes the following rules, namely: —

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and Commencement.— (1) These rules may be called the Bihar Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2017.

(2) It shall be applicable to the whole State of Bihar.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) “Act” means the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016);

- (b) “*association of allottees*” means a collective of the allottees of a real estate project, by whatever name called, registered under any law for the time being in force, acting as a group to serve the cause of its members, and shall include the authorised representatives of the allottees;
 - (c) “*authenticated copy*” shall mean a self-attested copy of any document;
 - (d) “*Form*” means a Form appended to these rules;
 - (e) “*State Government*” means the Government of Bihar;
 - (f) “*section*” means a section of the Act.
- (2) Words and expressions used but not defined in these rules, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II REAL ESTATE PROJECT

3. *Information and documents to be furnished by promoter for registration of real estate project.*— (1) A promoter shall furnish the following information and documents, along with those specified under section 4 of the Act, for registration of the project with the Authority, namely:-

- (a) authenticated copy of the PAN card and AADHAAR card of the promoter;
- (b) annual report including audited profit and loss account, balance sheet, cash flow statement, directors report and the auditors report of the promoter for the immediately preceding three financial years; and where annual report is not available, the audited profit and lost account, balance sheet, cash flow statement and the auditors report of the promoter for the immediately preceding three financial years;
- (c) the number of open parking areas and the number of covered parking areas available in the real estate project;
- (d) authenticated copy of the legal title deed reflecting the title of the promoter to the land on which development of project is proposed along with legally valid documents for chain of title with authentication of such title;
- (e) details of encumbrances on the land on which development of project is proposed including details of any rights, title, interest, dues, litigation and name of party in or over such land or non encumbrance certificate through an advocate having experience of atleast ten years from the revenue authority not below the rank of tehshildar, as the case may be;
- (f) where the promoter is not the owner of the land on which development of project is proposed details of the consent of the owner of the land along with a copy of the collaboration agreement, development agreement, joint development agreement or any other agreement, as the case may be, entered into between the promoter and such owner and copies of title and other documents reflecting the title of such owner on the land on which project is proposed to be developed;
- (g) name, photograph, contact details and address of the promoter if it is an individual and the name, photograph, contact details and address of the chairman, partners, directors, as the case may be, and the authorised person in case of other entities.
- (h) (i) Sanctioned plan where the project is being developed along with information relating to the FSI/ TDR and other entitlements which are proposed to be utilized in accordance with the relevant Development Control Regulations for the time being in force, for carrying out such sanctioned plan and the amenities and common facilities (including common areas, parking spaces) to be provided in accordance with the sanctioned plan;
- (ii) The Proposed Plan, Proposed Layout Plan of the whole project and Floor

- Space Index proposed to be consumed in the whole project, as proposed by the promoter,
- (iii) Proposed Floor Space Index to be consumed and sanctioned Floor Space Index. In case the sanctioned Floor Space Index is different than what is proposed to be consumed by the promoter, then the proposed Floor Space Index shall be disclosed at the time of registration and as and when the Floor Space Index is sanctioned, the same shall be uploaded on the website of the Regulator by the Promoter from time to time.
 - (iv) Proposed Number of building(s) or wing(s) to be constructed and sanctioned number of the building(s) or wing(s). In case the sanctioned Number of building(s) or wing(s) is different than what is proposed to be constructed by the promoter, then the proposed Number building(s) or wing(s) shall be disclosed at the time of registration and as and when the Additional Number of building(s) or wing(s) are sanctioned, the same shall be uploaded on the website of the Regulator by the Promoter from time to time.
 - (v) Proposed Number of Floors in respect of each of the building or wing to be constructed and sanctioned Number of Floors in respect of each of the building or wing. In case the sanctioned Number of Floors is different than what is proposed to be constructed by the promoter, then the proposed Number of Floors shall be disclosed at the time of registration and as and when the Additional Number of Floors are sanctioned, the same shall be uploaded on the website of the Regulator by the Promoter from time to time.
 - (vi) Aggregate area in sq. meters of the recreation open space
- (i) the particulars in respect of Architecture and Design Standards, Type of Construction Technology, Earthquake Resistant Measures and the like to be adopted for Buildings and for Common Areas and of amenities / facilities in the Layout Plan of the real estate project.
 - (2) An application to the Authority for registration of the real estate project shall be made in writing in Form 'A', in triplicate, until the procedure is made web based for filing of such application.
 - (3) The promoter shall pay a registration fee at the time of application for registration by way of a demand draft or a bankers cheque drawn on any scheduled bank or through online payment mode, as the case may be, for a sum calculated at the rate of,-
 - (a) in case of group housing project,- five rupees per square meter for projects where the area of land proposed to be developed does not exceed one thousand square meters; or rupees ten per square meter for projects where the area of land proposed to be developed exceeds one thousand square meters, but shall not be more than five lakhs rupees;
 - (b) in case of mixed development (residential and commercial) project,- ten rupees per square meter for projects where the area of land proposed to be developed does not exceed one thousand square meters; or fifteen rupees per square meter for projects where the area of land proposed to be developed exceeds one thousand square meters, but shall not be more than seven lakhs rupees;
 - (c) in case of commercial projects, - twenty rupees per square meter for projects where the area of land proposed to be developed does not exceed one thousand square meters; or twenty five rupees per square meter for projects, where the area of land proposed to be developed exceeds one thousand square meters, but shall not be more than ten lakh rupees;
 - (d) in case of plotted development projects,- five rupees per square meter, but shall not be more than two lakhs rupees.

- (4) The declaration to be submitted under clause (1) of sub-section (2) of section 4, shall be in Form 'B', which shall include a declaration stating that the promoter shall not discriminate against any allottee at the time of allotment of any apartment, plot or building, as the case may be.

4. Additional disclosure by promoters of ongoing projects.—

- (1) Upon the notification for commencement of sub-section (1) of section 3, the promoter of an ongoing project which has not received completion certificate shall, within the time specified in the said sub-section, make an application to the Authority as provided in rule 3.
- (2) The promoter shall in addition to disclosures provided in rule 3 disclose the following information, namely:-
 - (a) the original sanctioned plan, layout plan and specifications and the subsequent modifications carried out, if any, including the existing sanctioned plan, layout plan and specifications;
 - (b) the total amount of money collected from the allottees and the total amount of money used for development of the project including the total amount of balance money lying with the promoter;
 - (c) status of the project (extent of development carried out till date and the extent of development pending) including the original time period disclosed to the allottee for completion of the project at the time of sale including the delay and the time period within which he undertakes to complete the pending project, which shall be commensurate with the extent of development already completed, and this information shall be certified by an engineer, an architect and a chartered accountant in practice.
- (3) The promoter shall disclose the size of the apartment based on carpet area even if earlier sold on any other basis such as super area, super built up area, built up area etc. which shall not affect the validity of the agreement entered into between the promoter and the allottee to that extent.
- (4) In case of plotted development, the promoter shall disclose the area of the plot being sold to the allottees as per the layout plan.
- (5) For projects that are ongoing and have not received completion certificate, on the date of commencement of the Act, the promoter shall, within a period of three months of the application for registration of the project with the Authority, deposit in the separate bank account, seventy percent. of the amounts already realized from the allottees, which have not been utilized for construction of the project or the land cost for the project as required under sub-clause (D) of clause (1) of sub-section (2) of section 4, which shall be used for the purposes specified therein.

5. Grant or rejection of registration of project.—

- (1) Upon the registration of a project as per section 5 read with rule 3 and rule 4, as the case may be, the Authority shall issue a registration certificate with a registration number in Form 'C' to the promoter.
- (2) In case of rejection of the application as per section 5, the Authority shall inform the applicant in Form 'D':
 Provided that the Authority may grant an opportunity to the applicant to rectify the defects in the application within such time period as may be specified by it.

6. Extension of registration of project.—

- (1) The registration granted under the Act, may be extended by the Authority, on an application made by the promoter in Form 'E', in triplicate, until the application procedure is made web based, within three months prior to the expiry of the registration granted.

- (2) The application for extension of registration shall be accompanied with a demand draft or a bankers cheque drawn on any scheduled bank or through online payment mode, as the case may be, for an amount equivalent to half the registration fees as prescribed under sub-rule (3) of rule 3 along with an explanatory note setting out the reasons for delay in the completion of the project and the need for extension of registration for the project, along with documents supporting such reasons:

Provided that where the promoter applies for extension of registration of the project due to *force majeure* he shall not be liable to pay any fee.

- (3) The extension of registration of the project shall not be beyond the period provided as per local laws for completion of the project or phase thereof, as the case may be.
- (4) In case of extension of registration, the Authority shall inform the promoter about such extension in Form 'F' and in case of rejection of the application for extension of registration the Authority shall inform the promoter about such rejection in Form 'D':

Provided that the Authority may grant an opportunity to the promoter to rectify the defects in the application within such time period as may be specified by it.

7. Revocation of registration of the project.— Upon the revocation of registration of a project as per section 7, the Authority shall inform the promoter about such revocation in Form 'D'.

8. Agreement for sale.—

- (1) The Agreement for Sale to be executed between the promoter and the allottee shall be in the form as per Annexure.
- (2) Any application letter, allotment letter, agreement, or any other document signed by the allottee, in respect of the apartment, plot or building, as the case may be, prior to the execution and registration of the Agreement for Sale for such apartment, plot or building, as the case may be, shall not be construed to limit the rights and interests of the allottee under the Agreement for Sale or under the Act or the rules or the regulations made thereunder.

CHAPTER III REAL ESTATE AGENT

9. Application for registration by the real estate agent.—

- (1) Every real estate agent required to register as per sub-section (2) of section 9 shall make an application in writing to the Authority in Form 'G', in triplicate, until the application procedure is made web based, along with the following documents, namely:-
 - (a) the brief details of his enterprise including its name, registered address, type of enterprise (proprietorship, societies, partnership, company etc.);
 - (b) the particulars of registration (whether as a proprietorship, partnership, company, society etc.) including the bye-laws, memorandum of association, articles of association etc. as the case may be;
 - (c) name, address, contact details and photograph of the real estate agent, if it is an individual and the name, address, contact details and photograph of the partners, directors etc. in case of other entities;
 - (d) the authenticated copy of the PAN card and AADHAAR card of the real estate agent;
 - (e) the authenticated copy of the address proof of the place of business.
- (2) The real estate agent shall pay a registration fee at the time of application for registration by way of a demand draft or a bankers cheque drawn on any scheduled bank or through online payment, as the case may be, for a sum of ten

thousand rupees in case of the applicant being an individual or fifty thousand rupees in case of the applicant other than an individual.

10. Grant of registration to the real estate agent.—

- (1) On receipt of the application under rule 8, the Authority shall within a period of thirty days either grant registration to the real estate agent or reject the application, as the case may be:

Provided that the Authority may grant an opportunity to the real estate agent to rectify the defects in the application within such time period as may be specified by it.

- (2) Upon the registration of a real estate agent, the Authority shall issue a registration certificate with a registration number in Form 'H' to the real estate agent.
- (3) In case of rejection of the application, the Authority shall inform the applicant in Form 'I'.
- (4) The registration granted under this rule shall be valid for a period of five years.

11. Renewal of registration of real estate agent.—

- (1) The registration granted to a real estate agent under the Act, may be renewed, on an application made by the real estate agent in Form 'J', in triplicate, until the application procedure is made web based, which shall not be less than three months prior to the expiry of the registration granted.
- (2) The application for renewal of registration shall be accompanied with a demand draft or a bankers cheque drawn on any scheduled bank or through online payment, as the case may be, for a sum of five thousand rupees in case of the real estate agent being an individual or twenty five thousand rupees in case of the real estate agent other than an individual.
- (3) The real estate agent shall also submit all the updated documents set out in clauses (a) to (e) of sub-rule (1) of rule 8 at the time of application for renewal.
- (4) In case of renewal of registration, the Authority shall inform the real estate agent about the same in Form 'K' and in case of rejection of the application for renewal of registration the Authority, shall inform the real estate agent in Form 'I':

Provided that no application for renewal of registration shall be rejected, unless the applicant has been given an opportunity of being heard in the matter:

Provided further that the Authority may grant an opportunity to the real estate agent to rectify the defects in the application within such time period as may be specified by it.

- (5) The renewal granted under this rule shall be valid for a period of five years.

12. Revocation of registration of real estate agent.—The Authority may, due to reasons specified under sub-section (7) of section 9, revoke the registration granted to the real estate agent or renewal thereof, as the case may be, and intimate the real estate agent of such revocation in Form 'I'.

13. Books of accounts, records and documents.—The real estate agent shall maintain and preserve its books of account, records and documents in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), as amended from time to time, and the rules made thereunder.

14. Other functions of a real estate agent.—

- (1) The real estate agent shall provide assistance to enable the allottee and promoter to exercise their respective rights and fulfil their respective obligations at the time of booking and sale of any plot, apartment or building, as the case may be and not involve himself in any unfair trade practices, namely:—

- (i) making any statement, whether orally or in writing or by visible representation which—
 - (A) falsely or knowingly represents that services or amenities are of a particular standard or grade;
 - (B) represents that the Promoter or himself has approval or affiliation which such promoter or himself does not have;
 - (C) makes a false or misleading representation concerning the services which the promoter does not have;
- (ii) publishing any advertisement whether in any newspaper or other media, of services that are not intended to be offered by the promoter;
- (2) Facilitate the possession of all the information and documents, as the allottee, is entitled to, at the time of booking of any plot, apartment or building or as the case may be and discharge such other functions as prescribed by the regulations of the Authority.

15. Obligations of registered real estate agents.—

- (1) Every registered real estate agent shall prominently display number of his Registration Certificate at the principal place of business and at its branch offices.
- (2) Every registered real estate agent shall quote the number of his registration certificate on all the documents relating to advertisement, marketing, selling or purchase issued by the real estate.

CHAPTER IV

DETAILS TO BE PUBLISHED ON THE WEBSITE OF THE AUTHORITY

16. Details to be published on website.—

- (1) The Authority shall ensure that the following information, as applicable, shall be made available on its website in respect of each project registered under the Act, namely:-
 - (a) *details of the promoter including the following, namely:-*
 - (i) *promoter or group profile,-*
 - (A) a brief detail of his enterprise including its name, registered address, type of enterprise (proprietorship, limited liability partnership, society, partnership, company, competent authority) and the particulars of registration as such enterprise and in case of a newly incorporated or registered entity, brief details of the parent entity including its name, registered address, type of enterprise (whether as proprietorship, societies, limited liability partnership, partnership, company, competent authority);
 - (B) background of promoter:- work experience of the promoter and in case of a newly incorporated or registered entity work experience of the chairman, directors, partners, as the case may be and that of the authorised persons of the parent entity;
 - (C) name, address, contact details and photograph of the promoter in case of an individual and the name, address, contact details and photograph of the chairman, directors, partners, as the case may be and that of the authorised persons.
 - (ii) *track record of the promoter,-*
 - (A) number of years of experience of the promoter or parent entity, as the case may be, in real estate development in the State;
 - (B) number of years of experience of the promoter or parent entity, as the case may be, in real estate development in other States or Union territories;
 - (C) number of completed projects and area constructed till date in the

- past five years including the status of the projects, delay in its completion, details of type of land and payments pending;
- (D) number of ongoing projects and proposed area to be constructed launched in the past five years including the status of the said projects, delay in its completion, details of type of land and payments pending;
- (E) details and profile of ongoing and completed projects for the last five years as provided under clause (b) of sub-section (2) of section 4.
- (iii) litigations,-** Details of litigation in the past five years in relation to the real estate projects developed or being developed by the promoter.
- (iv) website,-**
- (A) web link of the promoter or parent entity, as the case may be;
- (B) web link of the project;
- (b) details of the real estate project including the following, namely:-**
- (i)** advertisement and prospectus issued in regard to the project;
- (ii) compliance and registration,-**
- (A) authenticated copy of the approvals and commencement certificate received from the competent authority as provided under clause (c) of sub-section (2) of section 4;
- (B) the sanctioned plan, layout plan and specifications of the project or the phase thereof, and the whole project as sanctioned by the competent authority as provided under clause (d) of sub-section (2) of section 4;
- (C) details of the registration granted by the Authority under the Act;
- (iii) apartment, plot and garage related details,-**
- (A) details of the number, type and carpet area of apartments for sale in the project along with the area of the exclusive balcony or verandah areas and the exclusive open terrace areas with the apartment, if any, or details of the number, type and area of plots for sale in the project or both, as the case may be;
- (B) details of the number and area of garage for sale in the project;
- (C) details of the number of open parking areas and covered parking areas available in the real estate project;
- (iv) registered Agents,-** names and addresses of real estate agents for the project.
- (v) consultants,-** Details, including name and addresses, of contractors, architect, structural engineers and other persons concerned with the development of the real estate project such as-
- (A) name and address of the person;
- (B) names of promoters;
- (C) year of establishment;
- (D) names and profile of key projects completed;
- (vi) location,-** the details of the location of the project, with clear demarcation of land dedicated for the project along with its boundaries including the latitude and longitude of the end points of the project;
- (vii) development Plan,-**
- (A) the plan of development works to be executed in the proposed project and the proposed facilities to be provided thereof including fire fighting facilities, drinking water facilities, emergency evacuation services, use of renewable energy etc.;
- (B) amenities:- a detailed note explaining the salient features of the proposed project including access to the project, design for electric supply including street lighting, water supply arrangements and site for disposal and treatment of storm and sullage water, and any

other facilities and amenities or public health services proposed to be provided in the project;

- (C) gantt charts or milestone charts and project schedule:- the plan of development works to be executed in the project and the details of the proposed facilities to be provided thereof and the timelines to achieve the same;
- (D) the stage wise time schedule of completion of the project, including the provisions for civic infrastructure like water, sanitation and electricity etc.

(c) financial details of the promoter,-

- (i) the authenticated copy of the PAN card and AADHAAR card of the promoter;
- (ii) the annual report including audited profit and loss account, balance sheet, cash flow statement, directors report and the auditors report of the promoter for the immediately preceding three financial years and where annual report is not available then the audited profit and lost account, balance sheet, cash flow statement and the auditors report of the promoter for the immediately preceding three financial years and in case of newly incorporated or registered entity such information shall be disclosed for the parent entity (accessible only to Authority);

(d) the promoter shall upload the following updates on the webpage for the project, within fifteen days from the expiry of each quarter, namely:-

- (i) list of number and types of apartments or plots, booked;
- (ii) list of number of garages booked;
- (iii) **status of the project,-**
 - (A) status of construction of each building with photographs;
 - (B) status of construction of each floor with photographs;
 - (C) status of construction of internal infrastructure and common areas with photographs.
- (iv) **status of approvals,-**
 - (A) approvals received;
 - (B) approvals applied and expected date of receipt;
 - (C) approvals to be applied and date planned for application;
 - (D) modifications, amendment or revisions, if any, issued by the competent authority with regard to any sanctioned plans, layout plans, specifications, license, permit or approval for the project;

(e) the details of approvals, permissions, clearances, legal documents,-

(i) approvals-

- (A) authenticated copy of the license or land use permission, building sanction plan and the commencement certificate from the competent authority obtained in accordance with the laws applicable for the project, and where the project is proposed to be developed in phases, an authenticated copy of the license or land use permission, building sanction plan and the commencement certificate for each of such phases;
- (B) authenticated copy of the site plan or site map showing the location of the project land along with names of revenue estates, survey numbers, cadastral numbers, khasra numbers and area of each parcels of the project land;
- (C) authenticated copy of the layout plan of the project or the phase thereof, and also the layout plan of the whole project as sanctioned by the competent authority and other specifications of the project;

- (D) floor plans for each tower and block including clubhouse, amenities and common areas;
- (E) any other permission, approval, or license that may be required under applicable law including fire no-objection certificate, permission from water and sewerage department etc.;
- (F) authenticated copy of occupancy certificate and completion certificate including its application.

(ii) legal documents-

- (A) the details including the proforma of the application form, allotment letter, agreement for sale and the conveyance deed;
- (B) authenticated copy of the legal title deed reflecting the title of the promoter to the land on which development of project is proposed along with legally valid documents for chain of title with authentication of such title;
- (C) land title search report from an advocate having experience of at least ten years;
- (D) details of encumbrances on the land on which development of project is proposed including details of any rights, title, interest, dues, litigation and name of any party in or over such land or non encumbrance certificate through an advocate having experience of atleast ten years from the revenue authority not below the rank of tehshildar, as the case may be;
- (E) where the promoter is not the owner of the land on which development is proposed details of the consent of the owner of the land along with a copy of the collaboration agreement, development agreement, joint development agreement or any other agreement, as the case may be, entered into between the promoter and such owner and copies of title and other documents reflecting the title of such owner on the land proposed to be developed;
- (F) details of mortgage or charge, if any, created on the land and the project;

(f) Contact details- contact address, contact numbers and email-id of the promoter, authorised person and other officials related to the project.

- (2) The Authority shall maintain a database and ensure that the information specified therein shall be made available on its website in respect of each project revoked or penalised, as the case may be.
- (3) The Authority shall ensure that the following information shall be made available on its website in respect of each real estate agent registered with it or whose application for registration has been rejected or revoked, namely:-

(a) For real estate agents registered with the Authority:-

- (i) registration number and the period of validity of the registration of the real estate agent with the Authority;
- (ii) brief details of his enterprise including its name, registered address, type of enterprise (whether as proprietorship, societies, partnership, company etc.);
- (iii) particulars of registration as proprietorship, societies, partnership, company etc. including the bye-laws, memorandum of association, articles of association etc. as the case may be;
- (iv) name, address, contact details and photograph of the real estate agent, if it is an individual and the name, address, contact details and photograph of the partners, directors etc. in case of other persons;

- (v) authenticated copy of the PAN card and AADHAAR card of the real estate agent;
- (vi) authenticated copy of the address proof or the place of business and the contact address, contact numbers and email-id of the real estate agent and its other officials;
- (b) In case of applicants whose application for registration as a real estate agent have been rejected or real estate agents whose registration has been revoked by the Authority-
 - (i) registration number and the period of validity of the registration of the real estate agent with the Authority;
 - (ii) brief details of his enterprise including its name, registered address, type of enterprise (whether as proprietorship, societies, partnership, company etc.);
 - (iii) name, address, contact details and photograph of the real estate agent if it is an individual and the name, address, contact details and photograph of the partners, directors etc. in case of other persons;
- (c) such other documents or information as may be specified by the Act or the rules and regulations made thereunder.
- (4) The Authority shall maintain a back-up, in digital form, of the contents of its website in terms of this rule, and ensure that such back-up is updated on the last day of each month.

CHAPTER V INTEREST PAYABLE BY PROMOTER AND ALLOTTEE AND TIMELINES FOR REFUND

17. Interest payable by promoter and allottee.— The rate of interest payable by the promoter to the allottee or by the allottee to the promoter, as the case may be, shall be at two percent above the prevalent Prime Lending Rate of State bank of India prevailing on the date on which the amount becomes due.

Provided that in case the State Bank of India Marginal Cost of Lending Rate is not in use it would be replaced by such benchmark lending rates which the State Bank of India may fix from time to time for lending to the general public.

18. Timelines for refund.— Any refund of monies along with the applicable interest and compensation, if any, payable by the promoter in terms of the Act or the rules and regulations made thereunder, shall be payable by the promoter to the allottee within 60 days from the date on which such refund along with applicable interest and compensation, as the case may be, becomes due.

CHAPTER VI REAL ESTATE REGULATORY AUTHORITY

19. Selection of Chairperson and other Members of Authority.—

- (1) As and when vacancies of Chairperson or any other Member in the Authority exist or arise, or are likely to arise, the State Government may make a reference to the Selection Committee in respect of the vacancies to be filled.
- (2) The Selection Committee may, for the purpose of selection of the Chairperson or Member of the Authority, follow such procedure as deemed fit including the appointment of a Search Committee consisting of such persons as the Selection Committee considers appropriate to suggest a panel of names for appointment as Chairperson or Member of the Authority.
- (3) The Selection Committee shall select two persons for each vacancy and recommend the same to the State Government.
- (4) The Selection Committee shall make its recommendation to the State Government within a period of sixty days from the date of reference made under sub-rule (1).

- (5) The State Government shall within thirty days from the date of receipt of the recommendation by the Selection Committee, appoint one of the two persons recommended by the Selection Committee for the vacancy of the Chairperson or other Member, as the case may be.

20. Salary and allowances payable and other terms and conditions of service of Chairperson and other Members of Authority.—

- (1) The salaries and allowances payable to the Chairperson and other Members of the Authority shall be as follows—
- (a) the Chairperson shall be paid a consolidated monthly salary of two lakh fifty thousand rupees and shall not be entitled to any allowance relating to house and vehicle;
 - (b) the Member shall be paid a consolidated monthly salary of two lakh rupees and shall not be entitled to any allowance relating to house and vehicle.
- (2) The Chairperson and other Member shall be entitled to thirty days of earned leave for every completed year of service.
- (3) The other allowances and conditions of service of the Chairperson and the Members shall be such as may be determined by the State Government from time to time.

21. Administrative powers of the Chairperson of Authority.—

- (1) The Chairperson of the Authority shall exercise the administrative powers in respect of—
- (a) matters pertaining to staff strength, wages and salary structures, emoluments, perquisites and personnel policies;
 - (b) matters pertaining to creation and abolition of posts;
 - (c) matters pertaining to appointments, promotions and confirmation for all posts;
 - (d) acceptance of resignations by any Member, officer or employee of the Authority;
 - (e) officiating against sanctioned posts;
 - (f) authorisation of tours to be undertaken by any Member, officer or employee of the Authority within and outside India;
 - (g) matters in relation to reimbursement of medical claims;
 - (h) matters in relation to grant or rejection of leaves;
 - (i) permission for hiring of vehicles for official use;
 - (j) nominations for attending seminars, conferences and training courses in India or abroad;
 - (k) permission for invitation of guests to carry out training course;
 - (l) matters pertaining to staff welfare expenses;
 - (m) sanction or scrapping or write-off of capital assets which due to normal wear and tear have become unserviceable or are considered beyond economical repairs;
 - (n) matters relating to disciplinary action against any Member, officer or employee of the Authority.
- (2) The Chairman of the Authority shall also exercise such other powers that may be required for the efficient functioning of the Authority and enforcement of the provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder.

22. Salary and allowances payable to and the other terms and conditions of service of the officers and of the employees of Authority.—

- (1) The conditions of service of the officers and employees of the Authority in the matter of pay, allowances, leave, joining time, joining time pay, age of superannuation and other conditions of service, shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are, from time to time, applicable to officers and employees of the State Government and drawing the corresponding scales of pay.

- (2) The State Government shall have power to relax the provisions of any of these rules in respect of any class or category of officers or employees.

23. Functioning of Authority.—

- (1) The office of the Authority shall be located at such place as may be determined by the State Government by notification.
- (2) The working days and office hours of the Authority shall be the same as that of the normal working days and office hours of the other offices of the State Government.
- (3) The official common seal and emblem of the Authority shall be such as the State Government may specify.
- (4) Every notice, order and direction of the Authority shall bear the seal of the Authority which shall be in custody with the person designated by the Chairperson.
- (5) The Authority shall ordinarily have sittings at its headquarters and at such other places as the Chairperson may by general or special order specify.

24. Additional powers of Authority.—

- (1) In addition to the powers specified in clause (iv) of sub-section (2) of section 35, the Authority shall exercise the following additional powers,-
 - (a) require the promoter, allottee or real estate agent to furnish in writing such information or explanation or produce such documents within such reasonable time, as it may deem necessary;
 - (b) requisitioning, subject to the provisions of sections 123 and 124 of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872), any public record or document or copy of such record or document from any office.
- (2) The Authority may call upon such experts or consultants from the fields of economics, commerce, accountancy, real estate, competition, construction, architecture, law or engineering or from any other discipline as it deems necessary, to assist the Authority in the conduct of any inquiry or proceedings before it.
- (3) The Authority may in the interest of the allottees, inquire into the payment of amounts imposed as penalty, interest or compensation, paid or payable by the promoter, in order to ensure that the promoter has not,-
 - (a) withdrawn the said amounts from the account maintained under sub-clause (D) of clause (I) of sub-section (2) of section 4; or
 - (b) used any amounts paid to such promoter by the allottees for that real estate project for which the penalty, interest or compensation is payable, or any other real estate project; or
 - (c) recovered the amounts paid as penalty, fine or compensation from the allottees of the relevant real estate project or any other real estate project.

25. Recovery of interest, penalty and compensation.— The recovery of the amounts due such as interest, penalty or compensation shall be recovered as arrears of land revenue in the manner provided under applicable local laws.

26. Manner of implementation of order, direction or decision of the adjudicating officer, the Authority or the Appellate Tribunal.- For the purpose of sub-section (2) of section 40, every order passed by the adjudicating officer, Authority or Appellate Tribunal, as the case may be, under the Act or the rules and regulations made thereunder, shall be enforced by the adjudicating officer, the Authority or the Appellate Tribunal in the same manner as if it were a decree or order made by the principal civil court in a suit pending therein and it shall be lawful for the adjudicating officer, Authority or Appellate Tribunal, as the case may be, in the event of its inability to execute the order, send such order to the principal civil court, to execute such order either within the local limits of whose jurisdiction the real estate project is located or in the principal civil court within the local limits of whose jurisdiction the person against whom the order is being issued, resides, or carries on business, or personally works for gain.

**CHAPTER VII
REAL ESTATE APPELLATE TRIBUNAL**

27. Appeal and the fees payable.—

- (1) Every appeal filed under sub-section (1) of section 44 shall be accompanied by a fees of five thousand rupees in the form of a demand draft or a bankers cheque drawn on a scheduled bank in favour of the Appellate Tribunal and payable at the branch of that Bank at the station where the seat of the said Appellate Tribunal is situated or through online payment, as the case may be.
- (2) Every appeal shall be filed in Form 'L', in triplicate, until the application procedure is made web based, along with the following documents, namely:-
 - (a) true copy of the order against which the appeal is filed;
 - (b) copies of the documents relied upon by the appellant and referred to in the appeal; and
 - (c) an index of the documents.
- (3) Every appeal shall be either filed at the filing counter of the Registry of the Appellate Tribunal or through a registered post or through online system, as applicable.
- (4) In case of an appeal sent by post under sub-rule (3), it shall be deemed to have been presented to the Appellate Tribunal on the day on which it is received in its office.
- (5) Where a party to the appeal is represented by an authorised person, as provided under section 56, a copy of the authorisation to act as such and the written consent thereto by such authorised person, both in original, shall be appended to the appeal or the reply to the notice of the appeal, as the case may be.
- (6) On the date of hearing or any other date to which hearing could be adjourned, it shall be obligatory on the parties or their agents, as the case may be, to appear before the Appellate Tribunal:

Provided that where the appellant or his authorised person, as the case may be, fails to appear before the Appellate Tribunal on such days, the Appellate Tribunal may in its discretion either dismiss the appeal for default or decide it on merits and where the opposite party or his authorised person fails to appear on the date of hearing, the Appellate Tribunal may decide the appeal ex-parte.
- (7) The procedure for day to day functioning of the Appellate Tribunal, which have not been provided by the Act or the rules made thereunder, shall be as specified by the Appellate Tribunal.

28. Selection of Members of Appellate Tribunal.—

- (1) As and when vacancies of a Member in the Appellate Tribunal exist or arise, or are likely to arise, the State Government may make a reference to the Selection Committee in respect of the vacancies to be filled.
- (2) The Selection Committee may, for the purpose of selection of the Member of the Appellate Tribunal, follow such procedure as deemed fit including the appointment of a Search Committee consisting of such persons as the Selection Committee considers appropriate to suggest a panel of names for appointment as Member of the Appellate Tribunal.
- (3) The Selection Committee shall select two persons for each vacancy and recommend the same to the State Government.
- (4) The Selection Committee shall make its recommendation to the State Government within a period of sixty days from the date of reference made under sub-rule (1).
- (5) The State Government shall within thirty days from the date of the receipt of the recommendation by the Selection Committee, appoint one of the two

persons recommended by the Selection Committee for the vacancy of the Member.

29. Salary and allowances payable and other terms and conditions of service of Chairperson and Members of Appellate Tribunal.—

- (1) The salaries and allowances payable to the Chairperson and Members of the Appellate Tribunal shall be as follows,-
 - (a) the Chairperson shall be paid a monthly salary equivalent to the last drawn salary by such person, as a Judge of a High Court;
 - (b) the Member shall be paid a monthly salary equivalent to the salary drawn at the maximum of the scale of pay of Additional Secretary to the Government of Bihar:

Provided that any person who has held a post with the Government, senior than that of Additional Secretary to the Government of Bihar, prior to becoming a Member, he shall be paid a monthly salary corresponding to the post at which he retired.

- (2) The Chairperson and every other Member shall be entitled to thirty days of earned leave for every completed year of service.
- (3) The other allowances and conditions of service of the Chairperson and the other Member shall be such as may be determined by the State Government from time to time.

30. Inquiry of the charges against Chairperson or Member of Authority or Appellate Tribunal.—

- (1) The State Government shall on the occurrence of any of the circumstances specified in clause (d) or clause (e) of sub-section (1) of section 26 in case of a Chairperson or Member of the Authority or as specified under sub-section (1) of section 49 in case of a Chairperson or Member of the Appellate Tribunal, either by receipt of a complaint in this regard or *suo motu*, as the case may be, make a preliminary scrutiny with respect to such charges against the Chairperson or any Member of the Authority or Appellate Tribunal, as the case may be.
- (2) If, on preliminary scrutiny, the State Government considers it necessary to investigate into the allegation, it shall place the complaint, if any, together with supporting material as may be available, before Chief Justice of the High Court to appoint a sitting or retired Judge of the High Court.
- (3) The State Government shall forward to the Judge appointed under sub-rule (2), copies of,-
 - (a) the statement of charges against the Chairperson or Member of the Authority or Appellate Tribunal, as the case may be; and
 - (b) material documents relevant to the inquiry.
- (4) The Chairperson or Member of the Authority or Appellate Tribunal, as the case may be, shall be given a reasonable opportunity of being heard with respect to the charges within the time period as may be specified in this behalf by the Judge conducting the inquiry in the matter.
- (5) Where it is alleged that the Chairperson or Member of an Appellate Tribunal is unable to discharge the duties of his office efficiently due to any physical or mental incapacity and the allegation is denied, the Judge may arrange for the medical examination of the Chairperson or Member of the Appellate Tribunal.
- (6) After the conclusion of the investigation, the Judge shall submit his report to the State Government stating therein his findings and the reasons thereof on each of the articles of charges separately with such observations on the whole case as he thinks fit.

- (7) After receipt of the report under sub-rule (6), the State Government shall in consultation with the Chief Justice of the High Court decide to either remove or not to remove the Chairperson or Member of the Authority or Appellate Tribunal, as the case may be.

31. Salary and allowances payable and other terms and conditions of service of officers and other employees of Appellate Tribunal.—

- (1) The conditions of service of the officers and employees of the Appellate Tribunal and any other category of employees in the matter of pay, allowances, leave, joining time, joining time pay, age of superannuation and other conditions of service, shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are, from time to time, as applicable to officers and employees of the State Government and drawing the corresponding scales of pay.
- (2) The State Government shall have power to relax the provisions of any of these rules in respect of any class or category of officers or employees, as the case may be.

32. Additional powers of Appellate Tribunal.—

- (1) In addition to the powers specified in clause (g) of sub-section (4) of section 53, the Appellate Tribunal shall exercise the following additional powers,-
 - (a) require the promoter, allottee or real estate agent to furnish in writing such information or explanation or produce such documents within such reasonable time, as it may deem necessary;
 - (b) requisitioning, subject to the provisions of sections 123 and 124 of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872), any public record or document or copy of such record or document from any office.
- (2) The Appellate Tribunal may call upon such experts or consultants from the fields of economics, commerce, accountancy, real estate, competition, construction, architecture, law or engineering or from any other discipline as it deems necessary, to assist the Appellate Tribunal in the conduct of any inquiry or proceedings before it.

33. Administrative powers of Chairperson of Appellate Tribunal.—

- (1) The Chairperson of the Appellate Tribunal shall exercise the administrative powers in respect of-
 - (a) matters pertaining to staff strength, wages and salary structures, emoluments, perquisites and personnel policies;
 - (b) matters pertaining to creation and abolition of posts;
 - (c) matters pertaining to appointments, promotions and confirmation for all posts;
 - (d) acceptance of resignations by any Member, officer or employee;
 - (e) officiating against sanctioned posts;
 - (f) authorisation of tours to be undertaken by any Member, officer or employee: within and outside India;
 - (g) matters in relation to reimbursement of medical claims;
 - (h) matters in relation to grant or rejection of leaves;
 - (i) permission for hiring of vehicles for official use;
 - (j) nominations for attending seminars, conferences and training courses in India or abroad;
 - (k) permission for invitation of guests to carry out training course;
 - (l) matters pertaining to staff welfare expenses;
 - (m) sanction or scrapping or write-off of capital assets which due to normal wear and tear have become unserviceable or are considered beyond economical repairs;
 - (n) all matters relating to disciplinary action against any Member, officer or employee.

- (2) The Chairperson of the Appellate Tribunal shall also exercise such other powers that may be required for the efficient functioning of the Appellate Tribunal and enforcement of the provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder.

34. Functioning of Appellate Tribunal.—

- (1) The office of the Appellate Tribunal shall be located at such place as may be determined by the State Government by notification.
- (2) The working days and office hours of the Appellate Tribunal shall be the same as that of the normal working days and office hours of the other offices of the State Government.
- (3) The official common seal and emblem of the Appellate Tribunal shall be such as the State Government may specify.
- (4) Every notice, order and judgment of the Appellate Tribunal shall bear the seal of the Appellate Tribunal which shall be in custody with the person designated by the Chairperson.
- (5) The Appellate Tribunal shall ordinarily have sittings at its headquarters and at such places as the Chairperson may by general or special order specify.

**CHAPTER VIII
OFFENCES AND PENALTIES**

35. Terms and conditions and the fine payable for compounding of offence.—

- (1) The court shall, for the purposes of compounding any offence punishable with imprisonment under the Act, accept an amount as specified in the Table below:

Offence	Amount to be paid for compounding the offence
Punishable with imprisonment under sub section (2) of section 59.	ten percent. of the estimated cost of the real estate project.
Punishable with imprisonment under section 64.	ten percent. of the estimated cost of the real estate project.
Punishable with imprisonment under section 66.	ten percent. of the estimated cost of the plot, apartment or building, as the case may be, of the real estate project, for which the sale or purchase has been facilitated.
Punishable with imprisonment under section 68.	ten per cent. of the estimated cost of the plot, apartment or building, as the case may be.

- (2) The promoter, allottee or real estate agent, as the case may be, shall comply with the orders of the Authority or the Appellate Tribunal, within the period specified by the court, which shall not be more than thirty days from the date of compounding of the offence.
- (3) On payment of the sum of money in accordance with sub-rule (1) and subsequent to compliance of the orders of the Authority or the Appellate Tribunal as provided in sub-rule (2), any person in custody in connection with that offence shall be set at liberty and no proceedings shall be instituted or continued against such person in any court for that offence.
- (4) The acceptance of the sum of money for compounding an offence under sub-rule (1), by the Court shall be deemed to be an acquittal within the meaning of section 300 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

CHAPTER IX
FILING OF COMPLAINT WITH THE AUTHORITY AND
THE ADJUDICATING OFFICER

36. *Filing of complaint with the Authority and inquiry by Authority.*—

- (1) Any aggrieved person may file a complaint with the Authority for any violation under the Act or the rules and regulations made thereunder, save as those provided to be adjudicated by the adjudicating officer, in Form 'M', in triplicate, until the application procedure is made web based, which shall be accompanied by a fees of one thousand rupees in the form of a demand draft or a bankers cheque drawn on a scheduled bank in favour of Authority and payable at the branch of that bank at the station where the seat of the said Authority is situated or through online payment, as the case may be.
- (2) The Authority shall for the purposes of deciding any complaint as specified under sub-rule (1), follow summary procedure for inquiry in the following manner, namely:-
 - (a) upon receipt of the complaint, the Authority shall issue a notice along with particulars of the alleged contravention and the relevant documents to the respondent;
 - (b) the respondent against whom such notice is issued under clause (a) of sub-rule (2), may file his reply in respect of the complaint within the period as specified in the notice;
 - (c) the notice may specify a date and time for further hearing and the date and time for the hearing shall also be communicated to the complainant;
 - (d) on the date so fixed, the Authority shall explain to the respondent about the contravention alleged to have been committed in relation to any of the provisions of the Act or the rules and regulations made thereunder and if the respondent,-
 - (i) pleads guilty, the Authority shall record the plea, and pass such orders including imposition of penalty as it thinks fit in accordance with the provisions of the Act or the rules and regulations, made thereunder;
 - (ii) does not plead guilty and contests the complaint, the Authority shall demand an explanation from the respondent;
 - (e) in case the Authority is satisfied on the basis of the submissions made that the complaint does not require any further inquiry it may dismiss the complaint;
 - (f) in case the Authority is satisfied on the basis of the submissions made that there is need for further hearing into the complaint it may order production of documents or other evidence on a date and time fixed by it;
 - (g) the Authority shall have the power to carry out an inquiry into the complaint on the basis of documents and submissions;
 - (h) the Authority shall have the power to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any documents which in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry, and in taking such evidence, the Authority shall not be bound to observe the provisions of the Indian Evidence Act, 1872 (11 of 1872);
 - (i) on the date so fixed, the Authority upon consideration of the evidence produced before it and other records and submissions is satisfied that,-
 - (i) the respondent is in contravention of the provisions of the Act or the rules and regulations made thereunder, it shall pass such orders including imposition of penalty as it thinks fit in accordance with the provisions of the Act or the rules and regulations made thereunder;
 - (ii) the respondent is not in contravention of the provisions of the Act or the rules and regulations made thereunder, the Authority may, by order in

- writing, dismiss the complaint, with reasons to be recorded in writing;
- (j) if any person fails, neglects or refuses to appear, or present himself as required before the Authority, the Authority shall have the power to proceed with the inquiry in the absence of such person or persons after recording the reasons for doing so.
 - (3) The procedure for day to day functioning of the Authority, which have not been provided by the Act or the rules made thereunder, shall be as specified by regulations made by the Authority.
 - (4) Where a party to the complaint is represented by an authorised person, as provided under section 56, a copy of the authorisation to act as such and the written consent thereto by such authorised person, both in original, shall be appended to the complaint or the reply to the notice of the complaint, as the case may be.

37. Filing of complaint with the adjudicating officer and inquiry by adjudicating officer.—

- (1) Any aggrieved person may file a complaint with the adjudicating officer for interest and compensation as provided under section 12, 14, 18 and 19 in Form 'N', in triplicate, until the application procedure is made web based, which shall be accompanied by a fees of one thousand rupees in the form of a demand draft or a bankers cheque drawn on a scheduled bank in favour of the Authority and payable at the branch of that bank at the station where the seat of the said Authority is situated or through online payment, as the case may be.
- (2) The adjudicating officer shall for the purposes of adjudging interest and compensation follow summary procedure for inquiry in the following manner, namely:-
 - (a) Upon receipt of the complaint, the adjudicating officer shall issue a notice along with particulars of the alleged contravention and the relevant documents to the respondent;
 - (b) The respondent against whom such notice is issued under clause (a) of sub-rule (2) may file his reply in respect of the complaint within the period as specified in the notice;
 - (c) The notice may specify a date and time for further hearing and the date and time for the hearing shall also be communicated to the complainant;
 - (d) On the date so fixed, the adjudicating officer shall explain to the respondent about the contravention alleged to have been committed in relation to any of the provisions of the Act or the rules and regulations made thereunder and if the respondent,-
 - (i) pleads guilty, the adjudicating officer shall record the plea, and by order in writing, order payment of interest as specified in rule 15 and such compensation as he thinks fit, as the case may be, in accordance with the provisions of the Act or the rules and regulations, made thereunder;
 - (ii) does not plead guilty and contests the complaint, the adjudicating officer shall demand and explanation from the respondent;
 - (e) incase the adjudicating officer is satisfied on the basis of the submissions made that the complaint does not require any further inquiry it may dismiss the complaint;
 - (f) in case the adjudicating officer is satisfied on the basis of the submissions made that there is need for further hearing into the complaint it may order production of documents or other evidence on a date and time fixed by him;
 - (g) the adjudicating officer shall have the power to carry out an inquiry into the complaint on the basis of documents and submissions;

- (h) the adjudicating officer shall have the power to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any documents which in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry, and in taking such evidence, the adjudicating officer shall not be bound to observe the provisions of the Indian Evidence Act, 1872 (11 of 1872);
- (i) on the date so fixed, the adjudicating officer upon consideration of the evidence produced before him and other records and submissions is satisfied that the respondent is,-
 - (i) liable to pay interest and compensation, as the case may be, the adjudicating officer may, by order in writing, order payment of interest as specified in rule 15 and such compensation as he thinks fit, as the case may be, in accordance with the provisions of the Act or the rules and regulations, made thereunder; or
 - (ii) not liable to any interest and compensation, as the case may be, the adjudicating officer may, by order in writing, dismiss the complaint, with reasons to be recorded in writing;
- (j) if any person fails, neglects or refuses to appear, or present himself as required before the adjudicating officer, the adjudicating officer shall have the power to proceed with the inquiry in the absence of such person or persons after recording the reasons for doing so.
- (3) The procedure for day to day functioning of the adjudicating officer, which have not been provided by the Act or the rules made thereunder, shall be as specified by regulations made by the Authority.
- (4) Where a party to the complaint is represented by an authorised person, as provided under section 56, a copy of the authorisation to act as such and the written consent thereto by such authorised person, both in original, shall be appended to the complaint or the reply to the notice of the complaint, as the case may be.

CHAPTER X BUDGET AND REPORT

38. Budget, accounts and audit.—

- (1) At the end of the financial year of every year, the Authority shall prepare a budget, maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in Form 'O'.
- (2) The Authority shall preserve the accounts and other relevant records prepared under sub-rule (1) for a minimum period of five years.
- (3) The accounts and other relevant records under sub-rule (1) shall be signed by the Chairperson, Members, Secretary and the officer in-charge of Finance and Accounts.
- (4) The accounts of the Authority and the audit report shall, as soon as possible, be submitted to the State Government.

39. Annual Report.—

- (1) The Authority shall prepare its annual report in Form 'P'.
- (2) The Authority may also include in the Annual Report such other matters as deemed fit by the Authority for reporting to the State Government.
- (3) The annual report shall, after adoption at a meeting of the Authority and signed by the Chairperson and Members and authenticated by affixing the common seal of the Authority, with requisite number of copies thereof, be submitted to the State Government within a period of one hundred and eighty days immediately following the close of the year for which it has been prepared.

FORM 'A'
[See rule 3(2)]
APPLICATION FOR REGISTRATION OF PROJECT

To
The Real Estate Regulatory Authority (Name of Place)

Sir,

[I/We] hereby apply for the grant of registration of [my/our] project to be set up at Tehsil _____ District _____ State.

1. The requisite particulars are as under:-

- (i) Status of the applicant - [individual / company / proprietorship firm / societies / partnership firm / competent authority etc.];
- (ii) In case of individual –
 - (a) Name
 - (b) Father's Name
 - (c) Occupation
 - (d) Address
 - (e) Contact Details (Phone number, E-mail, Fax Number etc.)
 - (f) Name, photograph, contact details and address of the promoter

OR

In case of [firm / societies / trust / company / limited liability partnership / competent authority etc.] -

- (a) Name
- (b) Address
- (c) Copy of registration certificate as [firm / societies / trust / company / limited liability partnership / competent authority etc.]
- (d) Main objects
- (e) Contact Details (Phone number, E-mail, Fax Number etc.)
- (f) Name, photograph, contact details and address of [chairman / partners / directors] and authorised person etc.
- (iii) PAN No. _____ of the promoter, AADHAAR No. _____ of the promoter;
- (iv) Name and address of the bank or banker with which account in terms of sub-clause (D) of clause (1) of sub- section (2) of section 4 will be maintained _____;
- (v) Details of project land held by the applicant;
- (vi) Brief details of the projects launched by the promoter in the last five years, whether already completed or being developed, as the case may be, including the current status of the said projects, any delay in its completion, details of cases pending, details of type of land and payments pending etc. _____;
- (vii) Agency to take up external development works _____ [Local Authority / Self Development];
- (viii) Registration fee by way of a demand draft / bankers cheque dated _____ drawn on _____ bearing no. _____ for an amount of Rs. _____/- calculated as per sub-rule (3) of rule 3 or through online payment as the case may be (give details of online payment such as date paid, transaction no. etc.);
- (ix) Any other information the applicant may like to furnish.

2. [I/We] enclose the following documents, namely:-
- (i) authenticated copy of the PAN card/ AADHAAR card of the promoter;
 - (ii) annual report including audited profit and loss account, balance sheet, cash flow statement, directors report and the auditors report of the promoter for the immediately preceding three financial years and where annual report is not available, the audited profit and lost account, balance sheet, cash flow statement and the auditors report of the promoter for the immediately preceding three financial years;
 - (iii) authenticated copy of the legal title deed reflecting the title of the promoter to the land on which development of project is proposed along with legally valid documents for chain of title with authentication of such title;
 - (iv) details of encumbrances on the land on which development of project is proposed including details of any rights, title, interest, dues, litigation and name of any party in or over such land or no encumbrance certificate from an advocate having experience of atleast ten years or from the revenue authority not below the rank of tehshildar, as the case may be;
 - (v) where the promoter is not the owner of the land on which development of project is proposed details of the consent of the owner of the land along with a copy of the collaboration agreement, development agreement, joint development agreement or any other agreement, as the case may be, entered into between the promoter and such owner and copies of title and other documents reflecting the title of such owner on the land on which project is proposed to be developed;
 - (vi) an authenticated copy of the approvals and commencement certificate from the competent authority obtained in accordance with the laws as may be applicable for the real estate project mentioned in the application, and where the project is proposed to be developed in phases, an authenticated copy of the approvals and commencement certificate from the competent authority for each of such phases;
 - (vii) the sanctioned plan, layout plan and specifications of the proposed project or the phase thereof, and the whole project as sanctioned by the competent authority(See the list at Rule 3(h));
 - (viii) the plan of development works to be executed in the proposed project and the proposed facilities to be provided thereof including fire-fighting facilities, drinking water facilities, emergency evacuation services, use of renewable energy;
 - (ix) the location details of the project, with clear demarcation of land dedicated for the project along with its boundaries including the latitude and longitude of the end points of the project;
 - (x) proforma of the allotment letter, agreement for sale, and the conveyance deed proposed to be signed with the allottees;
 - (xi) the number, type and the carpet area of apartments for sale in the project along with the area of the exclusive balcony or verandah areas and the exclusive open terrace areas with the apartment, if any;
 - (xii) the number and areas of garage for sale in the project;
 - (xiii) the number of open parking areas and the number of covered parking areas available in the real estate project;
 - (xiv) the names and addresses of his real estate agents, if any, for the proposed project;
 - (xv) the names and addresses of the contractors, architect, structural engineer, if any and other persons concerned with the development of the proposed project;
 - (xvi) a declaration in Form 'B'.

3. [I/We] enclose the following additional documents and information regarding ongoing projects, as required under rule 4, and under other provisions of the Act or the rules and regulations made thereunder, namely:-
 - (i)
 - (ii)
 - (iii)
 -
4. [I/We] solemnly affirm and declare that the particulars given herein are correct to [my/our] knowledge and belief and nothing material has been concealed by [me/us] therefrom.

Dated:

Place:

**Yours faithfully,
Signature and seal of the applicant(s)**

FORM 'B'

[See rule 3(4)]

DECLARATION, SUPPORTED BY AN AFFIDAVIT, WHICH SHALL BE SIGNED BY THE PROMOTER OR ANY PERSON AUTHORISED BY THE PROMOTER

Affidavit-cum-Declaration

Affidavit cum Declaration of [Mr./Ms.]_____ [promoter of the project / duly authorised by the promoter of the project, vide its/his/their authorisation dated_____];

I,_____[promoter of the project / duly authorised by the promoter of the project] do hereby solemnly declare, undertake and state as under:

1. That [I / promoter] [have / has] a legal title to the land on which the development of the project is proposed or

_____ [have/has] a legal title to the land on which the development of the proposed project is to be carried out
and

a legally valid authentication of title of such land along with an authenticated copy of the agreement between such owner and promoter for development of the real estate project is enclosed herewith.

2. That the said land is free from all encumbrances. or

That details of encumbrances_____ including details of any rights, title, interest, dues, litigation and name of any party in or over such land.

3. That the time period within which the project shall be completed by [me / the promoter] is_____.
4. That seventy percent. of the amounts realised by [me / the promoter] for the real estate project from the allottees, from time to time, shall be deposited in a separate account to be maintained in a scheduled bank to cover the cost of construction and the land cost and shall be used only for that purpose.
5. That the amounts from the separate account, to cover the cost of the project, shall be withdrawn by [me / the promoter] in proportion to the percentage of completion of the project.
6. That the amounts from the separate account shall be withdrawn by [me / the promoter] after it is certified by an engineer, an architect and a chartered accountant in practice that the withdrawal is in proportion to the percentage of completion of the project.
7. That [I / the promoter] shall get the accounts audited within six months after the end of every financial year by a chartered accountant in practice, and shall produce a statement of accounts duly certified and signed by such chartered accountant and it shall be verified during the audit that the amounts collected for a particular project have been utilised for the project and the withdrawal has been in compliance with the proportion to

- the percentage of completion of the project.
8. That [I / the promoter] shall take all the pending approvals on time, from the competent authorities.
 9. That [I / the promoter] [have / has] furnished such other documents as have been prescribed by the Act and the rules and regulations made thereunder.
 10. That [I / the promoter] shall not discriminate against any allottee at the time of allotment of any apartment, plot or building, as the case may be.

Deponent

Verification

The contents of my above Affidavit cum Declaration are true and correct and nothing material has been concealed by me therefrom.

Verified by me at _____ on this ____ day of _____.

Deponent

FORM 'C'

[See rule 5(1)]

REGISTRATION CERTIFICATE OF PROJECT

This registration is granted under section 5 to the following project under project registration number __: _____ [Specify Details of Project including the project address];

1. [in the case of an individual] [Mr./Ms.] _____ son of [Mr./Ms.] _____
_____ Tehsil _____ District
State _____

; OR

[in the case of a firm / society / company / competent authority etc.] _____ [firm / society / company / competent authority etc.] _____ having its
[registered office / principal place of business] at _____.

2. This registration is granted subject to the following conditions, namely:-

- a. The promoter shall enter into an agreement for sale with the allottees as prescribed by the State Government;
- b. The promoter shall execute and register a conveyance deed in favour of the allottee or the association of the allottees, as the case may be, of the apartment, plot or building, as the case may be, or the common areas as per section 17;
- c. The promoter shall deposit seventy percent. of the amounts realised by the promoter in a separate account to be maintained in a schedule bank to cover the cost of construction and the land cost to be used only for that purpose as per sub-clause (D) of clause (1) of sub-section (2) of section 4;
- d. The registration shall be valid for a period of _____ years commencing from _____ and ending with _____ unless extended by the Authority in accordance with the Act and the rules made thereunder;
- e. The promoter shall comply with the provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder;
- f. The promoter shall not contravene the provisions of any other law for the time being in force as applicable to the project.

3. If the above mentioned conditions are not fulfilled by the promoter, the Authority may take necessary action against the promoter including revoking the registration granted herein, as per the Act and the rules and regulations made thereunder.

Dated:

Place:

**Signature and seal of the Authorised Officer
Real Estate Regulatory Authority**

FORM 'D'

[See rule 5(2), rule 6(4); rule 7]

**INTIMATION OF REJECTION OF APPLICATION FOR REGISTRATION OF
PROJECT / REJECTION OF APPLICATION FOR EXTENSION OF REGISTRATION
OF PROJECT / REVOCATION OF REGISTRATION OF PROJECT**

From:

The Real Estate Regulatory Authority (Name of place)

To

[Application/Registration] No.: _____ Dated: ____

You are hereby informed that your application for registration of your project is rejected.

or

You are hereby informed that your application for extension of the registration of your project is rejected.

or

You are hereby informed that the registration granted to your project is hereby revoked.

for the reasons set out:- _____

Place:

Dated:

**Signature and seal of the Authorised Officer
Real Estate Regulatory Authority**

FORM 'E'
[See rule 6(1)]
APPLICATION FOR EXTENSION OF REGISTRATION OF PROJECT

From:

To

The Real Estate Regulatory Authority (Name of Place)

Sir,

[I/We] hereby apply for extension of registration of the following project:

registered with the Authority vide project registration certificate bearing No. _____ which expires on _____.

As required [I/We] submit the following documents and information, namely:-

- (i) A demand Draft No. / Bankers Cheque No. _____ dated _____ for rupees _____ in favour of _____ drawn on _____ bank as extension fee as provided under sub- rule (2) of rule 6 or through online payment as the case may be _____ (give details of online payment such as date paid, transaction no. etc.);
- (ii) Authenticated Plan of the project showing the stage of development works undertaken till date;
- (iii) Explanatory note regarding the state of development works in the project and reason for not completing the development works in the project within the period declared in the declaration submitted in Form 'B' at the time of making application for the registration of the project _____;
- (iv) Authenticated copy of the [permission/approval] from the competent authority which is valid for a period which is longer than the proposed term of extension of the registration sought from the Authority;
- (v) The authenticated copy of the project registration certificate; and
- (vi) Any other information as may be specified by regulations.

Place:

Dated:

Yours faithfully,
Signature and seal of the applicant(s)

FORM 'F'
[See rule 6(4)]
CERTIFICATE FOR EXTENSION OF REGISTRATION OF PROJECT

This extension of registration is granted under section 6, to the following project:

_____,
 registered with the Authority vide project registration certificate bearing No. _____ of:-
 1. [in the case of an individual] [Mr./Ms.] _____ son of
 [Mr./Ms.] _____ Tehsil _____ District
 State _____;

OR

[in the case of a firm / society / company / competent authority etc.] _____ [firm / society /
 company / competent authority etc.] _____ having its [registered office/principal place
 of business] at
 _____.

2. This extension of registration is granted subject to the following conditions, namely:-
- (i) The promoter shall execute and register a conveyance deed in favour of the allottee or the association of the allottees, as the case may be, of the apartment, plot or building, as the case may be, or the common areas as per section 17;
 - (ii) The promoter shall deposit seventy percent. of the amounts realised by the promoter in a separate account to be maintained in a schedule bank to cover the cost of construction and the land cost to be used only for that purpose as per sub-clause (D) of clause (1) of sub-section (2) of section 4;
 - (iii) The registration shall be extended by a period of _____ [days / weeks / months] and shall be valid until _____;
 - (iv) The promoter shall comply with the provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder;
 - (v) The promoter shall not contravene the provisions of any other law for the time being in force as applicable to the project;
 - (vi) If the above mentioned conditions are not fulfilled by the promoter, the Authority may take necessary action against the promoter including revoking the registration granted herein, as per the Act and the rules and regulations made thereunder.

Dated:

Place:

Signature and seal of the Authorised Officer
Real Estate Regulatory Authority

FORM 'G'
[See rule 9(1)]
APPLICATION FOR REGISTRATION OF REAL ESTATE AGENT

To
The Real Estate Regulatory Authority (Name of Place)

Sir,

[I/We] apply for the grant of registration as a real estate agent to facilitate the sale or purchase of any plot, apartment or building, as the case may be, in real estate projects registered in the _____ State in terms of the Act and the rules and regulations made thereunder

1. [in the case of an individual]

[Mr./Ms.] _____ son
of _____ [Mr./Ms.] _____ Tehsil _____
_____ District _____ State _____.

OR

[in the case of a firm / society / company etc.] _____ [firm / society/ company etc.]
_____ having its [registered office / principal place of business] at _____.

2. The requisite particulars are as under:-

- (i) Status of the applicant, whether [individual / company / proprietorship firm / societies / partnership firm / limited liability partnership etc.];
- (ii) In case of individual –
 - (a) Name of [Individual / Proprietorship firm]
 - (b) Father's Name
 - (c) Occupation
 - (d) Address
 - (e) Contact Details (Phone number, e-mail, Fax Number etc.)
 - (f) Name, photograph, contact details and address of the proprietor OR

In case of [firm / societies / company etc.] -

 - (a) Name
 - (b) Address
 - (c) Copy of registration certificate as [firm / societies / company etc.]
 - (d) Major activities
 - (e) Contact Details (Phone number, e-mail, Fax Number etc.)
 - (f) Name, photograph, contact details and address of [partners / directors etc.]
- (iii) Particulars of registration as [proprietorship, societies, partnership, company etc.] including the bye-laws, memorandum of association, articles of association etc. as the case may be;
- (iv) Authenticated copy of the address proof or the place of business;
- (v) Details of registration in any other State or Union Territory;
- (vi) Any other information as specified by regulations.

3. [I/We] enclose the following documents along with, namely:-

- i. Demand Draft / Bankers Cheque No. _____ dated _____ for a sum of Rs. _____, in favour of _____, drawn on _____ bank as registration fee as per sub-rule (2) of rule 9 or through online payment as the case may be _____ (give details of online payment such as date paid, transaction no. etc.);
- ii. Authenticated copy of the PAN card and AADHAAR card of the real estate agent; and
- iii. Authenticated copy of the registration as a real estate agent in any other State or Union Territory, if applicable.

4. [I/We] solemnly affirm and declare that the particulars given in herein are correct to [my /our] knowledge and belief and nothing material has been concealed by [me/us] therefrom.

Dated:

Yours faithfully

Place:

Signature and seal of the applicant(s)

FORM 'H'

[See rule 10(2)]

REGISTRATION CERTIFICATE OF REAL ESTATE AGENT

1. This registration is granted under section 9 with registration certificate bearing No. _____ to -
[in the case of an individual] [Mr./Ms.] _____ son of
[Mr./Ms.] _____ Tehsil _____ District _____
State _____;

OR

- [in the case of a firm / society / company etc.] _____ [firm / society / company etc.]
_____ having its [registered office / principal place of business] at _____ to act as a real estate agent to facilitate the sale or purchase of any plot, apartment or building, as the case may be, in real estate projects registered in the _____ State in terms of the Act and the rules and regulations made thereunder.

2. This registration is granted subject to the following conditions, namely:-
(i) The real estate agent shall not facilitate the sale or purchase of any plot, apartment or building, as the case may be, in a real estate project or part of it, being sold by the promoter which is required but not registered with the Authority;
(ii) The real estate agent shall maintain and preserve such books of account, records and documents as provided under rule 13;
(iii) The real estate agent shall not involve himself in any unfair trade practices as specified under clause (c) of section 10;
(iv) The real estate agent shall facilitate the possession of all information and documents, as the allottee is entitled to, at the time of booking of any plot, apartment or building, as the case may be;
(v) The real estate agent shall provide assistance to enable the allottee and promoter to exercise their respective rights and fulfil their respective obligations at the time of booking and sale of any plot, apartment or building, as the case may be;
(vi) The real estate agent shall comply with the provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder;
(vii) The real estate agent shall not contravene the provisions of any other law for the time being in force as applicable to him;
(viii) The real estate agent shall discharge such other functions as may be specified by the Authority by regulations.
3. The registration is valid for a period of five years commencing from _____ and ending with _____ unless renewed by the Authority in accordance with the provisions of the Act or the rules and regulations made thereunder.
4. If the above mentioned conditions are not fulfilled by the real estate agent, the Authority may take necessary action against the real estate agent including revoking the registration granted herein, as per the Act and the rules and regulations made thereunder.

Dated:

Signature and seal of the Authorised Officer

Place:

Real Estate Regulatory Authority

FORM 'I'
[See rule 10(3),
11(4), 12]
INTIMATION OF
REJECTION OF APPLICATION FOR REGISTRATION OF REAL ESTATE AGENT /
REJECTION OF APPLICATION FOR RENEWAL OF REGISTRATION OF REAL
ESTATE AGENT / REVOCATION OF REGISTRATION OF REAL ESTATE AGENT

From:

The Real Estate Regulatory Authority (Name of Place)

To

[Application / Registration] No.: _____ Dated: _____

You are hereby informed that your application for registration as real estate agent is rejected. or

You are hereby informed that your application for the renewal of the registration as real estate agent is rejected. or

You are hereby informed that the registration granted to you as real estate agent is hereby revoked. for the reasons set out:- _____

Dated:

Signature and seal of the Authorised Officer

Place:

Real Estate Regulatory Authority

FORM 'J'
[See rule 11(1)]
APPLICATION FOR RENEWAL OF REGISTRATION OF REAL ESTATE AGENT

From:

To

The Real Estate Regulatory Authority (Name of Place)

Sir,

[I/We] apply for renewal my/our registration as a real estate agent under registration certificate bearing No.

_____, which expires on _____.

1. As required [I/We] submit the following documents and information, namely:-

- (i) A demand draft / bankers cheque no. _____ dated _____ for rupees _____ in favour of _____ drawn on _____ bank as renewal fee as per sub-rule (2) of rule 11 or through online payment as the case may be (give details of online payment such as date paid, transaction no. etc.);

- (ii) The authenticated copy of the registration certificate; and
 - (iii) Status of the applicant, whether [individual / company / proprietorship firm / societies / partnership firm / limited liability partnership etc.];
 - (iv) In case of individual –
 - (a) Name of [Individual / Proprietorship Firm]
 - (b) Father's Name
 - (c) Occupation
 - (d) Address
 - (e) Contact Details (Phone number, e-mail, Fax Number etc.)
 - (f) Name, photograph, contact details and address of the proprietor OR
 In case of [firm / societies / company etc.] -
 - (a) Name
 - (b) Address
 - (c) Copy of registration certificate as [firm / societies / company etc.]
 - (d) Major activities
 - (e) Contact Details (Phone number, e-mail, Fax Number etc.)
 - (f) Name, photograph, contact details and address of [partners / directors etc.];
 - (v) particulars of registration as [proprietorship, societies, partnership, company etc.] including the bye-laws, memorandum of association, articles of association etc. as the case may be;
 - (vi) authenticated copy of the address proof of the place of business;
 - (vii) authenticated copy of the PAN card AADHAAR card of the real estate agent;
 - (viii) authenticated copy of the registration as a real estate agent in any other State or Union Territory, if applicable;
 - (ix) Any other information as specified by regulations.
2. [I/We] solemnly affirm and declare that the particulars given in herein are correct to [my /our] knowledge and belief and nothing material has been concealed by [me/us] therefrom.

Dated:

Yours faithfully

Place:

Signature and seal of the applicant(s)

FORM 'K'

[See rule 11(4)]

CERTIFICATE FOR RENEWAL OF REGISTRATION OF REAL ESTATE AGENT

1. This renewal of registration is granted under section 9 to -
 [in the case of an individual] [Mr./Ms.] _____ son of
 [Mr./Ms.] _____ Tehsil _____ District
 _____ State _____;

OR

[in the case of a firm / society / company etc.] _____ [firm / society / company etc.] _____ having its [registered office / principal place of business] at _____ in continuation to registration certificate bearing No. _____, of _____.

1. This renewal of registration is granted subject to the following conditions, namely:-
 - (i) The real estate agent shall not facilitate the sale or purchase of any plot, apartment

- or building, as the case may be, in a real estate project or part of it, being sold by the promoter which is required but not registered with the Authority;
- (ii) The real estate agent shall maintain and preserve such books of account, records and documents as provided under rule 13;
 - (iii) The real estate agent shall not involve himself in any unfair trade practices as specified under clause (c) of section 10;
 - (iv) The real estate agent shall facilitate the possession of all information and documents, as the allottee is entitled to, at the time of booking of any plot, apartment or building, as the case may be;
 - (v) The real estate agent shall provide assistance to enable the allottee and promoter to exercise their respective rights and fulfil their respective obligations at the time of booking and sale of any plot, apartment or building, as the case may be;
 - (vi) The real estate agent shall comply with the provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder;
 - (vii) The real estate agent shall not contravene the provisions of any other law for the time being in force as applicable to him;
 - (viii) The real estate agent shall discharge such other functions as may be specified by the Authority by regulations.
2. The registration is valid for a period of five years commencing from_____ and ending with_____unless renewed by the Authority in accordance with the provisions of the Act or the rules and regulations made thereunder.
 3. If the above mentioned conditions are not fulfilled by the real estate agent, the Authority may take necessary action against the real estate agent including revoking the registration granted herein, as per the Act and the rules and regulations made thereunder.

Dated:
Place:

Signature and seal of the Authorised Officer
Real Estate Regulatory Authority

FORM 'L'
[See rule 27(2)]
APPEAL TO APPELLATE TRIBUNAL
Appeal under section 44

For use of Appellate Tribunal's office:

Date of filing: _____

Date of [receipt at the filing counter of the Registry / receipt by post / online filing]: _____

Appeal No.: _____

Signature: _____

Registrar: _____

IN THE REAL ESTATE APPELLATE TRIBUNAL (Name of place)

Between

_____ Appellant(s)

And

_____ Respondent(s) Details of appeal:

1. Particulars of the appellants:
 - (i) Name(s) of the appellant:
 - (ii) Address of the existing office / residence of the appellant:
 - (iii) Address for service of all notices:
 - (iv) Contact Details (Phone number, e-mail, Fax Number etc.):

2. Particulars of the respondents:
 - (i) Name(s) of respondent:
 - (ii) Office address of the respondent:
 - (iii) Address for service of all notices:
 - (iv) Contact Details (Phone number, e-mail, Fax Number etc.):
3. Jurisdiction of the Appellate Tribunal:
The appellant declares that the subject matter of the appeal falls within the jurisdiction of the Appellate Tribunal.
4. Limitation:
The appellant declares that the appeal is within the limitation specified in sub-section (2) of section 44 OR
If the appeal is filed after the expiry of the limitation period specified under sub-section (2) of section 44 specify reasons for delay_____.
5. Facts of the case:
(give a concise statement of facts and grounds of appeal against the specific order of the Authority or the adjudicating officer, as the case may be, passed under section(s)_____ or rule(s)_____ or regulation(s)_____).
6. Relief(s) sought:
In view of the facts mentioned in paragraph 5 above, the appellant prays for the following relief(s)

[Specify below the relief(s) sought explaining the grounds of relief(s) and the legal provisions (if any) relied upon]
7. Interim order, if prayed for:
Pending final decision on the appeal the appellant seeks issue of the following interim order: [Give here the nature of the interim order prayed for with reasons]
8. Matter not pending with any other court, etc.:
The appellant further declares that the matter regarding which this appeal has been made is not pending before any court of law or any other authority or any other tribunal(s).
9. Particulars of [demand draft / bankers cheque or online payment] in respect of the fee in terms of sub-rule (1) of rule 27:
 - (i) Amount:
 - (ii) Name of the bank on which drawn:
 - (iii) [Demand draft number / bankers cheque / online payment transaction no.]:
10. List of enclosures:
 - (i) An attested true copy of the order against which the appeal is filed
 - (ii) Copies of the documents relied upon by the appellant and referred to in the appeal
 - (iii) An index of the documents
 - (iv) Other documents as annexed along with the complaint

Signature of the appellant(s)

Verification

I _____ (name in full block letters) [son / daughter] of _____ the appellant do hereby verify that the contents of paragraphs [1 to 10] are true to my personal knowledge and belief and that I have not suppressed any material fact(s).

Place:

Date:

Signature of the appellant(s)

Instructions:

- (1) Every appeal shall be filed in English and in case it is in some other Indian language, it shall be accompanied by a copy translated in English and shall be

fairly and legibly type-written, lithographed or printed in double spacing on one side of standard petition paper with an inner margin of about four centimetres width on top and with a right margin on 2.5 cm, and left margin of 5 cm, duly paginated, indexed and stitched together in paper book form.

- (2) Every appeal shall be presented along with an empty file size envelope bearing full address of the respondent and where the number of respondents are more than one, then sufficient number of extra empty file size envelopes bearing full address of each respondent shall be furnished by the party preferring the appeal.

FORM 'M'
[See rule 36(1)]
COMPLAINT TO AUTHORITY
Complaint under section 31

For use of Regulatory

Authority(s) office: Date of

filing: _____

Date of [receipt at the filing counter of the Registry / receipt by post / online filing]: _

Complaint No.: _____

Signature: _____

Registrar: _____

IN THE REGULATORY AUTHORITIES OFFICE (Name of place)

Between

Complainant(s) And

Respondent(s) Details of
claim:

1. Particulars of the complainant(s):
 - (i) Name(s) of the complainant:
 - (ii) Address of the existing office / residence of the complainant:
 - (iii) Address for service of all notices:
 - (iv) Contact Details (Phone number, e-mail, Fax Number etc.):
2. Particulars of the respondents:
 - (i) Name(s) of respondent:
 - (ii) Office address of the respondent:
 - (iii) Address for service of all notices:
 - (iv) Contact Details (Phone number, e-mail, Fax Number etc.):
3. Jurisdiction of the Authority:
The complainant declares that the subject matter of the claim falls within the jurisdiction of the Authority.
4. Facts of the case:
[give a concise statement of facts and grounds for complaint]
5. Relief(s) sought:
In view of the facts mentioned in paragraph 4 above, the complainant prays for the following relief(s)

[Specify below the relief(s) claimed explaining the grounds of relief(s) and the legal provisions (if any) relied upon]

6. Interim order, if prayed for:
Pending final decision on the complaint the complainant seeks issue of the following interim order:
[Give here the nature of the interim order prayed for with reasons]
7. Complainant not pending with any other court, etc.:
The complainant further declares that the matter regarding which this complaint has been made is not pending before any court of law or any other authority or any other tribunal(s).
8. Particulars of [demand draft / bankers cheque or online payment] in respect of the fee in terms of sub-rule (1) of rule 36:
 - (i) Amount
 - (ii) Name of the bank on which drawn
 - (iii) [Demand draft number / bankers cheque / online payment transaction no.]
9. List of enclosures:
 - (iv) Copies of the documents relied upon by the complainant and referred to in the complaint
 - (v) An index of documents
 - (vi) Other documents as annexed along with the complaint

Signature of the complainant(s)

Verification

I _____ (name in full block letters) [son / daughter] of _____ the complainant do hereby verify that the contents of paragraphs [1 to 9] are true to my personal knowledge and belief and that I have not suppressed any material fact(s).

Place:

Date:

Signature of the complainant(s)

Instructions:

- (1) Every complaint shall be filed in English and in case it is in some other Indian language, it shall be accompanied by a copy translated in English and shall be fairly and legibly type-written, lithographed or printed in double spacing on one side of standard petition paper with an inner margin of about four centimetres width on top and with a right margin on 2.5 cm, and left margin of 5 cm, duly paginated, indexed and stitched together in paper book form.
- (2) Every complaint shall be presented along with an empty file size envelope bearing full address of the respondent and where the number of respondents are more than one, then sufficient number of extra empty file size envelopes bearing full address of each respondent shall be furnished by the party preferring the complaint.

FORM 'N'
[See rule 37(1)]
COMPLAINT TO ADJUDICATING OFFICER
Claim for interest and compensation under section 31 read with section 71

For use of Adjudicating Officers office:

Date of filing: _____

Date of [receipt at the filing counter / receipt by post / online filing]: _____

Complaint No.: _____

Signature: _____

Authorised Officer: _____

IN THE ADJUDICATING OFFICERS OFFICE (Name of place)

Between

Complainant(s) And

Respondent(s) Details of claim:

1. Particulars of the complainant(s):

- (i) Name(s) of the complainant:
- (ii) Address of the existing office / residence of the complainant:
- (iii) Address for service of all notices:
- (iv) Contact Details (Phone number, e-mail, Fax Number etc.):
- (v) Details of allottees apartment, plot or building, as the case may be:

2. Particulars of the respondents:

- (i) Name(s) of respondent:
- (ii) Office address of the respondent:
- (iii) Address for service of all notices:
- (iv) Contact Details (Phone number, e-mail, Fax Number etc.):
- (v) Registration no. and address of project:

3. Jurisdiction of the adjudicating officer:

The complainant declares that the subject matter of the claim falls within the jurisdiction of the adjudicating officer.

4. Facts of the case:

[give a concise statement of facts and grounds of claim against the promoter]

5. Compensation(s) sought:

In view of the facts mentioned in paragraph 4 above, the complainant prays for the following compensation(s)

[Specify below the compensation(s) claimed explaining the grounds of claim(s) and the legal provisions (if any) relied upon]

6. Claim not pending with any other court, etc.:

The complainant further declares that the matter regarding which this complaint has been made is not pending before any court of law or any other authority or any other tribunal(s).

7. Particulars of [demand draft / bankers cheque or online payment] in respect of the fee in terms of sub-rule (1) of rule 37:

- (i) Amount:
- (ii) Name of the bank on which drawn:
- (iii) [Demand draft number / bankers cheque / online payment transaction no]:

8. List of enclosures:

- (i) Copies of the documents relied upon by the complainant and referred to in the complaint
- (ii) An index of documents
- (iii) Other documents as annexed along with the complaint

Signature of the complainant(s)**Verification**

I _____ (name in full block letters) [son / daughter] of _____ the complainant do hereby verify that the contents of paragraphs [1 to 8] are true to my personal knowledge and belief and that I have not suppressed any material fact(s).

Place:**Date:****Signature of the complainant(s)****Instructions:-**

- (1) Every complaint shall be filed in English and in case it is in some other Indian language, it shall be accompanied by a copy translated in English and shall be fairly and legibly type-written, lithographed or printed in double spacing on one side of standard petition paper with an inner margin of about four centimetres width on top and with a right margin on 2.5 cm, and left margin of 5 cm, duly paginated, indexed and stitched together in paper book form.
- (2) Every complaint shall be presented along with an empty file size envelope bearing full address of the respondent and where the number of respondents are more than one, then sufficient number of extra empty file size envelopes bearing full address of each respondent shall be furnished by the party preferring the complaint.

FORM 'O'
[See rule 38(1)]
ANNUAL STATEMENT OF ACCOUNTS
Receipts and Payments Account
For the year ended _____

(In Rupees)

A/c Code	Receipts	Current year As on	Previous Year As on	A/c Code	Payments	Current year As on	Previous year As on
1.	To Balance Brought down:			13.	By Chairperson and Members:		
1.1.	To Bank			13.1.	By Pay and Allowances		
1.2.	To Cash in hand			13.2.	By Other benefits		
2.	To Fee, Charges and Fine:			13.3.	By Travelling expenses:		
2.1.	To Fees			13.3.1.	By Overseas		
2.2.	To Charges			13.3.2.	By Domestic		
2.3.	To Fines			14.	By Officers:		
2.4.	To Others (specify)			14.1.	By Pay and Allowances		
3.	To Grants:			14.2.	By Retirement benefits		
3.1.	To Accounts with Government			14.3.	By Other benefits		
3.2.	To Others (specify)			14.4.	By Travelling expenses:		
4.	To Gifts			14.4.1.	By Overseas		
5.	To Seminars and conferences			14.4.2.	By Domestic		
6.	To Sale of Publications			15.	By Staff:		
7.	To Income on investments and deposits:			15.1.	By Pay and Allowances		
7.1.	To Income on investments			15.2.	By Retirement benefits		
7.2.	To Income on Deposits			15.3.	By Other benefits		
8.	To Loans:			15.4.	By Travelling expenses:		
8.1.	To Government			15.4.1.	By Overseas		
8.2.	To Others (specify)			15.4.2.	By Domestic		
9.	To Sale of Assets			16.	By Hire of Conveyance		
10.	To Sale of Investments			17.	By Wages		
11.	To Recoveries from pay			18.	By Overtime		
11.1.	To Loans and Advances Principal Amount			19.	By Honorarium		
11.2.	To Interest on Loans and Advances			20.	By Other office expenses		
11.3.	To Miscellaneous			21.	By Expenditure on Research		
51	To Others (specify)			22.	By Consultation expenses		
				23.	By Seminars and conferences		
				24.	By Publications of Authority		

				25.	By Rent and Taxes		
				26.	By Interest on Loans		
				27.	By Promotional Expenses		
				28.	By Membership fee		
				29.	By Subscription		
				30.	By Purchase of Fixed Assets (specify)		
				31.	By Investments and Deposits:		
				31.1.	By Investments		
				31.2.	By Deposits		
				32.	By Security Deposits		
				33.	By Loans and Advances to:		
				33.1	By Employees:		
				33.1.1.	By Bearing Interest		
				33.1.2.	By Not bearing Interest		
				33.2.	By Suppliers/contractors		
				33.3.	By others (specify)		
				34.	By Repayment of loan		
				35.	By Others		
				35.1.	By Leave Salary and Pension		
				35.2.	Contribution		
				35.3.	By Audit Fee		
				35.4.	By Misc:		
				36.	By Balance carried down:		
				36.1	By Bank		
				36.2	By Cash in hand		
	Total				Total		

Chairperson

(Signature)

Member(s)

(Signature)

Secretary

(Signature)

Officer In-charge

(Finance and Accounts)

Income and Expenditure Account
For the period 1st _____ to 31st _____

(In Rupees)

A/c Code	Expenditure	Schedule	Current Year As on	Previous Year As on	A/c Code	Income	Schedule	Current Year As on	Previous Year As on
13.	To Chairperson and Members				2.	By Fee, Charges and Fine	A		
13.1.	To Pay and Allowances				2.1.	By Fee			
13.2.	To Other benefits	C			2.2.	By Charges			
13.3.	To Travelling Expenses				2.3.	By Fines			
13.3.1.	To Overseas				2.4.	By Others			
13.3.2.	To Domestic				3.	By Grants	B		
14.	To Officers				3.1.	By Account with Government			
14.1.	To Pay and Allowances				3.2.	By Others (Specify)			
14.2.	To retirement Benefits	D			4.	By Gifts			
14.3.	To Other Benefits	C			5.	By Seminars and Conferences			
14.4.	To Traveling Expenses				6.	By Sale of Publications			
14.4.1.	To Overseas				7.	By Income on investments and Deposits			
14.4.2.	To Domestic				7.1.	By Income on investments			
15.	To Staff				7.2.	By Income on Deposits			
15.1.	To Pay and Allowances				11.2.	By Interest on Loan and Advances			
15.2.	To Retirement Benefits	D			12.	By Miscellaneous Income			
15.3.	To Other Benefits	C			12.1.	By Gain on Sales of Assets			
15.4.	To Traveling expenses					By Excess of expenditure over income			

15.4.1.	To Overseas					(Transferred to Capital Fund Account)			
15.4.2.	To Domestic								
16.	To hire of Conveyance								
17.	To Wages								
18.	To Overtime								
19.	To Honorarium								
20.	To Other office expenses	E							
21.	To expenditure on Research								
22.	To Consultation expenses								
23.	To Seminars and conferences								
24.	To Publications of Authority								
25.	To Rent and Taxes								
26.	To Interest on loans								
27.	To Promotional Expenses								
28.	To membership fee	F							
29.	To Subscription	G							
35.	To Others								
35.1.	To Leave Salary and Pension								
35.2.	Contribution								
35.3.	To Audit Fee								
35.4.	To Misc.								
37.	To Depreciation	H							
48.	To Loss on sale of assets								
49.	To Bad Debts written off								
50.	To Provision for bad and doubtful debts								
	To Excess of income over expenditure								
	(Transferred to Capital Fund Account)								
	Total:					Total:			

Chairperson

(Signature)

Member(s)

(Signature)

Secretary

(Signature)

Officer In-charge (Finance and Accounts)

Balance Sheet as on 31st (Month) (Year) _____ (in rupees)

A/c Code	Liabilities	Schedule	Current Year As on	Previous Year As on	A/c Code	Assets	Schedule	Current Year As on	Previous Year As on
40.	Funds	I			43.	Fixed Assets	H		
40.1.	Capital Fund				43.1.	Gross Block at Cost			
	Add Excess of Income over Expenditure/less excess of Expenditure over Income					Less Cumulative depreciation			
40.2.	Other Funds (Specify)				42.2.	Net Block			
41.	Reserves	J			44.	Capital Work-in-progress	M		
8.	Loans	K			31.	Investments & Deposits	N		
8.1.	Government				31.1.	Investment			
8.2.	Others				31.2.	Deposits			
42.	Current Liabilities and provisions	L			33.	Loans and Advances	O		
					3.1.	Account with Government	S		
					45.	Sundry Debtors	P		
					36.	Cash and Bank Balances	Q		
					46.	Other Current Assets	R		
	Total					Total			
	Accounting Policies and Notes to	T							

Instructions:

- (1) The Schedules referred / referenced above shall be prepared by the Authority based on accounting principles followed by the State Government or by other regulatory authorities or as suggested by the Comptroller and Auditor General of India from time to time.
- (2) The Schedules referred to above shall form an integral part of the Income and Expenditure Account or the Balance Sheet, as the case may be.

Chairperson

(Signature)

Member(s)

(Signature)

Secretary

(Signature)

Officer In-charge (Finance and Accounts)

FORM 'P'
[See rule 39(1)]
ANNUAL REPORT TO BE PREPARED BY AUTHORITY

A. Introduction

- (i) Chairman's statement:
- (ii) Objectives:
- (iii) Important achievements:
- (iv) The year in review:
 - a. Landmark decisions:
 - b. Legislative work:
 - c. Outreach programme:
- (v) Capacity building:
- (vi) International engagements:
- (vii) Impact on:
 - a. Allottees:
 - b. Promoters:
 - c. Real Estate Agents:
 - d. Economy:

B. Registration of promoters and real estate agents under the Act:**I. In relation to Promoters**

Serial Number	Name of promoter	Address of promoter	Description of project for which registration has been issued	Fee paid	Registration Number
1	2	3	4	5	6

Date of issue of registration	Date on which registration expires	Date of extension of registration with period of extension	Remark
7	8	9	10

II. In relation to Real Estate Agents:

Serial Number	Name of Real Estate Agent	Address of Real Estate Agent	Registration Fee paid	Registration Number	Date of issue of registration certificate	Date on which registration certificate expires	Date and period of renewal of registration certificate	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9

C. Number of cases filed before the Authority and the adjudicating officer for settlement of disputes and number of cases disposed:

SI. No.	No. of cases pending in the last quarter with the Authority	No. of cases received during the quarter by the Authority	No. of cases disposed of by the Authority

SI. No.	No. of cases pending in the last quarter with the adjudicating officer	No. of cases received during the quarter by the adjudicating officer	No. of cases disposed of by the adjudicating officer

D. Statement on the periodical survey conducted by the Authority to monitor the compliance of the provisions of the Act by the promoters, allottees and real estate agents:

SI. No.	Survey conducted during the quarter with details	Observation of Authority	Remedial steps taken

E. Statement on steps taken to mitigate any non-compliance of the provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder by the promoters, allottees and real estate agents:

SI. No.	Subject	Steps taken	Results achieved

F. Statements on directions of the Authority and the penalty imposed for contraventions of the Act and the rules and regulations made thereunder and statement on interest and compensations ordered by the adjudicating officer:

SI. No.	Name of the promoter	Details of the directions issued by the Authority / adjudicating officer	Penalty / interest / compensations imposed	Whether paid

SI. No.	Name of the allottee	Details of the directions issued by the Authority / adjudicating officer	Penalty / interest / compensations imposed	Whether paid

SI. No.	Name of the real estate agent	Details of the directions issued by the Authority / adjudicating officer	Penalty / interest / compensations imposed	Whether paid

- G. Investigations and inquiries ordered by the Authority or the adjudicating officer: A brief narrative of investigations and inquiries taken up by the Authority or the adjudicating officers and references received from the competent authority or the State Government.
- H. Orders passed by the Authority and the adjudicating officer: A brief narrative of orders passed by the Authority or the adjudicating officers separately for where no offence is made out, and in case offence is proved, category-wise for each category of orders passed along with a tabular statement indicating the sections under which the order was passed and brief particulars of the orders.
- I. Execution of the orders of the Authority and imposition of penalties: (i) monetary penalties – details of recovery of penalty imposed, details of penalty imposed but not recovered, total number of matters and total amount of monetary penalty levied, total amount realized by resorting to rule 25; (ii) matters referred to court under section 59 – total number of matters referred to the court during the year, total number of matters disposed of by the court during the year, total number of matters pending with the court at the end of the year; (iii) matters referred to court for execution of order under section 40 – total number of matters referred to the court during the year, total number of matters disposed of by the court during the year, total number of matters pending with the court at the end of the year.
- J. Execution of the orders of the adjudicating officer and imposition of interest and compensation: (i) interest and compensations – details of interest and compensation imposed, details of interest and compensation imposed but not paid, total number of matters and total amount of interest and compensations imposed, total amount realized by resorting to rule 25; and (ii) matters referred to court for execution of order under section 40 – total number of matters referred to the court during the year, total number of matters disposed of by the court during the year, total number of matters pending with the court at the end of the year.
- K. Appeals:
- Number of appeals filed against the orders of the Authority or the adjudicating officer in the year:
 - Number of appeals pending at the beginning of the year:
 - Appeals filed during the year:
 - Number of appeals allowed by the Appellate Tribunal during the year:
 - Number of appeals disallowed by the Appellate Tribunal during the year:
 - Brief write up on the appeals allowed by the Appellate Tribunal:
- L. References received from the State Government under section 33: a brief narrative on references received from the State Government under section 33 providing for – number of references received during the year, number of references disposed of during the year, number of references pending at the end of the year.
- M. Advocacy measures under sub-section (3) of section 33: a brief narrative on activities undertaken under sub-section (3) of section 33 – (i) workshops, seminars and other interactions with public / experts / policy-makers / regulatory bodies on laws and policies relating to the real estate sector and for creating awareness on the same; (ii) papers and studies published for advocacy on laws and policies relating to the real

- estate sector and for creating awareness on the same; (iii) consultation papers published/placed on website of the Authority; (iv) analytical papers prepared and examined; (v) others.
- N. Administration and establishment matters: (i) report of the Secretary; (ii) composition of the Authority; (iii) details of Chairperson and Members appointed in the year and of those who demitted office (iv) details of adjudicating officers appointed in the year and those who demitted office; (v) organizational structure; (vi) a tabular statement containing information on personnel in the Authority, category-wise: sanctioned posts, posts filled up, vacancies, appointments made in the year etc.
- O. Experts and consultants engaged: details of number of experts and consultants appointed in the year and of those who demitted office.
- P. Employee welfare measures, if any, beyond the regular terms and conditions of employment, undertaken by the Authority.
- Q. Budget and Accounts: (i) budget estimates and revised estimates, under broad categories; (ii) receipts under broad categories in the Real Estate Regulatory Fund established under sub-section (1) of section 75; (iii) actual expenditure under broad categories; (iv) balance available in the Real Estate Regulatory Fund under sub-section (1) of section 75; (v) any other information.
- R. International cooperation: A brief narrative of international cooperation, if any, undertaken by the Authority.
- S. Capacity Building: A brief narrative of capacity building initiative undertaken including (i) number of employees (category wise and grade wise) trained in house with details of such programmes like content, duration and faculty; (ii) number of employees (category wise and grade wise) trained by outside institutions (separately within Indian and outside India) with details of names of institutions and duration also to specify whether training was under internship, exchange programme, fellowships, study leave, special arrangements with foreign universities/institutions; (iii) expenditure of capacity building initiatives.
- T. Ongoing programmes: A brief narrative of ongoing programmes.
- U. Right to Information: A brief narrative of (i) number of applications received by CPIO/ACPIO seeking information under RTI Act; (ii) Number of applications for which information has been provided by CPIO; (iii) number of applications pending with CPIO; (iv) number of appeals filed before the First Appellate Authority against the order of CPIO; (v) number of appeals which have been disposed of by First Appellate Authority; (vi) number of appeals pending with the First Appellate Authority; (vii) number of applications/appeals not disposed of in the stipulated time frame.

Chairperson (Signature)

Member(s) (Signature)

ANNEXURE**[See rule 8]****AGREEMENT FOR SALE**

This Agreement for Sale ("**Agreement**") executed on this _____ (Date) day of _____ (Month), 20____,

By and Between**[If the promoter is a company]**

_____, (CIN no. _____), a company incorporated under the provisions of the Companies Act, [1956 or 2013, as the case may be], having its registered office at _____ and its corporate office at _____ (PAN - _____), represented by its authorized signatory _____ (Aadhar no. _____) authorized *vide* board resolution dated _____ hereinafter referred to as the "**Promoter**" (which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof be deemed to mean and include its successor-in-interest, and permitted assigns).

[OR]**[If the promoter is a Partnership firm]**

_____, a partnership firm registered under the Indian Partnership Act, 1932, having its principal place of business at _____, (PAN _____), represented by its authorized Partner _____, (Aadhar no. _____) authorized *vide* _____, hereinafter referred to as the "**Promoter**" (which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof be deemed to mean and include the partners or partner for the time being of the said firm, the survivor or survivors of them and their heirs, executors and administrators of the last surviving partner and his/her/their assigns).

[OR]**[If the promoter is an Individual]**

Mr. / Ms. _____, (Aadhar no. _____) son / daughter of _____, aged about _____, residing at _____, (PAN _____), hereinafter called the "**Promoter**" (which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof be deemed to mean and include his/her heirs, executors, administrators, successors-in-interest and permitted assigns).

AND**[If the Allottee is a company]**

_____, (CIN no. _____) a company incorporated under the provisions of the Companies Act, [1956 or 2013, as the case may be], having its registered office at _____, (PAN _____), represented by its authorized signatory, _____, (Aadhar no. _____) duly authorized *vide* board resolution dated _____, hereinafter referred to as the "**Allottee**" (which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof be deemed to mean and include its successor-in-interest, and permitted assigns).

[OR]**[If the Allottee is a Partnership]**

_____, a partnership firm registered under the Indian Partnership Act, 1932, having its principal place of business at _____, (PAN _____), represented by its authorized partner, _____, (Aadhar no. _____) authorized *vide* _____, hereinafter referred to as the "**Allottee**" (which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof be deemed to mean and include the partners or partner for the time being of the said firm, the survivor or survivors of them and their heirs, executors and administrators of the last surviving partner and his/her/their assigns).

[OR]

[If the Allottee is an Individual]

Mr. / Ms. _____, (Aadhar no. _____) son / daughter of _____, aged about _____, residing at _____, (PAN _____), hereinafter called the “**Allottee**” (which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof be deemed to mean and include his/her heirs, executors, administrators, successors-in-interest and permitted assigns).

[OR]

[If the Allottee is a HUF]

Mr. _____, (Aadhar no. _____) son of _____ aged about _____ for self and as the Karta of the Hindu Joint Mitakshara Family known as _____ HUF, having its place of business / residence at _____, (PAN _____), hereinafter referred to as the “**Allottee**” (which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof be deemed to mean and the members or member for the time being of the said HUF, and their respective heirs, executors, administrators and permitted assigns).

[Please insert details of other allottee(s), in case of more than one allottee]

The Promoter and Allottee shall hereinafter collectively be referred to as the “**Parties**” and individually as a “**Party**”.

DEFINITIONS:

For the purpose of this Agreement for Sale, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Act” means the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016);
- (b) “appropriate Government” means the State Government;
- (c) “Rules” means the Bihar State Real Estate (Regulation and Development) (General) Rules, 2017 made under the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2017;
- (d) “Regulations” means the Regulations made under the Real Estate (Regulation and Development Act, 2017;
- (e) “section” means a section of the Act.

WHEREAS:

- A. The Promoter is the absolute and lawful owner of [khasra nos./ survey nos.] [Please insert land details as per local laws] _____ totally admeasuring _____ square meters situated at _____ in Tehsil & District _____ (“**Said Land**”) vide sale deed(s) dated _____ registered as documents no. _____ at the office of the Sub-Registrar;

[OR]

_____ (“Owner”) is the absolute and lawful owner of [khasra nos./ survey nos.] [Please insert land details as per local laws] _____ totally admeasuring _____ square meters situated at _____ in Tehsil & District _____ (“**Said Land**”) vide sale deed(s) dated _____ registered as documents no. _____ at the office of the Sub-Registrar. The Owner and the Promoter have entered into a [collaboration / development / joint development] agreement dated _____ registered as document no. _____ at the office of the Sub-Registrar;

- B. The Said Land is earmarked for the purpose of building a [commercial/residential/any other purpose] project, comprising _____ multistoried apartment buildings and [insert any other components of the Projects] and the said project shall be known as ‘_____’, (“**Project**”);

[OR]

The Said Land is earmarked for the purpose of plotted development of a [commercial/residential/any other purpose] project, comprising _____ plots and [insert any other components of the Projects] and the said project shall be known as ‘_____’, (“**Project**”);

Provided that where land is earmarked for any institutional development the same shall be used for those purposes only and no commercial/residential development shall be permitted unless it is a part of the plan approved by the competent authority;

- C. The Promoter is fully competent to enter into this Agreement and all the legal formalities with respect to the right, title and interest of the Promoter regarding the Said Land on which Project is to be constructed have been completed;
- D. The _____ [Please insert the name of the concerned competent authority] has granted the commencement certificate to develop the Project vide approval dated _____ bearing registration no. _____;
- E. The Promoter has obtained the final layout plan, sanctioned plan, specifications and approvals for the Project and also for the apartment, plot or building, as the case may be, from _____.
- _____ [Please insert the name of the concerned competent authority]. The Promoter agrees and undertakes that it shall not make any changes to these approved plans except in strict compliance with section 14 of the Act and other laws as applicable;
- F. The Promoter has registered the Project under the provisions of the Act with the _____ (Name of the State) Real Estate Regulatory Authority at _____ on _____ under registration no. _____;
- G. The Allottee had applied for an apartment in the Project vide application no. _____ dated _____ and has been allotted apartment no. _____ having carpet area of _____ square feet, type _____, on _____ floor in [tower/block/building] no. _____ (**"Building"**) along with garage/covered parking no. _____ admeasuring _____ square feet in the _____ [Please insert the location of the garage/covered parking], as permissible under the applicable law and of *pro rata* share in the common areas (**"Common Areas"**) as defined under clause (n) of Section 2 of the Act (hereinafter referred to as the **"Apartment"** more particularly described in **Schedule A** and the floor plan of the apartment is annexed hereto and marked as **Schedule B**);
- [OR]
- The Allottee had applied for a plot in the Project vide application no. _____ dated _____ and has been allotted plot no. _____ having area of _____ square feet and plot for garage/covered parking admeasuring _____ square feet (if applicable) in the _____ [Please insert the location of the garage/covered parking], as permissible under the applicable law and of *pro rata* share in the common areas (**"Common Areas"**) as defined under clause (n) of Section 2 of the Act (hereinafter referred to as the **"Plot"** more particularly described in **Schedule A**);
- H. The Parties have gone through all the terms and conditions set out in this Agreement and understood the mutual rights and obligations detailed herein;
- I. _____ [Please enter any additional disclosures/details];
- J. The Parties hereby confirm that they are signing this Agreement with full knowledge of all the laws, rules, regulations, notifications, etc., applicable to the Project;
- K. The Parties, relying on the confirmations, representations and assurances of each other to faithfully abide by all the terms, conditions and stipulations contained in this Agreement and all applicable laws, are now willing to enter into this Agreement on the terms and conditions appearing hereinafter;
- L. In accordance with the terms and conditions set out in this Agreement and as mutually agreed upon by and between the Parties, the Promoter hereby agrees to sell and the Allottee hereby agrees to purchase the [Apartment/Plot] and the garage/covered parking (if applicable) as specified in para G.

NOW THEREFORE, in consideration of the mutual representations, covenants, assurances, promises and agreements contained herein and other good and valuable consideration, the Parties agree as follows:

1. TERMS:

- 1.1 Subject to the terms and conditions as detailed in this Agreement, the Promoter agrees to sell to the Allottee and the Allottee hereby agrees to purchase, the [Apartment/Plot] as specified in para G.
- 1.2 The Total Price for the [Apartment/Plot] based on the carpet area is Rs. _____ (Rupees _____ only ("**Total Price**") (Give break up and description):

Block/Building/Tower no. ____	Rate of Apartment per square feet*
Apartment no. _____	
Type _____	
Floor _____	
Total price (in rupees)	

*Provide break up of the amounts such as cost of apartment, cost of exclusive balcony or verandah areas, cost of exclusive open terrace areas, proportionate cost of common areas, preferential location charges, taxes, maintenance charges as per para 11 etc., if/as applicable.

[AND] [if/as applicable]

Garage/Covered parking - 1	Price for 1
Garage/Covered parking - 2	Price for 2
Total price (in rupees)	

[OR]

Plot no. _____	Rate of Plot per square feet*
Type _____	
Total price (in rupees)	

*Provide break up of the amounts such as cost of plot, proportionate cost of common areas, taxes, maintenance charges as per para 11 etc., if/as applicable.

[AND] [if/as applicable]

Garage/Covered parking - 1	Price for 1
Garage/Covered parking - 2	Price for 2
Total price (in rupees)	_____

Explanation:

- (i) The Total Price above includes the booking amount paid by the allottee to the Promoter towards the [Apartment/Plot];
- (ii) The Total Price above includes Taxes (consisting of tax paid or payable by the Promoter by way of Value Added Tax, Service Tax, and Cess or any other similar taxes which may be levied, in connection with the construction of the Project payable by the Promoter, by whatever name called) up to the date of handing over the possession of the apartment/plot to the allottee and the project to the association of allottees or the competent authority, as the case may be, after obtaining the completion certificate:
 Provided that in case there is any change / modification in the taxes, the subsequent amount payable by the allottee to the promoter shall be increased/reduced based on such change / modification:
 Provided further that if there is any increase in the taxes after the expiry of the scheduled date of completion of the project as per registration with the

Authority, which shall include the extension of registration, if any, granted to the said project by the Authority, as per the Act, the same shall not be charged from the allottee;

- (iii) The Promoter shall periodically intimate in writing to the Allottee, the amount payable as stated in (i) above and the Allottee shall make payment demanded by the Promoter within the time and in the manner specified therein. In addition, the Promoter shall provide to the Allottee the details of the taxes paid or demanded along with the acts/rules/notifications together with dates from which such taxes/levies etc. have been imposed or become effective;
 - (iv) The Total Price of [Apartment/Plot] includes recovery of price of land, construction of [not only the Apartment but also] the Common Areas, internal development charges, external development charges, taxes, cost of providing electric wiring, electrical connectivity to the apartment, lift, water line and plumbing, finishing with paint, marbles, tiles, doors, windows, fire detection and firefighting equipment in the common areas, maintenance charges as per para 11 etc. and includes cost for providing all other facilities, amenities and specifications to be provided within the [Apartment/Plot] and the Project.
- 1.3 The Total Price is escalation-free, save and except increases which the Allottee hereby agrees to pay, due to increase on account of development charges payable to the competent authority and/or any other increase in charges which may be levied or imposed by the competent authority from time to time. The Promoter undertakes and agrees that while raising a demand on the Allottee for increase in development charges, cost/charges imposed by the competent authorities, the Promoter shall enclose the said notification/order/rule/regulation to that effect along with the demand letter being issued to the Allottee, which shall only be applicable on subsequent payments. Provided that if there is any new imposition or increase of any development charges after the expiry of the scheduled date of completion of the project as per registration with the Authority, which shall include the extension of registration, if any, granted to the said project by the Authority, as per the Act, the same shall not be charged from the allottee.
- 1.4 The Allottee(s) shall make the payment as per the payment plan set out in **Schedule C** (“**Payment Plan**”).
- 1.5 The Promoter may allow, in its sole discretion, a rebate for early payments of installments payable by the Allottee by discounting such early payments @ _ % per annum for the period by which the respective installment has been preponed. The provision for allowing rebate and such rate of rebate shall not be subject to any revision/withdrawal, once granted to an Allottee by the Promoter.
- 1.6 It is agreed that the Promoter shall not make any additions and alterations in the sanctioned plans, layout plans and specifications and the nature of fixtures, fittings and amenities described herein at Schedule ‘D’ and Schedule ‘E’ (which shall be in conformity with the advertisement, prospectus etc., on the basis of which sale is effected) in respect of the apartment, plot or building, as the case may be, without the previous written consent of the Allottee as per the provisions of the Act. Provided that the Promoter may make such minor additions or alterations as may be required by the Allottee, or such minor changes or alterations as per the provisions of the Act.
- 1.7 [*Applicable in case of an apartment*] The Promoter shall confirm to the final carpet area that has been allotted to the Allottee after the construction of the Building is complete and the occupancy certificate* is granted by the competent authority, by furnishing details of the changes, if any, in the carpet area. The total price payable for the carpet area shall be recalculated upon confirmation by the Promoter. If there is reduction in the carpet area then the Promoter shall refund the excess money paid by Allottee within forty-five days with annual interest at the rate prescribed in the Rules,

from the date when such an excess amount was paid by the Allottee. If there is any increase in the carpet area, of the apartment, allotted to Allottee, the Promoter may demand that from the Allottee as per the next milestone of the Payment Plan as provided in **Schedule C**. All these monetary adjustments shall be made at the same rate per square feet as agreed in para 1.2 of this Agreement.

1.8 Subject to para 9.3 the Promoter agrees and acknowledges, the Allottee shall have the right to the [Apartment/Plot] as mentioned below:

- (i) The Allottee shall have exclusive ownership of the [Apartment/Plot];
- (ii) The Allottee shall also have undivided proportionate share in the Common Areas. Since the share / interest of Allottee in the Common Areas is undivided and cannot be divided or separated, the Allottee shall use the Common Areas along with other occupants, maintenance staff etc., without causing any inconvenience or hindrance to them. It is clarified that the promoter shall hand over the common areas to the association of allottees after duly obtaining the completion certificate from the competent authority as provided in the Act;
- (iii) That the computation of the price of the [Apartment/Plot] includes recovery of price of land, construction of [not only the Apartment but also] the Common Areas, internal development charges, external development charges, taxes, cost of providing electric wiring, electrical connectivity to the apartment, lift, water line and plumbing, finishing with paint, marbles, tiles, doors, windows, fire detection and firefighting equipment in the common areas, maintenance charges as per para 11 etc. and includes cost for providing all other facilities, amenities and specifications to be provided within the [Apartment/Plot] and the Project;
- (iv) The Allottee has the right to visit the project site to assess the extent of development of the project and his apartment/plot, as the case may be.

It is made clear by the Promoter and the Allottee agrees that the [Apartment/Plot] along with _ garage/covered parking shall be treated as a single indivisible unit for all purposes. It is agreed that the Project is an independent, self-contained Project covering the said Land and is not a part of any other project or zone and shall not form a part of and/or linked/combined with any other project in its vicinity or otherwise except for the purpose of integration of infrastructure for the benefit of the Allottee. It is clarified that Project's facilities and amenities shall be available only for use and enjoyment of the Allottees of the Project.

The Promoter agrees to pay all outgoings before transferring the physical possession of the apartment to the Allottees, which it has collected from the Allottees, for the payment of outgoings (including land cost, ground rent, municipal or other local taxes, charges for water or electricity, maintenance charges, including mortgage loan and interest on mortgages or other encumbrances and such other liabilities payable to competent authorities, banks and financial institutions, which are related to the project). If the Promoter fails to pay all or any of the outgoings collected by it from the Allottees or any liability, mortgage loan and interest thereon before transferring the apartment to the Allottees, the Promoter agrees to be liable, even after the transfer of the property, to pay such outgoings and penal charges, if any, to the authority or person to whom they are payable and be liable for the cost of any legal proceedings which may be taken therefor by such authority or person.

The Allottee has paid a sum of Rs. _____ (Rupees _____ only) as booking amount being part payment towards the Total Price of the [Apartment/Plot] at the time of application the receipt of which the Promoter hereby acknowledges and the Allottee hereby agrees to pay the remaining price of the [Apartment/Plot] as prescribed in the Payment Plan [**Schedule C**] as may be demanded by the Promoter within the time and in the manner specified therein:

Provided that if the allottee delays in payment towards any amount which is payable, he shall be liable to pay interest at the rate prescribed in the Rules.

2. MODE OF PAYMENT:

Subject to the terms of the Agreement and the Promoter abiding by the construction milestones, the Allottee shall make all payments, on written demand by the Promoter, within the stipulated time as mentioned in the Payment Plan [**Schedule C**] through A/c Payee cheque/demand draft/bankers cheque or online payment (as applicable) in favour of '_____' payable at _____.

3. COMPLIANCE OF LAWS RELATING TO REMITTANCES:

3.1 The Allottee, if resident outside India, shall be solely responsible for complying with the necessary formalities as laid down in Foreign Exchange Management Act, 1999, Reserve Bank of India Act, 1934 and the Rules and Regulations made thereunder or any statutory amendment(s) modification(s) made thereof and all other applicable laws including that of remittance of payment acquisition/sale/transfer of immovable properties in India etc. and provide the Promoter with such permission, approvals which would enable the Promoter to fulfill its obligations under this Agreement. Any refund, transfer of security, if provided in terms of the Agreement shall be made in accordance with the provisions of Foreign Exchange Management Act, 1999 or the statutory enactments or amendments thereof and the Rules and Regulations of the Reserve Bank of India or any other applicable law. The Allottee understands and agrees that in the event of any failure on his/her part to comply with the applicable guidelines issued by the Reserve Bank of India, he/she may be liable for any action under the Foreign Exchange Management Act, 1999 or other laws as applicable, as amended from time to time.

3.2 The Promoter accepts no responsibility in regard to matters specified in para 3.1 above. The Allottee shall keep the Promoter fully indemnified and harmless in this regard. Whenever there is any change in the residential status of the Allottee subsequent to the signing of this Agreement, it shall be the sole responsibility of the Allottee to intimate the same in writing to the Promoter immediately and comply with necessary formalities if any under the applicable laws. The Promoter shall not be responsible towards any third party making payment/remittances on behalf of any Allottee and such third party shall not have any right in the application/allotment of the said apartment applied for herein in any way and the Promoter shall be issuing the payment receipts in favour of the Allottee only.

4. ADJUSTMENT/APPROPRIATION OF PAYMENTS:

The Allottee authorizes the Promoter to adjust/appropriate all payments made by him/her under any head(s) of dues against lawful outstanding of the allottee against the [Apartment/Plot], if any, in his/her name and the Allottee undertakes not to object/demand/direct the Promoter to adjust his payments in any manner.

5. TIME IS ESSENCE:

The Promoter shall abide by the time schedule for completing the project as disclosed at the time of registration of the project with the Authority and towards handing over the [Apartment/Plot] to the Allottee and the common areas to the association of allottees or the competent authority, as the case may be.

6. CONSTRUCTION OF THE PROJECT/ APARTMENT:

The Allottee has seen the proposed layout plan, specifications, amenities and facilities of the [Apartment/Plot] and accepted the floor plan, payment plan and the specifications, amenities and facilities [annexed along with this Agreement] which has been approved by the competent authority, as represented by the Promoter. The Promoter shall develop the Project in accordance with the said layout plans, floor plans and specifications, amenities and facilities. Subject to the terms in this Agreement, the Promoter undertakes to strictly abide by such plans approved by the competent Authorities and shall also strictly abide by the bye-laws, FAR and density

norms and provisions prescribed by the____[Please insert the relevant State laws] and shall not have an option to make any variation /alteration / modification in such plans, other than in the manner provided under the Act, and breach of this term by the Promoter shall constitute a material breach of the Agreement.

7. POSSESSION OF THE APARTMENT/PLOT:

7.1 Schedule for possession of the said [Apartment/Plot] - The Promoter agrees and understands that timely delivery of possession of the [Apartment/Plot] to the allottee and the common areas to the association of allottees or the competent authority, as the case may be, is the essence of the Agreement. The Promoter assures to hand over possession of the [Apartment/Plot] along with ready and complete common areas with all specifications, amenities and facilities of the project in place on_____, unless there is delay or failure due to war, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature affecting the regular development of the real estate project ("Force Majeure"). If, however, the completion of the Project is delayed due to the Force Majeure conditions then the Allottee agrees that the Promoter shall be entitled to the extension of time for delivery of possession of the [Apartment/Plot], provided that such Force Majeure conditions are not of a nature which make it impossible for the contract to be implemented. The Allottee agrees and confirms that, in the event it becomes impossible for the Promoter to implement the project due to Force Majeure conditions, then this allotment shall stand terminated and the Promoter shall refund to the Allottee the entire amount received by the Promoter from the allotment within 45 days from that date. The promoter shall intimate the allottee about such termination at least thirty days prior to such termination. After refund of the money paid by the Allottee, the Allottee agrees that he/ she shall not have any rights, claims etc. against the Promoter and that the Promoter shall be released and discharged from all its obligations and liabilities under this Agreement.

7.2 Procedure for taking possession - The Promoter, upon obtaining the occupancy certificate* from the competent authority shall offer in writing the possession of the [Apartment/Plot], to the Allottee in terms of this Agreement to be taken within two months from the date of issue of occupancy certificate. [Provided that, in the absence of local law, the conveyance deed in favour of the allottee shall be carried out by the promoter within 3 months from the date of issue of occupancy certificate]. The Promoter agrees and undertakes to indemnify the Allottee in case of failure of fulfillment of any of the provisions, formalities, documentation on part of the Promoter. The Allottee, after taking possession, agree(s) to pay the maintenance charges as determined by the Promoter/association of allottees, as the case may be after the issuance of the completion certificate for the project. The promoter shall hand over the occupancy certificate of the apartment/plot, as the case may be, to the allottee at the time of conveyance of the same.

7.3 Failure of Allottee to take Possession of [Apartment/Plot] - Upon receiving a written intimation from the Promoter as per para 7.2, the Allottee shall take possession of the [Apartment/Plot] from the Promoter by executing necessary indemnities, undertakings and such other documentation as prescribed in this Agreement, and the Promoter shall give possession of the [Apartment/Plot] to the allottee. In case the Allottee fails to take possession within the time provided in para 7.2, such Allottee shall continue to be liable to pay maintenance charges as specified in para 7.2.

7.4 Possession by the Allottee - After obtaining the occupancy certificate* and handing over physical possession of the [Apartment/Plot] to the Allottees, it shall be the responsibility of the Promoter to hand over the necessary documents and plans, including common areas, to the association of Allottees or the competent authority, as the case may be, as per the local laws. [Provided that, in the absence of any local law, the promoter shall handover the necessary documents and plans, including common

areas, to the association of allottees or the competent authority, as the case may be, within thirty days after obtaining the completion certificate].

7.5 Cancellation by Allottee – The Allottee shall have the right to cancel/withdraw his allotment in the Project as provided in the Act:

Provided that where the allottee proposes to cancel/withdraw from the project without any fault of the promoter, the promoter herein is entitled to forfeit the booking amount paid for the allotment. The balance amount of money paid by the allottee shall be returned by the promoter to the allottee within 45 days of such cancellation.

7.6 Compensation – The Promoter shall compensate the Allottee in case of any loss caused to him due to defective title of the land, on which the project is being developed or has been developed, in the manner as provided under the Act and the claim for interest and compensation under this provision shall not be barred by limitation provided under any law for the time being in force.

Except for occurrence of a Force Majeure event, if the promoter fails to complete or is unable to give possession of the [Apartment/Plot] (i) in accordance with the terms of this Agreement, duly completed by the date specified in para 7.1; or (ii) due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act; or for any other reason; the Promoter shall be liable, on demand to the allottees, in case the Allottee wishes to withdraw from the Project, without prejudice to any other remedy available, to return the total amount received by him in respect of the [Apartment/Plot], with interest at the rate prescribed in the Rules including compensation in the manner as provided under the Act within forty-five days of it becoming due. Provided that where if the Allottee does not intend to withdraw from the Project, the Promoter shall pay the Allottee interest at the rate prescribed in the Rules for every month of delay, till the handing over of the possession of the [Apartment/Plot], which shall be paid by the promoter to the allottee within forty-five days of it becoming due.

8. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF THE PROMOTER:

The Promoter hereby represents and warrants to the Allottee as follows:

- (i) The [Promoter] has absolute, clear and marketable title with respect to the said Land; the requisite rights to carry out development upon the said Land and absolute, actual, physical and legal possession of the said Land for the Project;
- (ii) The Promoter has lawful rights and requisite approvals from the competent Authorities to carry out development of the Project;
- (iii) There are no encumbrances upon the said Land or the Project;
[in case there are any encumbrances on the land provide details of such encumbrances including any rights, title, interest and name of party in or over such land]
- (iv) There are no litigations pending before any Court of law or Authority with respect to the said Land, Project or the [Apartment/Plot];
- (v) All approvals, licenses and permits issued by the competent authorities with respect to the Project, said Land and [Apartment/Plot] are valid and subsisting and have been obtained by following due process of law. Further, the Promoter has been and shall, at all times, remain to be in compliance with all applicable laws in relation to the Project, said Land, Building and [Apartment/Plot] and common areas;
- (vi) The Promoter has the right to enter into this Agreement and has not committed or omitted to perform any act or thing, whereby the right, title and interest of the Allottee created herein, may prejudicially be affected;
- (vii) The Promoter has not entered into any agreement for sale and/or development agreement or any other agreement / arrangement with any person or party with respect to the said Land, including the Project and the said [Apartment/Plot] which will, in any manner, affect the rights of Allottee under this Agreement;

- (viii) The Promoter confirms that the Promoter is not restricted in any manner whatsoever from selling the said [Apartment/Plot] to the Allottee in the manner contemplated in this Agreement;
- (ix) At the time of execution of the conveyance deed the Promoter shall handover lawful, vacant, peaceful, physical possession of the [Apartment/Plot] to the Allottee and the common areas to the association of allottees or the competent authority, as the case may be;
- (x) The Schedule Property is not the subject matter of any HUF and that no part thereof is owned by any minor and/or no minor has any right, title and claim over the Schedule Property;
- (xi) The Promoter has duly paid and shall continue to pay and discharge all governmental dues, rates, charges and taxes and other monies, levies, impositions, premiums, damages and/or penalties and other outgoings, whatsoever, payable with respect to the said project to the competent Authorities till the completion certificate has been issued and possession of apartment, plot or building, as the case may be, along with common areas (equipped with all the specifications, amenities and facilities) has been handed over to the allottee and the association of allottees or the competent authority, as the case may be;
- (xii) No notice from the Government or any other local body or authority or any legislative enactment, government ordinance, order, notification (including any notice for acquisition or requisition of the said property) has been received by or served upon the Promoter in respect of the said Land and/or the Project.

9. EVENTS OF DEFAULTS AND CONSEQUENCES:

9.1 Subject to the Force Majeure clause, the Promoter shall be considered under a condition of Default, in the following events:

- (i) Promoter fails to provide ready to move in possession of the [Apartment/Plot] to the Allottee within the time period specified in para 7.1 or fails to complete the project within the stipulated time disclosed at the time of registration of the project with the Authority. For the purpose of this para, 'ready to move in possession' shall mean that the apartment shall be in a habitable condition which is complete in all respects including the provision of all specifications, amenities and facilities, as agreed to between the parties, and for which occupation certificate and completion certificate, as the case may be, has been issued by the competent authority;
- (ii) Discontinuance of the Promoter's business as a developer on account of suspension or revocation of his registration under the provisions of the Act or the rules or regulations made thereunder.

9.2 In case of Default by Promoter under the conditions listed above, Allottee is entitled to the following:

- (i) Stop making further payments to Promoter as demanded by the Promoter. If the Allottee stops making payments, the Promoter shall correct the situation by completing the construction milestones and only thereafter the Allottee be required to make the next payment without any interest; or
- (ii) The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate prescribed in the Rules within forty-five days of receiving the termination notice:

Provided that where an Allottee does not intend to withdraw from the project or terminate the Agreement, he shall be paid, by the promoter, interest at the rate prescribed in the Rules, for every month of delay till the handing over of the possession of the [Apartment/Plot], which shall be paid by the promoter to

the allottee within forty-five days of it becoming due.

- 9.3 The Allottee shall be considered under a condition of Default, on the occurrence of the following events:

- (i) In case the Allottee fails to make payments for __ consecutive demands made by the Promoter as per the Payment Plan annexed hereto, despite having been issued notice in that regard the allottee shall be liable to pay interest to the promoter on the unpaid amount at the rate prescribed in the Rules;
- (ii) In case of Default by Allottee under the condition listed above continues for a period beyond _ consecutive months after notice from the Promoter in this regard, the Promoter may cancel the allotment of the [Apartment/Plot] in favour of the Allottee and refund the money paid to him by the allottee by deducting the booking amount and the interest liabilities and this Agreement shall thereupon stand terminated. Provided that the promoter shall intimate the allottee about such termination at least thirty days prior to such termination.

10. CONVEYANCE OF THE SAID APARTMENT:

The Promoter, on receipt of Total Price of the [Apartment/Plot] as per para 1.2 under the Agreement from the Allottee, shall execute a conveyance deed and convey the title of the [Apartment/Plot] together with proportionate indivisible share in the Common Areas within 3 months from the date of issuance of the occupancy certificate* and the completion certificate, as the case may be, to the allottee. [Provided that, in the absence of local law, the conveyance deed in favour of the allottee shall be carried out by the promoter within 3 months from the date of issue of occupancy certificate]. However, in case the Allottee fails to deposit the stamp duty and/or registration charges within the period mentioned in the notice, the Allottee authorizes the Promoter to withhold registration of the conveyance deed in his/her favour till payment of stamp duty and registration charges to the Promoter is made by the Allottee.

11. MAINTENANCE OF THE SAID BUILDING / APARTMENT / PROJECT:

The Promoter shall be responsible to provide and maintain essential services in the Project till the taking over of the maintenance of the project by the association of allottees upon the issuance of the completion certificate of the project. The cost of such maintenance has been included in the Total Price of the [Apartment/Plot].

12. DEFECT LIABILITY:

It is agreed that in case any structural defect or any other defect in workmanship, quality or provision of services or any other obligations of the Promoter as per the agreement for sale relating to such development is brought to the notice of the Promoter within a period of 5 (five) years by the Allottee from the date of handing over possession, it shall be the duty of the Promoter to rectify such defects without further charge, within 30 (thirty) days, and in the event of Promoter's failure to rectify such defects within such time, the aggrieved Allottees shall be entitled to receive appropriate compensation in the manner as provided under the Act.

13. RIGHT TO ENTER THE APARTMENT FOR REPAIRS:

The Promoter/maintenance agency/association of allottees shall have rights of unrestricted access of all Common Areas, garages/covered parking and parking spaces for providing necessary maintenance services and the Allottee agrees to permit the association of allottees and/or maintenance agency to enter into the [Apartment/Plot] or any part thereof, after due notice and during the normal working hours, unless the circumstances warrant otherwise, with a view to set right any defect.

14. USAGE:

Use of Basement and Service Areas: The basement(s) and service areas, if any, as located within the

_____ (*project name*), shall be earmarked for purposes such as parking spaces and services including but not limited to electric sub-station,

transformer, DG set rooms, underground water tanks, pump rooms, maintenance and service rooms, fire fighting pumps and equipment's etc. and other permitted uses as per sanctioned plans. The Allottee shall not be permitted to use the services areas and the basements in any manner whatsoever, other than those earmarked as parking spaces, and the same shall be reserved for use by the association of allottees formed by the Allottees for rendering maintenance services.

15. GENERAL COMPLIANCE WITH RESPECT TO THE APARTMENT:

15.1 Subject to para 12 above, the Allottee shall, after taking possession, be solely responsible to maintain the [Apartment/Plot] at his/her own cost, in good repair and condition and shall not do or suffer to be done anything in or to the Building, or the [Apartment/Plot], or the staircases, lifts, common passages, corridors, circulation areas, atrium or the compound which may be in violation of any laws or rules of any authority or change or alter or make additions to the [Apartment/Plot] and keep the [Apartment/Plot], its walls and partitions, sewers, drains, pipe and appurtenances thereto or belonging thereto, in good and tenantable repair and maintain the same in a fit and proper condition and ensure that the support, shelter etc. of the Building is not in any way damaged or jeopardized.

15.2 The Allottee further undertakes, assures and guarantees that he/she would not put any sign-board / name-plate, neon light, publicity material or advertisement material etc. on the face / facade of the Building or anywhere on the exterior of the Project, buildings therein or Common Areas. The Allottees shall also not change the colour scheme of the outer walls or painting of the exterior side of the windows or carry out any change in the exterior elevation or design. Further the Allottee shall not store any hazardous or combustible goods in the [Apartment/Plot] or place any heavy material in the common passages or staircase of the Building. The Allottee shall also not remove any wall, including the outer and load bearing wall of the [Apartment/Plot].

15.3 The Allottee shall plan and distribute its electrical load in conformity with the electrical systems installed by the Promoter and thereafter the association of allottees and/or maintenance agency appointed by association of allottees. The Allottee shall be responsible for any loss or damages arising out of breach of any of the aforesaid conditions.

16. COMPLIANCE OF LAWS, NOTIFICATIONS ETC. BY PARTIES:

The Parties are entering into this Agreement for the allotment of a [Apartment/Plot] with the full knowledge of all laws, rules, regulations, notifications applicable to the project.

17. ADDITIONAL CONSTRUCTIONS:

The Promoter undertakes that it has no right to make additions or to put up additional structure(s) anywhere in the Project after the building plan, layout plan, sanction plan and specifications, amenities and facilities has been approved by the competent authority(ies) and disclosed, except for as provided in the Act.

18. PROMOTER SHALL NOT MORTGAGE OR CREATE A CHARGE:

After the Promoter executes this Agreement he shall not mortgage or create a charge on the [Apartment/Plot/Building] and if any such mortgage or charge is made or created then notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, such mortgage or charge shall not affect the right and interest of the Allottee who has taken or agreed to take such [Apartment/Plot/Building].

19. APARTMENT OWNERSHIP ACT (OF THE RELEVANT STATE):

The Promoter has assured the Allottees that the project in its entirety is in accordance with the provisions of the _____ [Please insert the name of the state Apartment Ownership] Act). The Promoter showing compliance of various laws/regulations as applicable in _____.

20. BINDING EFFECT:

Forwarding this Agreement to the Allottee by the Promoter does not create a binding obligation on the part of the Promoter or the Allottee until, firstly, the Allottee signs and delivers this Agreement with all the schedules along with the payments due as stipulated in the Payment Plan within 30 (thirty) days from the date of receipt by the Allottee and secondly, appears for registration of the same before the concerned Sub-Registrar _____ (specify the address of the Sub-Registrar) as and when intimated by the Promoter. If the Allottee(s) fails to execute and deliver to the Promoter this Agreement within 30 (thirty) days from the date of its receipt by the Allottee and/or appear before the Sub-Registrar for its registration as and when intimated by the Promoter, then the Promoter shall serve a notice to the Allottee for rectifying the default, which if not rectified within 30 (thirty) days from the date of its receipt by the Allottee, application of the Allottee shall be treated as cancelled and all sums deposited by the Allottee in connection therewith including the booking amount shall be returned to the Allottee without any interest or compensation whatsoever.

21. ENTIRE AGREEMENT:

This Agreement, along with its schedules, constitutes the entire Agreement between the Parties with respect to the subject matter hereof and supersedes any and all understandings, any other agreements, allotment letter, correspondences, arrangements whether written or oral, if any, between the Parties in regard to the said apartment/plot/building, as the case may be.

22. RIGHT TO AMEND:

This Agreement may only be amended through written consent of the Parties.

23. PROVISIONS OF THIS AGREEMENT APPLICABLE ON ALLOTTEE / SUBSEQUENT ALLOTTEES:

It is clearly understood and so agreed by and between the Parties hereto that all the provisions contained herein and the obligations arising hereunder in respect of the [Apartment/Plot] and the Project shall equally be applicable to and enforceable against and by any subsequent Allottees of the [Apartment/Plot], in case of a transfer, as the said obligations go along with the [Apartment/Plot] for all intents and purposes.

24. WAIVER NOT A LIMITATION TO ENFORCE:

- 24.1 The Promoter may, at its sole option and discretion, without prejudice to its rights as set out in this Agreement, waive the breach by the Allottee in not making payments as per the Payment Plan [Annexure C] including waiving the payment of interest for delayed payment. It is made clear and so agreed by the Allottee that exercise of discretion by the Promoter in the case of one Allottee shall not be construed to be a precedent and /or binding on the Promoter to exercise such discretion in the case of other Allottees.
- 24.2 Failure on the part of the Parties to enforce at any time or for any period of time the provisions hereof shall not be construed to be a waiver of any provisions or of the right thereafter to enforce each and every provision.

25. SEVERABILITY:

If any provision of this Agreement shall be determined to be void or unenforceable under the Act or the Rules and Regulations made thereunder or under other applicable laws, such provisions of the Agreement shall be deemed amended or deleted in so far as reasonably inconsistent with the purpose of this Agreement and to the extent necessary to conform to Act or the Rules and Regulations made thereunder or the applicable law, as the case may be, and the remaining provisions of this Agreement shall remain valid and enforceable as applicable at the time of execution of this Agreement.

26. METHOD OF CALCULATION OF PROPORTIONATE SHARE WHEREVER REFERRED TO IN THE AGREEMENT:

Wherever in this Agreement it is stipulated that the Allottee has to make any payment, in common with other Allottee(s) in Project, the same shall be the proportion which the carpet area of the [Apartment/Plot] bears to the total carpet area of all the [Apartments/Plots] in the Project.

27. FURTHER ASSURANCES:

Both Parties agree that they shall execute, acknowledge and deliver to the other such instruments and take such other actions, in additions to the instruments and actions specifically provided for herein, as may be reasonably required in order to effectuate the provisions of this Agreement or of any transaction contemplated herein or to confirm or perfect any right to be created or transferred hereunder or pursuant to any such transaction.

28. PLACE OF EXECUTION:

The execution of this Agreement shall be complete only upon its execution by the Promoter through its authorized signatory at the Promoter's Office, or at some other place, which may be mutually agreed between the Promoter and the Allottee, in ____ after the Agreement is duly executed by the Allottee and the Promoter or simultaneously with the execution the said Agreement shall be registered at the office of the Sub-Registrar at ____ (specify the address of the Sub-Registrar). Hence this Agreement shall be deemed to have been executed at _____.

29. NOTICES:

That all notices to be served on the Allottee and the Promoter as contemplated by this Agreement shall be deemed to have been duly served if sent to the Allottee or the Promoter by Registered Post at their respective addresses specified below:

____ Name of Allottee
 _____ (Allottee Address)
 M/s _____ Promoter name
 _____ (Promoter Address)

It shall be the duty of the Allottee and the Promoter to inform each other of any change in address subsequent to the execution of this Agreement in the above address by Registered Post failing which all communications and letters posted at the above address shall be deemed to have been received by the promoter or the Allottee, as the case may be.

30. JOINT ALLOTTEES:

That in case there are Joint Allottees all communications shall be sent by the Promoter to the Allottee whose name appears first and at the address given by him/her which shall for all intents and purposes to consider as properly served on all the Allottees.

31. SAVINGS:

Any application letter, allotment letter, agreement, or any other document signed by the allottee, in respect of the apartment, plot or building, as the case may be, prior to the execution and registration of this Agreement for Sale for such apartment, plot or building, as the case may be, shall not be construed to limit the rights and interests of the allottee under the Agreement for Sale or under the Act or the rules or the regulations made thereunder.

32. GOVERNING LAW:

That the rights and obligations of the parties under or arising out of this Agreement shall be construed and enforced in accordance with the Act and the Rules and Regulations made thereunder including other applicable laws of India for the time being in force.

33. DISPUTE RESOLUTION:

All or any disputes arising out or touching upon or in relation to the terms and conditions of this Agreement, including the interpretation and validity of the terms thereof and the respective rights and obligations of the Parties, shall be settled amicably by mutual discussion, failing which the same shall be settled through the adjudicating officer appointed under the Act.

[Please insert any other terms and conditions as per the contractual understanding between the parties, however, please ensure that such additional terms and conditions are not in derogation of or inconsistent with the terms and conditions set out above or the Act and the Rules and Regulations made thereunder.]

IN WITNESS WHEREOF parties herein above named have set their respective hands and signed this Agreement for Sale at _____ (city/town name) in the presence of attesting witness, signing as such on the day first above written.

SIGNED AND DELIVERED BY THE WITHIN NAMED:

Allottee: (including joint buyers)

(1) Signature _____
Name _____
Address _____

Please affix
photograph and sign
across the photograph

(2) Signature _____
Name _____
Address _____

Please affix
photograph and sign
across the photograph

SIGNED AND DELIVERED BY THE WITHIN NAMED:

Promoter:

(1) Signature (Authorised Signatory) _____
Name _____
Address _____

Please affix
photograph and sign
across the
photograph

At _____ on _____ in the presence of:

WITNESSES:

1. Signature _____
Name _____
Address _____

2. Signature _____
Name _____
Address _____

SCHEDULE 'A' - PLEASE INSERT DESCRIPTION OF THE [APARTMENT/PLOT] AND THE GARAGE/COVERED PARKING (IF APPLICABLE) ALONG WITH BOUNDARIES IN ALL FOUR DIRECTIONS

SCHEDULE 'B' - FLOOR PLAN OF THE APARTMENT

SCHEDULE 'C' - PAYMENT PLAN

SCHEDULE 'D' - SPECIFICATIONS, AMENITIES, FACILITIES (WHICH ARE PART OF THE APARTMENT/PLOT)

SCHEDULE 'E' – SPECIFICATIONS, AMENITIES, FACILITIES (WHICH ARE PART OF THE PROJECT)

[The 'Schedules' to this Agreement for Sale shall be as agreed to between the Parties]

**By the Order of the Governor,
CHAITANYA PRASAD,
Principal Secretary.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 909-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>